

MANUFACTURER OF STAINLESS STEEL WELDED PIPES, TUBES & U-TUBES An ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007, PED Certified Company

To, The Manager, **BSE Limited**, Dept. of Corporate Services, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 To, The Manager, **National Stock Exchange of India Limited**, Corporate Communication Department, Exchange Plaza, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051.

Dear Sir/Madam,

Scrip Code: 533239; Symbol: PRAKASHSTL ISIN: INE696K01024

Sub.: Submission of Newspaper Cuttings of the Audited Financial Results for the Quarter and year ended 31st March, 2024.

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith copies of newspaper cutting of the Audited Financial Results of the Company for the Quarter and year ended on 31st March, 2024 published in "Business Standard", in English Language and in "Pratahkal", in principal vernacular (Marathi) language on May 29, 2024 pursuant to the Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Kindly take the same on your record.


Thanking You,

Yours faithfully, For **Prakash Steelage Limited**

Hemant P. Kanugo Whole-time Director DIN: 00309894

Registered Office: 101, 1st Floor, Shatrunjay Apartment, 28, Sindhi Lane, Nanubhai Desai Road, Mumbai – 400 004. TEL.: +91-22-66134500; FAX.: +91-22-66134599; E-MAIL : <u>cs@prakashsteelage.com</u>,Web : www.prakashsteelage.com

May 29, 2024



claim to the undersigned with documentary proof/s within 14 (Fourteen) days from this notice, failing which, shall be considered as waived off / abandoned/ given up or currendered penalty, interest, claim, vendor/ supplier payment, bills of various service providers or otherwise over M/S. HEATON FURNACES. are sted to inform the same in surrendered. **Description of the Property** vriting with copies of such documents Flat no. 602, 6th Floor, Girnar Co-op. Hsg. Soc. Ltd., T. J. Road, Sewree, Mumbai- 400 015 bearing CS No. 208 and other proofs, if any, with the Society Office between office hours Time: 4:00 P.M to 6:00 P.M. from the

each

(both inclusive).

(pt) of Parel-Sewree Division in the Jurisdiction of F/South Ward of the

Municipal Corporation of Greater Mumbai and Share Certificate No. 22

ssued by Girnar CHS Ltd. for Five

Sd/-

) बडौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसज लिमिटेड

date of publication of the notice till the date of expiry of its period. If no claim / objections are received within the period prescribed above, it will be presumed and/or deemed that there are no such claims / objections and if any, the same have been waived or abandoned to felicitate the transfer of Gala No. 24 as per Agreement For Sale Dated 25/10/1982 available in society record. Date: 29/05/2024

reque

8

For and on behalf of Shiv Shakti Industrial Premise Co-Op. Society Ltd. Sd/-


Hon. Chairman/Secretary

DHUNSERI INVESTMENTS LIMITED CIN: L15491WB1997PLC082808 Regd. Office: Dhunseri House 4A, Woodburn Park, Kolkata-700020 Phone: 2280-1950(5 Lines) Fax: 91-33-2287 8995 E-mail: mail@dhunseriinvestments.com; Website: www.dhunseriinv NOTICE TO SHAREHOLDERS OF THE COMPANY REGARDING TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND AND THE CORRESPONDING EQUITY SHARES TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013, read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended (the Rules), Members are hereby informed that the Dividend declared in the Financial Year 2016-17 which remain unclaimed or unpaid for seven consecutive years will be credited to the IEPF Authority on or after 14th September, 2024. The corresponding shares on which the dividend was not paid or claimed will also be transferred by the Company to the DEMAT account of the IEPF Authority.

The name of the concerned Members and their Folio numbers or DP ID and Client ID whose dividend and corresponding shares will be transferred to the DEMAT account of IEPF Authority are available on the Company's corporate website www.dhunseriinvestments.com. The Company had also duly informed all the concerned shareholders vide letter dated 22nd May, 2024 sent to their address registered with the Company.

In case the Company does not receive any communication from the concerned Shareholders by 20th August, 2024, the Company, with a view to comply with the requirements set out in the Rules, shall transfer the dividend and the shares to the DEMAT Account of the IEPF Authority within the due date without any further notice as



PUBLIC NOTICE

ection 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued demand notice dated : 30/12/2022 on calling upon Mr.Vinaval Suresh Salunkhe to repay the amount mentioned in the notices aggregating Rs.7,97,543/- (Rupees Seven Lakh Ninety Seven Thousand Five Hundre Forty Three Only) Plus further interest and Charges thereon within 60 day

the Legal Heir of borrower and the public in general that the undersigned has aken Symbolic possession of the property described herein below under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on the 24th day

The Borrower secured debtor in particular and the public in genera ereby cautioned not to deal with the property and any dealings with propert will be subject to the charge of the State Bank of India Hathkhamba Branch or an amount of Rs.7,97,543/- (Rupees Seven Lakh Ninety Seven Thousan Five Hundred Forty Three Only) Plus further interest and Charges thereon

The borrower's attention is invited to the provisions of sub-section (8) o ction 13 of the SARFAESI Act, in respect of time available, to redeem th cured assets

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Authorised Officer State Bank of India

All those piece and parcels of land and building situated at S.No.46 H.No.02, Kumbharwada, A/p Karbude, Tal. & Dist.Ratnagiri. Total are 120.54 Sq.Mtrs.

Fully paid up shares of Rupees Fifty Date : 24/05/2024 numbered from 106 to 110 Place : Ratnagiri

Dated- 29th May, 2024 at MUMBAI

Mr. V. S. KOKITKAR, Advocate High Court 21/21 BDD Chawl Lower Parel, Mumbai- 400 013.	JM FINANCIAL LIMITED Corporate Identity Number: L67120MH1986PLC038784 Regd. Office: 7 th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg,	
	Prabhadevi, Mumbai 400 025. Tel.: +91 22 6630 3030 • Fax: +91 22 6630 3223 • Website: www	v.jmfl.com
	PROPOSED TRANSFER OF FOUR	TV SHARES TO

INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND AUTHORITY NOTICE is hereby given that pursuant to the applicable provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended (the "Rules"), all the equity shares held by those members who have not claimed their dividend for seven consecutive years or more shall be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (the "IEPF") Authority.

In accordance with the Rules, the concerned members of the Company have been individually intimated at their latest available registered address, providing therein, the details of their equity shares proposed to be transferred to the IEPF Authority and requesting them to claim their unclaimed dividend. The Company has also uploaded full details of these members on its website viz., www.jmfl.com.

In case, the Company does not receive any communication from the concerned members on or before Wednesday, August 14, 2024, the Company shall transfer the shares to IEPF Authority as per procedure stipulated in the Rules. No claim shall lie against the Company or its Registrar and Transfer Agent (the "RTA") in respect of the shares transferred to IEPF. However, the concerned members may claim their shares from the IEPF Authority in accordance with the procedure and on submission of such documents as prescribed under the Rules.

In case of any queries, the concerned members are requested to contact the Company or its RTA at the following address/email id/ telephone number.

YASH MANAGEMENT & SATELLITE LTD.

Read Office: 303, Morva Landmark I. Opp Infiniti Mall, Off. New Link Road, Andheri (West), Mumbai-400053 CIN: L65920MH1993PLC073309 Extract of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2024

			5	STANDALON	E		CONSOLIDATED							
		Q	uarter Ende	d	Year	Ended	C	Quarter Ende	Year	Ended				
			31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)			
1.	Total Income from Operations	2383.21	771.29	747.64	3851.04	1784.62	2339.54	772.51	1291.81	4240.46	3405.82			
2.	Net Profit/(Loss) before Exceptional items and Tax	0.45	64.59	(35.42)	154.87	127.67	219.64	57.29	(90.14)	(207.47)	(135.91)			
3.	Net Profit/(Loss) before tax after Exceptional items	0.45	64.59	(35.42)	154.87	127.67	219.64	57.29	(90.14)	(167.56)	(135.91)			
4.	Net Profit/(Loss) after tax	(11.72)	50.11	(33.01)	118.61	108.42	288.90	42.81	(109.62)	(164.96)	(177.05)			
5.	Total Comprehensive Income for the period net of tax	(8.64)	106.34	49.20	201.37	117.29	291.97	99.04	(125.81)	(82.21)	(168.18)			
6.	Equity Share Capital (Face value Rs. 10/- per share)	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700			
7.	Reserve excluding Revaluation Reserve	-	-	-	1024.99	823.60	-	-	-	652.07	623.68			
8.	Earnings Per Share													
	1. Basic:	0.05	0.63	(0.29)	1.18	0.69	1.02	0.60	(0.47)	0.17	(0.24)			
	2. Diluted:	0.05	0.63	(0.29)	1.18	0.69	1.02	0.60	(0.47)	0.17	(0.24)			

The above standalone and consolidated audited financial results have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 27th May 2024 pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), Regulations 2015 (as amende

The above results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read together with the ompanies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended).

The above is the extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Bombay Stock Exchange Limited under regulation 33 SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), Regulations 2015. The full format of Quarterly /Annual Financial Results are available at www.bseindia.com and www.yashmanagement.ir

By order of the Board For Yash Management and Satellite Ltd.

> Sd/ Anurag Gupta Managing Director - DIN:00398458

(Rs. In Lakhs)

Date: 27th May, 2024

PANSARI DEVELOPERS LIMITED CIN: L72200WB1996PLC079438

	Regd.	Office : 14	, N.S	. Road,	4th Floor	Kolkata -	- 700 001,	(W.B.), India
Talashasa . 000 4	AAFAF	00 E	Inda.	0	and desired as a		Mahalta	· ····································

Telephone : 033 40050500, E-mail : info@pansaridevelopers.com, Website : www.pansaridevelopers.com Statement of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2024

									(R	ls. In lakhs)
		ę	Standalone	9			C	onsolidate	d	
Particulars		Quarter Endeo	d	Year	Ended		Quarter Ende	Year Ended		
	31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
Total income from operations (net)	1179.61	3131.17	503.23	5858.78	2381.01	1438.91	3131.65	509.83	6168.05	2399.37
Net Profit / (Loss) from ordinary activities		1 '	1 !	1 '	1 1					
after tax	149.13	207.10	50.50	520.76	201.07	149.29	206.93	48.20	520.76	201.07
Net Profit / (Loss) for the period after tax		1 '	(1 '	1 '					
(after Extraordinary items)	149.13	207.10	50.50	520.76	201.07	149.29	206.93	48.20	520.76	201.07
Total comprehensive income /loss for the		1 '	1 1	1 '	1 1					1
period after tax and other comprehensive		1 '	1 1	1 '	1 '					
income /loss after tax	151.05	207.10	56.26	522.68	206.99	151.21	206.93	53.96	522.68	206.98
Equity Share Capital	1744.68	1744.68	1744.68	1744.68	1744.68	1744.68	1744.68	1744.68	1744.68	1744.68
Reserves (excluding Revaluation Reserve		1 '	1 1	1 '	1 '					
as shown in the Balance Sheet of Previous year)			(10920.16	10397.48			-	10920.20	10397.52
Earnings Per Share (before extraordinary items)		1 '	1 1	1 '	1 '					
(of Rs. 10/- each)		1 '	1 1	1 '	1 '					
Basic :	0.85		3 3	2.98	2012	10 10 10 1	1.19	101 101	2.98	100
Diluted :	0.85	1.19	0.29	2.98	1.15	0.86	1.19	0.28	2.98	1.15
Earnings Per Share (after extraordinary items)		1 '	1 1	1 '	1 '					
(of Rs. 10/- each)		1	[]	1	1					
Basic :	0.85						1.19		2.98	
Diluted :	0.85	1.19	0.29	2.98	1.15	0.86	1.19	0.28	2.98	1.15

Note : The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31.03.2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter and Year Ended 31.03.2024 is available on the Stock Exchange websites.

Company's website : www.pansaridevelopers.com

NSE Limited : www.nseindia.com

Notes :

Sd/

1) The said financial results were reviewed by the Audit Committee and were thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 28th May, 2024.

In accordance with the requirements under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Statutory Auditors have performed a audit of the financial results of Pansari Developers Limited for the Quarter and Year Ended 31st March, 2024. There are no qualifications in the report issued for the said period.

> For and on behalf of the Board of Pansari Developers Limited

> > Sd Mahesh Kumar Agarwa DIN: 00480731 Managing Directo

Place : Kolkata Date : 28.05.2024



KALLAPPANNA AWADE ICHALKARANJI JANATA SAHAKARI BANK LTD., (Multi-State Scheduled Bank)

Head Office: 'Janata Bank Bhavan', Main Road, Ichalkaranji 416 115, Tal - Hatkanangale, Dist-Kolhapur (Maharashtra State), Phone No.0230 - 2433505 to 508

DEMAT Account of the IEPF Authority within the	a due date without any further notice as	IM Financial Limited			ning Linet			- MERCHANNER			
per the procedure stipulated in the Rules. The		JM Financial Limited, 5 th Floor, Cnergy,		KFin Technolo Unit: JM Finar				1000	Branch Office :- 239,	Garodia Chambers, Kalbadevi	Road, Mumbai – 400 002. (Maharashtra State).
with the Company or with the Company's F		Appasaheb Marathe Ma	ara.	Selenium Tow		λ,					
vari Datamatics Pvt. Ltd., at 23, R. N.	Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata -	Prabhadevi, Mumbai –		Plot 31-32, Fir		rict,				DEMAND NOT	ICE
nata way will be able to alaim the divide	and and the shares transferred by the	Email: ecommunication				mpally	NOTIC	CE LINDER SE	CTION 13(2) OF THE SECI	IRITISATION AND RECONSTRUCT	ION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF
	end and the shares transferred by the lication in the prescribed form IEPF-5	Website: www.jmfl.com Tel.: +91 22 6630 3030		Hyderabad, R Telangana – 5			NOTIN				TY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.
0 11	also forwarding a duly signed physical	Tel.: +91 22 0030 3030		Toll Free No.:		001			,		
	RTA along with requisite documents			Email: einward							Bank) has issued demand notice under section 13(2) of the
d in IEPF-5.				Website: ww	w.kfintech.	.com					est Act, 2002 to its following defaulter Borrower, Guarantors
	For Dhunseri Investments Limited			For JM	Financial	Limited					and severally to make payment of dues in full with interest
	Sd/-	Place: Mumbai			Dimpl	e Mehta					on their failure to make payment as requisitioned, the Bank
Kolkata	Nikita Gupta	Date: May 28, 2024	Con	npany Secretary a				ercise all of any erits dues.	or its rights under section 15	(4) of the said Actinciuding take over p	possession of its secured properties and put them for sale to
28 th May, 2024 Comp	pany Secretary & Compliance Officer			, , , ,			10000	er na uuea.			1
							Sr.	Name of	Borrower/Guarantors	Date of	Details of Bank's secured properties
	PF	RAKASH STEELA	GE LIIV	IIIED			No		Loan Account No.	demand notice	Details of Ballk's secured properties
		CIN: L27106MH1991F						una	Eoun Account No.	and amount due	
IC NOTICE	Regd. Office: 101, 1 st Floor, Sha	itrunjay Apartment, 28, Sindhi prakashsteelage.com Websit			umbai - 400 (004.	1.	(1) Mr. Raju Na	liniranjan Patra, R/o. Flat No.	Dated 14/03/2024.	All that part and parcel of the property of Flat No. 204,
E THAT My Clients, Canara anch Mumbai, had sanctioned		Tel. No.: 022 66134500 Fax N							Building No. 4, Sai Prem		admeasuring 21 Sq. Mtrs. built up area on the 2 nd floor of the
Term loan facility to one M/s.	Extract of Statement of Audite	ed Financial Results for t	the Quarter	r And Year ended	31st Marc	h, 2024			Prem CHSL, New Link Road,	Rs. 4,81,714/- due as on 29/02/2024	building No.4, known as "Sai Prem Apartment in the society
am Pvt. Ltd. For Rs. 75.00 a Mortgage Security of Unit			101		(R	Rs. in Lakhs)			305, TalVasai, Dist. Palghar.	together with further interest at the	Sai Prem Co-op Housing Society Ltd., constructed on the
d Floor, Building No. F 4, Bhumi	Sr.		Quart	ter Ended	Year	Ended		(Borrower), (2) N	Mrs. Papia Raju Patra, R/o. Flat	contractual rate of interest and cost	portion of all that piece of parcel of land bearing Survey No.
ed on land bearing Survey No. of Village Pimplas, Talathi Saja	No. Particulars		.2024 31.1		31.03.2024		1	No. 204, 2nd Flo	oor, Building No. 4, Sai Prem	expenses etc. thereon.	399, Hissa No.2 and 5 situated at Village Virar, Jayshree
andi, District- Thane, owned				udited Unaudited	Audited	Audited	1	Apartment, Sai	Prem CHSL, New Link Road,		Jagannath Nagar, Nalasopara Virar Link Road,
ystem Pvt. Ltd. created Mortgage by	1 Total income from operations (net)	2,6	55.80 2,	591.95 3,143.43	12,680.55	9,657.20	1	Virar (E)- 401 3	305, TalVasai, Dist. Palghar		Manvelpada, Virar (East), Taluka- Vasai, Dist – Palghar ,
sale entered between	2 Net Profit / (Loss) for the period			10111	0.050.54	000.00			Mr. Jaydip Rampada Adak,		within the area of sub-Registrar at Vasai No. II (Virar), the property described above with all its contents, easementary
Associates and M/s. APF	(before tax, Exceptional and/or ex	, ,	60.89	104.14 -97.68	2,353.51	308.60			02, Sai Prem Apartment, Near		rights and building therein owned by you No. 1 Mr. Raju
ems Pvt. Ltd. dated	3 Net Profit / (Loss) for the period be (after Exceptional and/or extraordi		37.82	104.14 -97.68	5,830.43	308.60			hath nagar, Manvel Pada, Virar		Naliniranian Patra and You No. 2 Mrs. Papia Raju Patra.
receipt no BWD1- Rs 30,640/- issued by	4 Net Profit / (Loss) for the period af		57.02	104.14 -97.00	0,000.40	300.00			, Tal Vasai, Dist. Palghar.		
30,640/- issued by flice at Bhiwandi-1	(after Exceptional and/or extraordi		05.66	101.03 8.32	5,788.73	414.61) Mr. Dinesh Basudeb Jana,		
2	5 Total Comprehensive Income for th			0.02	0,1 00.1 0	11 1.01			40, 4 th floor, Plot No. 343 A,		
2,16,010/- towards stamp 04.2024	[(Comprising of Profit for the year	(after tax)							agpar Building, Badamwadi		
ent issued by Sub	and Other Comprehensive Income	(after tax))] 3,5	05.68	100.44 13.94	5,786.97	412.23			adevi Road, Mumbai 400 002.		
ice at Bhiwandi-1 -Mortgage noting letter	6 Paid-up equity share capital		50.00 1,1	750.00 1,750.00	1,750.00	1,750.00		(Guarantor).			
der in favour of Bank	(Face Value of the Share : Re.1/- ea	ach)						(Loan A/c No. S	VLLIEMI-30)		
sued by builder towards the consideration made by owner	7 Earnings per share						The P	orrowers and C	Quarantore have overlad the	envice of the said domand notice and	d the same is returned to the Bank by Postal Authority with
s that full set of above Title ing above documents are lost.	(Face Value of Share :Re1/- each) (for continuing and discontinued op										
necessary Police complaint	(a) Basic		2.00	0.06 0.00	3.31	0.24		10 M 100 M 100 M 10			mark as "Addressee absent" endorsed on envelop and The
ect, under No. 55235-2024 with olice Station.	(b) Diluted		2.00	0.06 0.00		0.24		•			contents of the said demand notice as above are published
is in possession of said	NOTES :	I		1,00							s, 2002 as above. The said Borrowers and Guarantors may
/ found the same shall be er to Canara Bank, Bhandup	a) The statement of financial results has	s been prepared with the Indian	n Accounting	Standards (Ind As)	prescribed u	nder section				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nd Mortgagers are hereby once again called upon to make
nch.	133 of Companies Act 2013 with relev					References models and the second					st thereon at contractual rate till date of payment in full to the
ring any claims or right in id above Shops by way of	applicable.		(**)	1983 Kr						•	orrower, Guarantors and Mortgagers are prohibited from
re, sale, mortgage, lease, gift, possession, or	b) The above results have been reviewed										sent obtained, and therein attention is invited to provision of
owsoever or otherwise is	meeting held on 28th May,2024 and						section	n 13(8) of the sa	aid Act in respect of time availa	ble to redeem the secured assets mer	ntioned above by making payment of dues in full to the Bank.
o intimate to the undersigned m the date of publication of	c) The above is an extract of the detail Regulation 33 of the SEBI (Listing and										
such claim, if any, with all	Financial Results are available on the		, .				Place	: Mumbai			
ments failing which My client uch claims if any shall be	(www. nseindia.com and www.bsein		prunuonototo	- ,	der of the Boa			28/05/2024			64/
ed and not binding on them.		Y.			der of the Boa kash Steelad		Daio.	20/00/2027			Sd/-
Mr. Niteen K. Kamat, Advocate,					Sd/-						(S.R.Sawant)
Niwas, 2nd Floor, Dada Patil Road,	Place : Mumbai				shok M. Seth						Chief Manager & Authorized Officer
Near Warnan Hari Pethe Jewelers, est - 400602. Mobile - 9820004085	Date : 28th May, 2024				Executive Dir 1 : 00309700					Kallappanna	a Awade Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Ltd.
	·			UII		•					







प्रातःकाल मुंबई, बुधवार दि. २९ मे २०२४ 🤱 अमेरिकेतील संकट बनलं भारतासाठी संधी?; औषध उत्पादक कंपन्यांना मोठा फायदा

नवी दिल्ली, दि. २८ (वृत्तसंस्था) जगातील सर्वात मोठा औषध बाजार असलेल्या अमेरिकेत सध्या औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. स्तनाच्या कॅन्सरपासून ब्र्नेंडर किमोथेरेपीसाठी औषधांची कमतरता आहे औषधं तुटवड्याच्या संकटात निर्माता कंपन्यांना फायदा भारतीय औषध निर्मात्यांन या तुटवड्यामुळे आर्थिक चांगली कमाई होऊ शक रेटिंग्स अँन्ड रिसर्च कंपनीनं

जागरूक जीवनशैलीसाठी

क्लिअर पीमियम वॉररचा उपरुप नवी दिल्ली, दि. २८ (वृत्तसंस्था) : गुणवत्ता-केंद्रित आणि ु मूल्य-चालित पॅकेज्ड वॉटर कंफ्नी क्लियर प्रीमियम वॉटरने तीन डिजिटल व्हिडिओ कमर्शियल (डीव्हीसी) ची एक रोमांचक नवीन श्रंखला सरू करण्याची घोषणा केली आहे. जे जागरूक जीवनशैली आणि कचऱ्याच्या जबाबदार व्यवस्थापनास समर्थन देते. हा उपक्रम बनावट उत्पादनांबद्दल जगरूकता वाढवण्याबरोबरच जागरूक वापर आणि पर्यावरणास अनुकूल पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी कंपनीची वचनबद्धता देखील अधोरेखित करतो. क्लिअर प्रीमियम वॉटरचे संस्थापक आणि सीईओ नयन शाह म्हणाले, ''क्लिअर प्रीमियम वॉटरमध्ये आमचा विश्वास आहे की प्रत्येक व्यक्तीमध्ये बदल घडवून आणण्याची शक्ती आहे. कृतीला प्रेरणा देण्यासाठी आणि सशक्त करण्यासाठी या शक्तिशाली कथांद्वारे. आम्हाला अधिक पर्यावरणीयदृष्ट्या रिकाऊ जगाच्या दिशेने सामूहिक चळवळीला प्रोत्साहन देण्याची आशा आहे.'' य शंखलेतिल पहिले डीव्हीसी ''जाणीवपूर्वक जगा, शहाणप्रणाने निवडा'' कंपनीचे सजग राहणीमान आणि शहाणपणाने निर्णय घेण्याचे सिद्धांत समाविष्ट करते. दुसरे डीव्हीसी 'फेकसेफ्रीःसल्प्रता स्वीकारा' हे बनावट उत्पदनांविरुद्ध कारवाईचे जोरदार आवाहन आहे. जे वास्तविक विरुद्ध बनावट या लढाईतील बँडच्या मोहिमेचे प्रतीक आहे. आकर्षक डील आणि आलिशान पॅकेजिंगच्य पार्श्वभुमीवर, जाहिराती खऱ्या उत्पादनांच्या सत्यतेचा पुरस्कार करताना बनावट वस्तूंच्या फसव्या स्वरूपावर प्रकाश टाकते. अंतिम डीव्हीसी ''जबाबदारीने विल्हेवाट लावा, आमच्या पृथ्वीचे रक्षण करा'' हे

भविष्यातील पिढ्यांसाठी पर्यावरणाचे संरक्षण

ম্বার নুর্ন্থ জািক ২৫)

भारतात जेनेरिक औषधे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन केले जातात. त्यात मोठे गावन नगणः जनावनः अवर्थने नगा नगाः (जात्र नगः) । औषधांचा इगमेकसं डॉ. रेड्रीज, सिपला, सन फार्म कॅन्सरपासून देशाबाहेद अमेरिका, युरोप येथे चांगली लागणाऱ्या कमाई करत आहेत. अमेरिका त्यांच्याकडील



वाढल्या. एप्रिलपर्यंत २२ आरोग्य केंद्रात २३३ औषधांचा तुटवडा जाणवला. अमेरिका पुरवठादार साखळीचीही चौकशी करणार आहे.

घोषणा झाली तेव्हा लोकांनी औषधांचा साठा घरी करण्यास सुरुवात केली. साठा घरी करण्यास सुरुवात कला. थाववल आह. त्यात नवान आषध वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे निर्मितीच्या प्रशासकीय परवाना अमेरिकन बेरेड जेनेरिक फार्मा घेण्याची प्रक्रियाही गुंतागुतीची बनली

कंपन्यांनी काही औषधांचं उत्पादन थांबवलं आहे. त्यात नवीन औषध

आहे. त्यामुळे भारतीय कंपन्या पुरवठा साखळीचा विस्तार करून आरोग्य क्षेत्रातील भागीदारी वाढवून हा तुटवडा भरू शकतात.

	लागणाऱ्या 🛛 कमाई करत आहेत. अमेरिका त्यां-	याकडोल 🗾				कोविड ल			ल 🗌								
बड्याच्या संकटात पन्यांना फायदा	अमेरिकेतील बहुतांश औषधे भारतातून आय	त करते. 🚺			अ			साठी औषधांच				10.15	। स्टीलेज	निमिटे			
पन्यांना फायदा					म	गणी वाढली	ो होती. फाम	र्ग कंपन्यांवर उ	ग			त्रीसायस्य :	27106MH19	91PLC0615	595		
								व वाढला होत			मोदनीकृत कार्या झिम्र : CS/C	लगः १०१, रहुंजय)prakashsteela	ge.com चेपसास	: www.prak	ashsteelage.o	o ee¥.	
औषध निर्मात्यांना जगन्ते शार्थिक वा				म्युरिटीजनं म्हटलं २३२ मध्ये २००				कटामुळे पुरवत जगाने नेनेकि		*	११ मार्च, २०२४ रो	Tt: 022-50	(3X4.00 GRE 1	, 077-6673X	22		
वामुळे आर्थिक वर्ष माई होऊ शकते				०२३ मध्ये ३००- हिल्यानंतर २०२१				त्यामुळे जेनेरिव फटका बसल		槞.	रत माच, २०२४ रो	जा सरसंख्या कि	নহাৰ গৰ জাতন	प्यारता सरमाप	त्त्वात्त विसाय वि	म्बरामा अञ्चल	र, सारमात
माइ हाऊ शकत इरिसर्च कंपनीनं म				18ल्पानतर २०२१ १३ औषधांच्या वि				फटका बसल व्या त्रुटवड्याच		-		L		तिगादी अस्मेर			अस्रोर
	્યા પ્રસાવ પ્રાથમિક સાથે છે.						્ય આવેલીય	ુ પુરુષભ્યા		अ <u>ल</u> . इ	विवरण		१.०३.२०२४ सोरवापरीवित	वर.१२.९०२३ जलेखावरीकित	३१.०३.२०२३ जलेखापरीडिव	३१.०३.२०२। सेरवापरीवित	३१.०३.२०९३ लेकान्सीहित
विनशेलीसाठी										१. कार्यचलनातून ए	हूण उत्पन्न (मिष्वळ)		२,६५५.८०	अस्प्सापराक्षत २,५९१.९५	३,१४३.४३		
म बांटरचा वपक्रम		lome Firs	t Finan	ce Com	pany l	India L	Limite	d		२. कालावधीकरिता	निष्णक नफा/तोटा						
देल्ली, दि.	homefirst	IN: L65990MI	12010PLC	240703							१/वा अतिविरोष वाबी करिता निञ्चळ नफा/		\$0.68	\$08.8 8	-96.80	: २३५३.५	306.80
रस्था): दिन आणि	Merill Fake you home	Vebsite: homef Phone No.: 180	III SUI PUIG.C		D: loanfi	rst@bom	efirstind	lia.com	-	(সরিমিক ৰ/ৰা	अतिविशेष बाबीच्या '	स्वात)	3436.69	₹0 ¥. ₹ ¥	-90.50	4680.8	\$06.50
द्रित आणि त पॅकेज्ड						- Current					वधीकरिता निष्वळ नप अतिथिरोष वागीच्या '		8404.88	\$02.08	6.8	4066.01	888.68
बिलयर	संदर्भ: सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन		ाबा सूचन			a)		_			एकूण सर्वसपावेशक उ			1.1.1		(03010	
टरने तीन	संघन: सिपयुर्गाटा इटरस्ट (एन ज्याअर्थी, खालील स्वाक्षरीकर्ता हे होम फर्स्ट फायनान्स	कंपनी इंडिया लिमिटेडचे	प्राधिकत अधिकारी	ानचन ८ च उ) आहेत आणि सिक्सर्र	रीटायझेशन ऑन्ड	८) अन्यय इ रिकन्स्टक्शन अ	जावा सूच ऑफ फिनान्शियल	। असेटस ॲन्ड			समाबिष्ट (कर पश्चात) पत्र (कर पश्चात)	ब अन्म	3404.56	100.88	\$3.93	4664.91	\$12.28
हडिओ	एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट २००२ (कायदा असलेल्या अधिकाराअंतर्गत खाली नमुद केलेल्या तारखांना	E. ५४/२००२) आणि सिक	स्युरिटी इंटरेस्ट (एनफ	फोर्समेन्ट) रूल्स, २००	०२ च्या कलम १	१३(१२) सहवारि	चेता नियम ३ अन	वये त्यांना प्राप्त		६. प्रदानित क्षेभर म			1040.00	\$104,0.00	1040.00		
(डीव्हीसी)	असलल्या आधकारा अतगत खाला नमुद कलल्या तारखाना जमा करण्यात्रावत तुम्हाला/कर्जवारांना कळविण्यात आले अ	त्वानां मागणां सूचना वितरात हि. तुम्ही/सर्व कर्जवार हे खा	। कला आह आएग ाली नमूद केलेली थर	त्या सूचननुसार संवाध कवाकी रक्कम विहित '	ात सूचना प्राप्त त . बेळेत भरण्यास २	जारखपासून ६० । असमर्थ ठरले अस	ादवसाच्या आत । सून होम फर्स्ट फा	यकवाका रक्षम यनान्स कंपनी			सः : २. १/- प्रत्वेभी)						
ांचक नवीन	इंडिया लिमिटेड ने सदर सरफायसी कायदा २००२ च्या कल नमद प्रमाणे घेतलेला आहे:-									 उत्पन्न प्रति शेखन (हर्वनी प्रान्स केंट 	सर रु. १/- प्रत्येकी)						
र करण्याची हे अपने जे					_	A 1757	असराजी				कार्यचलनाकरेता)						
गे आहे. जे रेज्यारेजी	अ. कर्जदार/सह-कर्जदार/ क्र. जामिनदाराचे नाव	तारण मालम	तेचे तपशील		मागण सूचनेच	नी एक्हण ची रक्का	श्वकवाकी म मागणी	ताबा दिनांक		ए. मूल			2.00	0.0Ę	0,00		
ोवनशैली याच्या	-				वारीस	ख सूचना त	तारीख (रु.)			बी. सीम्य टिप-			2.00	0.05	0.00	3.3	9.98
वस्थापनास		मारत १, टाईप बी १, ईएसजी हास्कळ फाटा, कल्याण-ग				2023 10,	,70,970	27-05-2024		ए. कंपनी कामदा २०१	ज्या अनुच्चेद १३३	अंतर्गत इंडियन व	मकाउंटिंग स्टॅप्फर्य	स (आवस्तवी स	एस) विद्यित मांच	वासह वित्तीव अह	वास तथार करण्यात
. हा उपक्रम	alta alta lata alta alta alta alta alta	Fience and, acain-	गावला संब, गाव र	SIGIC, ICC41001 4	a -					आला आहे तसेष संग बी. लेखा समिती द्वारे ग	वित नियम लागू निय जन्म सामग्रीय स	म मांच्या मंखूर खा कि विकर्ण व सं	ते पॅक्टीसेस व धो राजक पंजनपर्य	रम बांच्या अंतर्ग संबद्ध कंपरीकी र	त जारी करण्यात '	बेतील. २०२४ रोजी जाव	िक केकी आहे ज
. हा उपक्रम बदनांबद्दल	कर्जदार हे वर नमूद केलेली रक्कम भरण्यास असमर्थ ठरले	असून कर्जदार/जामिनदार	व सर्वसामान्य जन	।तेस येथे सूचित करण्ड	प्रात येत आहे की	ो, खालील स्वा [;]	क्षरीकर्त्यांनी सदर	कायदधाच्या		कंपनीच्या वैधानित ले	खा बांचा मर्यादित अ	हवाल यांच्यासह प	ाष्ठाया.				
	कलम १३(४) सहवाचिता सदर अधिनियमाच्या नियम ८	अन्वये त्यांना प्राप्त असलेत	ल्या अधिकारा अंतर्ग	र्गत वर नमूद केलेल्या	। तारखेला मालम	मत्तेचा ताबा घेतले	लेला आहे.			सी. वरील हे सेवी (सूच वित्तीय अहवाल व	। अनिवार्मता व विमो	बन आवल्पकता)	विनिवनन २०१५	च्या विनिवम ३। गर्थिक क्रिमीज) जंतर्गत स्टॉक प आहवाला मांग	रक्सचेत्रेससह दाख संपर्ध प्राच्या	ल तिमाही/ वार्विक कंपनीची बेल्प्पण्ट
ोबरच	विशेषतः कर्जदार/जामिनदार आणि सर्वसामान्य जनते									www.prakashst	elage.com a स	োৰা ধাতন জ গ্ৰঁক হলয়ৰ্বৰ বা	६. ।तनाहा/ व वेबसाइट <u>≤ww</u>	w.nseindia.c	om> and <w< td=""><td>ww.bseindia</td><td>्रात्त्र यर उपलब्ध</td></w<>	ww.bseindia	्रात्त्र यर उपलब्ध
पर आणि	व्यवहार केलेला असल्यास त्यांनी होम फर्स्ट फायनान्स व	अ्पनी इंडिया लिमिटेड यांच्	च्याकडे रकम पुर्णप)णे जमा होईपर्यंत पुढीव	ल व्याजासह देय	। असलेली उपरो	ोक्त मालमत्ता/प्रा	तेभूत मालमत्ते		आहे.						-	जाणा आवेसान्यने
अनुकूल	समोर नमुद केलेली रक्षम जमा करावी. कर्जदारांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे की, प्रतिभूत म	ाल्पाना सोहत्वन घेल्ल्ल	ाजी उपल्का ले न े	วันสมโส สายสาวา	an acarı 9 5 -	चे उपकर्त्ता (नी नाजर 	आहे									सि. गांच्याकरिता
साहन		ल्लचा साढवून धण्यास	নতা ওপগুৰুষ বক্ত	গ্রন্থগার কাথগ্রার্জ	सा फाल्टम र ३ न	ন ওপকর্তন (৫											सदी/- असोक प्म. सेठ
रुपनीची	ठिकाणः टिटवाळा दिनांकः २९.०५.२०२४				होर	म फर्स्ट फाखना	प्राधिकृत ान्स कंपनी इंडि	ा अधिकारी, या लिमिटेड	- 	ठिकाण : बुंबई							कार्यकारी संचालक
देखील									- L	दि. २८ में, २०२४							N : 00105068
करतो.																	
मेयम				<u> </u>	<u>ee`</u>	_			ז ר				<u> </u>	0.55	0.0	~	
थापक	अगरवा	ल इंडस्ट्रि	अल का	परिशन	लिमिट	ंड				6		राज	श्री पॉ	लीपॅक	त्तिमि	टेड	
र्ग नयन	नाइणीकृत कार्याल दरा	१ : युनिट क्रमांक २०१- २ यनी क्रमांक : ०२२- २५२	१९११४९/ ५०, पॅल	वसः ०२२- २५२९	बबूर, मुंबई ४०० ११४७	9 06 J				RppL	नोदणीकृत कार्यालय	: ५०३-५०४, लोब	सुपीमस, बिल्डीग ठाणे	क्र. १, ५ या मजर (प) ४०० ६०४ म	ला, रोड क्र. २२, न गरत.	यु पालगोर्ट कार्यालय	हबळ, बागळे इस्टेट,
ो, "किलअर	Advande allow	सीआवएन : एल ९९९	999F FUFU	पीएलसी०८४६१८						- A A A	कॉपॉरेट कार्यालय :	५०२, लोढा सुपीमस				कार्यलयजयळ, या	ाळे इस्टेट, ठाणे (प)
टरमध्ये,	३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेल्या ति	संकेतस्थळः www.aic गाहीसाठी आणि आर्थिक				वित्तीय निकान	तांचा सारांग						सीआवएन : जेराणान	दूर. +९१ २२ २५ 25209MH2011F	PLC223089		
वास								(रूपये लाखांत)		दि. ३१ मार्च	, २०२४ रोजी संघ	लेल्या तिमाही व	वन्साइट : ॥ वर्ष अखोरकरि	ww.rajshreepoly ता स्थायी अले	खापरीक्षित विन	तीय अहवालाच	निष्कर्श
येक	अ.इ. उपशील	त्त्वतंत्र	एकत्रि		स्वतंत्र			कत्रित									(ह. साखाल)
बदल	संपत्नेत	ही विमाही	संपलेली चालू तिमाही	मागील वर्षीची तिमाही	संपक्षेले विर्त्त	वि वर्ष	सपलेल	। वित्तीय वर्ष						त्रमाही अखोर		वर्ष	अखोर
गण्याची कतीवग	34/03/	२०२४ ३१/०३/२०२३			3/03/2028	39/03/2023	39/03/2028	39/03/9093		अमु. इर.	विवल्ग		414, 1015	३१ डिसॅंबर, २०२३	३१ मार्च, २०२३	३१ मार्च, २०२४	३१ मार्च, २०२३
कृतीला जन्मे आणि	 कार्यान्वयनातून मिळालेले एकूम उत्पन्न ६६.९८ 	लेखापर्य ७.४९ ५९.२९५.१७	ग्रिसित	88096.84 96	20489.002	लेखप १७४६८५६७	सीक्षित २१३,०४२.५१	202,806,44						अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
साठी आणि ग्यासाठी या	 कासान्वयनातुन ामळालल एकूम्म उत्पन्न ६६९८ निव्वळ नफा / (होटा) कालावधीकरिता करपूर्व, ५,९५ अप्यादात्मक गांगी आणि विरोध मांगी पूर्व) 		886220.02 8.38.0.92		204893.88	900623680 6,636.99	293,082,49 92,896,46	202,806,99		१. कार्यचलनामधून			6486.63	\$469.00	80098.88	२५४२९.३२	
ग्वासाठा वा कथांद्वारे,	3 निरवळ नव्य / (तोटा) कालवधीकरिता करपर्व 9.९५	2.2.2 9,699.99	8,260.92	3,330,02	39,593,3	6,636,99	92,896.46	90,985,08		२. कालावधीकरित अतिविशेष बाबी	(कर पूर्व, अति) निव्वळ नफा/तोटा	ক্ষে ৰ/ৰা	\$07.43	386.06	\$99.80	१२१३.३९	8835.96
कथाद्वार, धिक	(अपवादात्मक बाबी / विरोध बाबी परचात)									 ক্রম্বর্র ক্রালার 	धीकरीता निख्लळ न	का/ तोटा	968.90	380.75	396.63	११९२.६५	१४३४.०१
ापक रण्ट्या	अपवादात्मक वाबी / विशेष वाबी परचात)	9.303.57	3,000,8	2,629,58	8,846.48	8,838.68	90,929.98	9,224,69		×. কাপথাৰ কাল	ग अतिविशेष बाबीपक्षात गवधीकरिता निस्वळ	नका/तोटा	202.62	રવય, ક્રય	242.80	658.28	2054.96
ृष्ट्या च्या दिशेने	 प्रमुख सर्वक्रम उत्पन्न कालावधीकरिता (ज्यात नफा) १,४२ गोटा) कालावधीकरिता (करप्रस्थात) आणि अन्य 	0.38 9,380.82	3,644.96	2,868.852	8,844,99	૪,૬૨૧.૭૫	99,908.82	9,222.00		(अतिविशेष व/	য় অতিথিয়িষ ৰাৰ্মাণশ্ৰাস	1)					
ळवळीला	सर्वकाय उत्पन्न (कर परचात) यांचा समावेश आहे.										एकूण सर्वसमावेशक उत	নন	250.00	748.84	२६०.३१	\$3.665	2003.29
ळपळाला ण्याची	 इतिवदी समभाग भांठवल राखीव (मुनर्भूत्वांकान राखीव निधी वगळून) मागील व्यविधा लेखाशीक्षित वाळेवंदात नमुद कारण्यात 		9,894,82 89,808,03		9,884,82	9,584,62	9,584,92 50,303,93	9,294,02		 इक्रिटी शेअर भां अन्य इक्रिटी (मृ 		1)	3554.20	1999.80	\$\$88.90	3554.70 88480.08	22888.90 2269.52
^{•आ} आ ''या	 राखाव (पुनमूल्याकन राखाव निर्धा वग्यदून) मागाल ३२,८५ वर्षेड्यया लेखापरीक्षित वाळेचंद्रात नमूद कलण्यात प्राराण्डम्प्र (तम्प्र कील्प्र) 	K-44 KC,484,40	= 114 06.08	APTRANTSO \$	~1074.46	x4,484,40	. (,çuğ.03	6020420		 अन्य इकिटी (मृ ८. उल्पन्न प्रति शेअन 	भग जाराक्ष्म यगस्तव	<u>.</u>	-	-	-	11410.08	11097.09
पहिले	आत्यानुसार (अन्य इविद्यदी) ८ प्रति समध्या अर्जन (रु १० प्रायेखी)**		-+		-+					र. जनभाषाः सजस्य मूळ			0,44	90.0	60,0	2.39	3.22
णीवपूर्वक	(अखडित आणि खडित कार्यान्वयनासादी)	_ _						 		सौम्च			0.44	90.0	50.0	24.9	3.22
ापणाने	(क्यांडत आण खाडत कामान्वमनासाता) १ मुळ (फ)	९.५२ ९.५०	24,59	98.46	22.94	36.95	63.00	£3.00C		दि. ३१ मार्च	, २०२४ रोजी संप	लेल्या तिमाही व	वर्षअखोरकरित	। एकत्रित अले	खापरीक्षित वि	तीय अहवालाच	
रनी चे	জনল্যুইড সমূহৰ	<u>२.५२</u> ९.५०	24,59	99.46	33.94	38.92	63.05	6,2,00	411				निमारी अग्			यर्थ अ	(रु. लाखात) के
ोमान	सुधनाः १ दिनांक ३१ मार्घ २०२४ रोजी संपलेली तिमाही आणि आर्थिक वर्षासार्ट	वगरवाल इंडस्ट्रिवल कॉर्परेश	ान लिमिटेड (कंपनी) :	यांचे वरील प्रमाणे नमुद	करण्यात आलेले ।	स्ववंत्र आणि एकहि	वेत वित्तीय निकाल	हे सेवी (एलओडीआर)		अ. इ.	यरण	३१ मार्थ, २०२४			1, 2023 31		वर मार्च, २०२३
ापणाने	निषम २०१५ चा निषम ३३ आपि त्यातील सुधारणा बांच्या उनुसार क रोजी जालेल्या बेडवीत मान्यता दिली आहे.हे वितीय निकाल कंपनीया	ा अनुसार तबार करण्यात आले	ां आहेत आणि त्यांचा ठ	उकेक्षण समितीने आढावा	वा चेतला आहे आणि	ग त्यांना कंपनीच्या	। संचालक भंडळाने	বিনাক ২৯ শ ২০২৮				सेखापरीक्षित	३१ । इसचर, र अलेखापरीदि			नेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
चि	२ या वित्तीय निकालांच्या संदर्भात ३२ मार्च २०२४ रोजी संपलेल्या तिमाई					ग प्रसिन्द्री वर्षासाठी	হিণ শার্হা ২০২৮:	आणि ३१ मार्च २०२३		 कार्यचलनामधून ए 		6048.63	\$450.1		464.38	20098.48	24886.68
विष्ट	अनुकमे बांध्याकरिता संतुलित करण्यात आले आहेत. ३ दिनांक ३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेल्वा चालू वित्तीय वर्षत कंपनीने त्व	च्या ठन्का साहकंप्रजीम्ला जन्म	1 विट्यमेन उल्ली जर्ज	धित उत्पादनांचा जिल्ला	(T 2,90 /00 mi	नदी विल्कोन जन्म	त अन्य प्रत्याल्यांकी	विक्री केली जी मागिज		 कालावधीकरिता (या अतिविशेष बार्ब 	कर पूर्व, अतिरिक्त व/ ो) निव्वळ नफा/तोटा	355.35	\$54.4	54	\$38.66	98.3099	2844.92
डीव्हीसी	वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ४,२३,९२५ एमटी डतकी होती म्हण	जेच त्यात १५.७८% वाढ झाली	ो आहे.							 करपर्व कालावधी 	हरिता निष्यळ नफा/	३२१.३१	354.0	1 22	\$\$¥.55	1965.84	9844.99
	४ कंपनीची कार्यकक्षा ६ विभागत वर्गीकृत करण्यात आली आहे.म्हणजेव (ব্লাউণ पेट्रोलियम प्र	प्राडक्ट्स (४) लॉपि	तारंटक्स (५) विडमिल		बाबीपश्चात)	ब/या अतिविशेष						
	आणि (६) अन्य, कंपनीचे हे सधारित सेगमेनजेवान तो कालंब आणि णज	and a second state	गंश देण्याची शिफासस व	কামনীহনা প্রযালক শব্দ	ळाने केली आहे म	गत्र ते कंपनीच्या स	सम्भागभा कांग्या मा			४. करपशाल कालावध	ोकरिता निथ्वळ नफा/ य/या अतियिशेष	986.09	૧७३.	14	246.88	989.90	१०८७.८७
बनावर	आणि (६) अन्म, कंपनीचे हे सुधारित सेगमेनटेशन जे स्वजंत्र आणि एक ५ विश्वीय वर्ष २०२३–२४ करिता दर्शनी मूल्य रू १० असलेल्या प्रत्येक स	mention of a construction of the				PROFE DRIVE LINES.	1. nine (1) (0	न्यतेस अधीन आहे.							100000000		
बनावट ब्र	५ विणीय वर्ष २०२३-२४ करिता दर्शनी मूल्य रू १० असलेल्या प्रायंक र ६ वरील प्रमामे नमूद करण्यात आलेल्या ललेच ३१ मार्च २०२४ रोजी संघ लिमिटेड, (२) एआवस्वीएल ओखरसीज एकडोड एल एल सी) (३) अ	तेल्या विमासे आणि आर्थिक वर्ध तरवाल ट्रान्सलिन्क प्रायखेट लि	मिटेड (४) एआवसीएर	ल फावनान्स प्रायखेट हि	দিটিত বাঁচ্যা নিৰ	कालांचा समावेश अ	।) कंपनी (९) विटर् सहे.	रुवेक्स कोचीन प्रायव्हेट		बाबीपश्चात)							
बनावट ज्द्र ोरदार	५ विलीम वर्ष २०२३-२४ करिता व्हॉनी मूरम्ब रु १० असलेल्या प्रत्येक स् ६ वरील प्रमाणे नमुद करण्यात आलेल्या तसेच ३१ मार्च २०२४ रोजी संघ	तेल्या विमासे आणि आर्थिक वर्ध तरवाल ट्रान्सलिन्क प्रायखेट लि	मिटेड (४) एआवसीएर	ल फाबनान्स प्रबखेट हि ।खंटिंग स्लंडर्ड्स (इंड ए	लेमिटेड बांच्या निब 'रुल) आणि त्वात व	कालांचा समावेश अ	।) कंपनी (९) विटर् सहे.	रुवेक्स कोचीन प्रायव्हेट		बाबीपश्चात)	एकूण सर्वसमावेशक	२०३.०१	રહ્યુ.)		28.6.32	999.54	१०९५.०९
बनावट ग्दु ोरदार हे,	4 विधीय वर्ष 2022-22 करिंग दार्शने पुरुष रु 10 असलेला प्राप्ते रु ६ वरील प्रमापे नयूद करण्यात आलेला स्त्रेच ३२ मार्थ 2022 रोजी संप लिगिटेड, (3 अवास्वरीपल ओडरसीज एकटोड स्त्र रुस सी) (3) ४ हे विधीय निकाल कंपसीज (वेडियन आकार्जरिंग एटैंडर्ड) विधम २०२ २०२६ घ्या उनुसार गयार सरन्यात आले आहेत. 4 कंपरी प्रवर्णनाय रुपल रावार वात स्वर्ग्या आहेत.	तेल्या विश्वाही आणि आर्थिक वर्ध तरवाल ट्रान्सलिन्क प्रायखेट लि ५ नध्ये अभिशूचित करण्यात उ ायांत कार्यरत आहे (२) वीटयमी	मिटेड (४) एआवसीएर आलेल्या इंडियन अका गेन अणि अन्य उत्पद	रखेटिंग स्तंडर्ड्स (इंड ए दने जी पायाभत सविधांध्य	रएस) आणि त्यात व या प्रकल्पांत मोठवा	कालांचा समावेश अ कंपनीज (इंडियन वा प्रमामात वापरली	r) कंपनी (9) विट्यु बाहे. आकाऊंटिंग स्टॅंडा ा जातात त्यांचे उत्प	दुनेक्स कोचीन प्रायव्हेट ईस) (सुधारणा) नियम ादन आणि व्यापार (२)		सामीपक्षात) ५. कालावधीकरिता उत्पन्न ६. इक्रिटी रोअर मांडर	एकूण सर्वसमावेशक त्ल	२०३.०१ ३६६५.२०	૧૭૬.) ફરરર.)	a :	98.6.9¥ 9¥¥.90	३६६५.२०	98XX.90
बनावट ज्द्ध बोरदार हे,	4 किंगि मई २०३-२४ कीरता स्रात्मे हुपल २०७ उलारेला प्रात्मेल २ १ वतील प्राप्ती गुलु करण्डात उलेला कार्महा ३२ मार्च २०२१ रोजी शंघ तिर्मिटेंड, (२) उलार्स्टीएक ओजराडीका एल्डोड हल रहल सी) (3) ४ हे सितीा निश्वास कंपनील (इंडिवन आकाडोटीश स्टेंडक्डे) निषम २० २०१६ प्राप्त चुनुसार तबल नगरना आले. ४ क्लोरी प्रार्थी कार्य रेक्स वर्षमात काल सर्वे आपि युडील ज्या प्रास्त स्वादक से दर्म्युहीन आपि लगीली की आजगम स्वाराज किंग दिवेन	तेल्या विषासे आणि आर्थिक वर्थ तरवाल द्रान्सलिन्क प्रायखेट लि ५ वध्ये अविसुधित करण्यात उ वायांत कार्यरत आहे (१) थीटयुर्ग व्या माध्यमातून चडन करणे.(३)	मिटेड (४) एआवसीएर आलेल्या इंडियन अका नि आणि अन्य उत्पद) मयनचक्कीच्या माध्य	रकेटिंग श्लंकर्ड्स (इंड ए दने जी पायाभूत सुविधांध्य बमातून पवन कर्जा निर्मित	रास्स) आणि त्यात व व्या प्रकल्पांत मोतवा ति। करणे.हे व्यक्सा	कालांचा समावेश अ कंपनीज (इंडियन 11 प्रमामात वापरली 11य हंगामी स्वरूपावे	।) कंयनी (9) विटर् आहे. आकाऊंटिंग स्टेंड । जातात त्यांचे उत्प चे आहेत त्यामुळे त्य	बुमेक्स कोचीन प्रायखेट ईस) (सुधारणा) नियम ादन आणि व्यापार (२) गंधा महसूल सातत्याने		सामीपक्षात) ५. कालावधीकरिता उत्पन्न ६. इक्रिटी रोअर मांडर	एकूण सर्वसमावेशक			a :			
बनावट रुद्ध तोरदार हे, ह बट या	4 किंता का 2002-02 कींता डाले के पुरुष 90 0 उसरोगा वा प्रवेश 9 2 कींत प्राप्त पंतु 20 कारणां उसेश्वर कार्यन प्राप्त 2002 कींता के किंगी 2002 की किंता के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त 2002 की किंता के 9 की किंगी स्वारत के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त 2002 2014 की प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त 2002 2014 किंता के प्राप्त के प्राप्त 2014 किंता के प्राप्त के प्राप्त 2014 के प्राप्त के प्राप्त वा प्राप्त के प्राप्त वा प्राप्त के के प्राप्त के प्राप्त के के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के के प्राप्त के प्राप्त के के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के के के प्राप्त के के प्राप्	तेल्या विभासे आणि आर्थिक वर्थ तरवाल ट्रान्सलिन्क प्रायखेट लि ५ न श्मे अभिनूत्रित करण्यात उ वायां कार्यरत आहे (२) वीटयूर्ग व्या माध्यमातून वडन करसे.(३) व्या माध्यमातून वडन करसे.(३) म, कोर्वन (त्वांच्या स्वत्वच्या न मीन साठवयूक सुविधा केंद्रे / ठ	দিঠেড (४) एआबसीएर आलेल्या इंडियन जका नि जाणि अन्य उत्पाद) पवनदावकीच्या माध्य रालकीची उपकंपनी वि टर्मिनल्स बज्जेवर, दिमी	रखेटिंग श्लंकर्ड्स (इंक ए दने जी पायाभूत सुविधांध्य समातून पवन जर्जा निर्मित बेटयूमिनेक्स कोचीन प्राय हो आगि तळोजा येथे आणि	रक्त) आणि त्यात व व्या प्रकल्पांत गोठ्या ती करणे हे व्यक्सा व्हेट सिमिटेड), र्स पे आऊटसोर्स सुवि	कालांचा समावेश अ कंपनीज (इंडियन ता प्रमाणात वापरली ताय हंगामी रचलपावे गिया जिल्हा कामल विथा कारवार, इलवि	() कंपनी (9) विट्यु साहे. आकाउंटिंग स्टेंडर (जातात त्यांचे उत्त्य चे आहेत त्यामुळे त्य १प, आसाम आपि चिया आपि मंगलोर	कुंबल कोचीन प्रायव्हेट ईल) (लुधारणा) नियम वदन आणि व्यायस (२) प्रांधा महस्तूल सातत्याने वेथे आहेत.	5	सामीपक्षात) ५. कालावधीकरिता उत्पन्न ६. इक्रिटी रोअर मांडर	एकूण सर्वसमावेशक त्ल			a :		३६६५.२०	११४४८.१० ११८८३.११
बनावट रुद्ध गोरदार हे, इ स्ट या रुच्या	4) विते यहाँ २०:३१-२० वरीता जर्में दूषरू २० १० अल्लोका करीत म वे कीन कामां रुष्ट्र कार्या आत्मेल कांद्र ३ आ देठ०-२० किंश पर किंग्रे २०:३ २३ व्याप्त करीता स्वतंत्र उत्तार देता देता देता के ति विते किंग काला करता कार्या अत्या कार्या का कार्या २०:२ व्याप्त के प्रदान के प्रतान कार्या कार्या कार्या २०:२ व्याप्त के प्रतान के प्रतान कार्या कार्या प्रतानक केंद्रमुम के प्रातनेक कार्या कार्या कार्या कार्या प्रतानक केंद्रमुम के प्रतानेक कार्या कार्या कार्या कार्या प्रतान केंद्रमुम के प्रतानेक कार्या कार्या कार्या का प्रतान प्रतान कार्या कार्या के प्रतानेक वार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या के प्रतानेक वार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या के प्रतानेक प्रतानेक प्रातनेक प्रातन के प्रतान के प्रतान कार्या कार्या कार्या के प्रतानेक प्रतान प्रातन करां प्रतान के प्रतान कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या के प्रतान कार्या	तेल्या विश्वादी आणि आर्थिक व्यर्ध तराल द्वा-स्मतिकक प्रायडेट तिंग (५ व ध्ये अधिवृत्तिक करण्यात उ पावां कार्यवत आहे (२) वीटवूरी प्रा कोर्थवा (पायां परवरुष्या व हो कोर्थवा (पायां परवरुष्या व मीन साउव्यकृत सुर्विधा केंद्रे / ट रहेट लिमिटेड ही विट्युनेन आपि उसेरल चार्टनिक क्रसी विट्युनेन आपि	দিঠক (৫) ৎজাৰনীদে মানলৈয়া ইতিযন জলা না জাতি গ্ৰন্থ তথ্যব) মৰনঘৰ্ষনীতো শাজ্য মানগৰীয়া তথ্যবাধ জাতে হিনিনিখন ৰজাবা, বিধী টা কংখেন অভ্যৱনায় ত	गढेटिंग श्लंकर्ड्स (इंड ए) दने जी पर्याभूत खुविश्रोध्य समातून पवन जर्जा निर्मित बेटबूमिनेक्स कोचीन प्रायन हे आगि तळोजा येसे आपि जरपादन आपि व्रिकीश्य, आपि जरपादन आपि व्रिकीश्य, आपि	रएस) आणि त्यात व त्या प्रकल्पांत मोठ्या ति करणे हे व्यक्ता वहेट लिमिटेड), र्स थे आऊटसोर्स सुवि क्षेत्रात काम करते - ये ती रिडार्व्ड नॅंक	कालांचा समावेश अ कंपनीज (इंडियन ताय हंगानी स्वरूपांचे गिया जिल्हा कामल विधा कारवार, इलग्रि आणि वसेच संपूर्ण ऑफ इंडिया बांनी	() कंपनी (व) बिटव् साहे. आकाऊंटिंग स्टेंडन वे आहेत त्यामुळे त्य षप, आसाम आसि पिया आपि मंगलोर मालकीपी विदेशी न वेळोवेळी जारी के	बुवेक्स कोचीन प्रायव्हेट ईस) (सुधारणा) नियम ादन आणि व्यापर (२) गांधा महसूल सातल्याने पाच्यपादरा राष्ट्रर जिल्हा वेथे आहेत. उप कंपनी एआपसीहल लेल्या विदेशातील थेट		सामीपक्षात) ५. कालावयीकरिता उत्पन्न ६. इक्विटी शेअर भांडर अन्म इक्विटी वगळता) ८. उत्पन्न इक्विटी मूळ	एकूण सर्वसमावेशक त्ल	3554.70 - 0.54	\$???.) \$???.)	r4 : 10 (1) -	2XX.20 - 0.04	3664.70 19690.06 19.63	११४४.९० ११८८३.९१ ३.१७
बनाक्ट न्द गेरदार हे, ह य र या डिच्या के आहे.	() विते यहाँ २०:२:1-२: वर्तता जातें मुद्दे पूर्वत १७ अलागेला सर्वत म देशी राज्या राज्या आतंक्ष साथ अंत्र आतंक्ष २०:२: जीवं साथ १४: विते प्राप्ता राज्या आतंक्ष साथ अंत्रा आतंक्षर रिवेड) () मार २०: २०:२: जा उन्हुला पाल्या प्राप्ता साथ अंत्रा प्राप्ता राज्या किए २: वर्तता विवर्षण्य राज्या राज्या साथ आतंक्ष प्राप्ता आतंक्ष २: वर्तता विवर्षण्य राज्या राज्या साथ आतं प्राप्ता अंत्र स्वरता अत्याप्ती आतंक्ष राज्या साथ करता किए त्राप्ता स्वरता अत्याप्ती अंत्र प्राप्ता के स्वर्णमा आतंक्ष स्वरता आतंक्ष्यों की यहार हो वे क्रांत्र, कोंक, होवार, होवार स्वरता आतंक्ष्यों की यहार हो वे क्रांत्र, कोंक, होवार, होतार प्राप्ता राज्य स्वर्णमा विवर्षण्या में प्राप्ता साथ के वित्र स्वरता का राज्य ते, गांत्र अंत्र के स्वर्णमा वा स्वरता कि होती स्वर्ण साथ साथ प्राप्ता कि स्वर्ण स्वरता के स्वर्ण स्वरता कि स्वर्ण स्वरता के स्वर्ण कि स्वर्ण स्वरता साथ के स्वर्ण स्वर्ण का स्वर्ण का स्वर्ण स्वरता साथ साथ साथ साथ साथ साथ साथ साथ साथ के स्वर्ण स्वरता कि स्वर्ण साथ साथ साथ साथ साथ साथ साथ साथ साथ साथ	तेल्या विश्वासे आणि आर्थिक वर्ध तरवाल द्रार्मालेनक प्रासडेट सिंग यांव कार्थरत आहे (२) थीटपूर्य या माध्यमतून खडन करते (२) या, कोवीन (राध्यम त्वरक्या क कोवीन (राध्यम त्वरक्या क कोवीन प्रतिष्ठ की निद्युनेन आपि खेलल कार्टरिंग कारमान आ खेलल कार्टरिंग कारमान आ	দিঠেড (৫) ৎজাৰনীদে মান্টন্যা ইণ্ডিয়ন জন্ম) ঘরনগুরুণীজে দাড্য নাননীয়া ভয়ন্বায়া হার্দিনন্দে নর্ভারে, যিথা ট কন্দেদ নর্ভারে, যিথা ট কন্দেদ নর্ভারে, যিথা ট রন্দেদ ন্দের্ঘেরা নান্দ্র ইন্দিন্দ তব্যের্যায়া রান্দ্র্য	ाखटिंग स्लंडर्ड्स (इंड ए दने जी पायाभूव सुविधांध्य ममापून पवन जर्जा निर्मित बेट पुगिवेश्वस कोवीन प्राय- ो आणि तळोजा येथे आणि जरपाइन आणि विक्रीर्थ्या « यात जरेसरस्स आइंत आणि ती यं	रएस) आणि त्यात व व्या प्रकल्पांत मोठ्या ति करणे हे व्यक्ता वहेट लिमिटे ठ), र्ए मे आऊटसोर्स सुवि क्षेत्रात काम करते - मे ती रिडार्व्ह नेंक खेसल्स एकत्रित 9.	कालांचा समावेश अ कंपनीज (इंडियन तम इंगामी स्वरूपांचे गिया जिल्हा कामल विधा कारवार, इल्टि आपि वसेच संपूर्ण अफि इंडिया बांनी (०२ लाखा एनटी क्ष	() कंपनी (4) बिट्नु साहे. आकाउंटिंग स्टेंडा वे आहेत त्याचे उत्प वे आहेत त्याम आणि विया आणि मंगलो वे वेकोवेळी जारी के समतेने वहन करतात	[शेक्स कोचीन प्रायखेट ईस) (सुधारणा) नियम बदन आणि व्यायह (२) गोधा महसूल सातत्याने चाच्यादरा राहर जिल्हा वेथे आहेत. उस कंपनी एआपसीएल लेल्मा विवेशातील थेट (. अनप्रवाल ट्रान्सलिन्क		सामीपक्षात) ५. कारण्डवधीकरिता उत्पन्न ६. इक्विटी रोअर भांडत ७. अन्य इक्विटी सगळता) ८. उत्पन्न प्रति शेअर मूर्छ सौम्य	एकूण सर्वसमावेशक त्ल	3554.70 -	\$999.1	r4 : 10 (1) -	txx.to -	3554.70 11519.96	११४४८.१० ११८८३.११
बनावट ज्द हे, हे ट या डच्या बिन आहे. ल आणि	() विते यहाँ २०:३:३:२: वर्तता जातें मुद्दे पूर्वत १७ अल्मात्मा वर्षता २ के अल्मात्मा वर्षता २ के उदा में के उदा भी की पर देखें राज्य का कि को के प्रार्थ के उदा भी की पर देखें राज्य का कि को कि उदा भी की पर देखें राज्य का कि को कि उदा भी की पर देखें राज्य का कि को कि उदा भी की पर देखें राज्य का कि को कि उदा भी की पर देखें राज्य का कि को कि उदा भी की पर देखें राज्य का कि को कि उदा भी की पर देखें राज्य का कि को कि उदा भी की पर देखें राज्य का कि उदा में की पर देखें राज्य का कि को कि उदा में की पर देखें राज्य का कि उदा में की प्रार्थ का कि उदा मार्के के प्रार्थ का कि उदा में की प्रार्थ का के की प्रार्थ का कि उदा में की प्रार्थ का कि उदा में की प्रार्थ का कि उदा में की प्रार्थ का की प्रार्थ का कि उदा में की प्रार्थ का की प्रार्थ का कि उदा में की प्रार्थ का कि उदा में की प्रार्थ का कि उदा में की प्रार्थ का की की की की प्रार्थ का की प्रार्थ का की की की की प्रार्थ का की प्रार्थ का की प्रार्थ का की प्रार्थ का की की की की प्रार्थ का की	तेत्या विषाई आदि वार्थित वहां सरासा द्राय्मालिन्ता प्रसर्वेट विंगि प त्र वा वार्थल्या आहे (व) वीटद्यूपी व्या माध्यमापून वडन करने.(1) मा साराजपून वडन करने. मा साराजपून वडन करने. में साराजपुर का का साराजपा का इन्ल्यूओएस ता के साध्य १० पेट्री	দিঠক (৫) एआवसीएर प्रालेल्या इंठियन अस्वा) पवनचक्कीच्या माध्य तालकीची ज्यमंघयी जि टॉर्मेनल्स नजेवर, किंग दर्जियल्स जरंपदर्गाचा क रॉटियल उत्पदर्शाचा के राविस्टार्ड सैंक ऑफ इं	।खटिंग स्लंडर्ड्स (इंड ए वने जी पायाभुत सुविधांध्य भगतून पठन जजाँ निर्मित बेटयूमिनेक्स कोधीन प्राय के आणि तळोजा येथे आणि जज्महन आणि विज्ञीरत्वा 4 यात केसल्स आहेत आणि ती व केसल्स आहेत भोटे विट्युबेन इंडिसा यांज्याकडे परवाना	राश्ल) आणि त्यात व या प्रकल्पांत गोठमा तिती करणे हे व्यवसा त्रवेट सिनिटेख), र्स में आजत काम करते 3 में ती दिश्चाई बैंक ने टीकर्स आहेत आ म जारी करण्यासाठें स जारी करण्यासाठें	कालांचा समावेश अ कंपनीज (इंडियन ता प्रमाणांत वायरली) ताय इंगामी तत्वरुपाये गिया जिल्हा कामल विधा कारवार, डलर्ट आफि उसेच स्वपूर्य ऑफ उर्डिया बांनी 1,02 लाख एमटी क्ष ती के वीपीसीएलचे दी कर्ज करन्यवा 5) कंपनी (4) विट्यु साहे. आकाऊंटिंग स्टेंडन वे आहेत त्यामुळे त्व तथ, आरक्षम आसि ' विया आपि मंगलोर मालकीपी विदेशी न वे कोवेळी जासी के वे देहोल पम ब्हापु	शेक्स कोचीन प्रायखेट ईस) (सुधारणा) नियम ादन आनि व्यायर (२) गंधा महसूल सातत्याने चच्चादर। राष्ट्र जिल व्य कंपनी एआवसीहल तेवना विवेशातील थेट 1.वगरवाल ट्रान्सतिन्क र. आतन्तमा सहारद्		सामीपक्षात) ५. कारवचपीकरिता उत्पन्न ६. इक्टिटी रोअर मांडल ७. अन्य इक्टिटी सगळता) ८. उत्पन्न प्रति रोअर मूळ सोम्स टीप: १. बरॉल अहवाल दि, ३	एकूण सर्वसमावेशक स्त 'मूल्यांकन आरक्षित १ मार्च, २०२४ रोजी अ	३६६५.२० - ०.६५ ०.६५ इ.६५	१२२२.) ०./ ०./	.ru : (0 ११ - 25 25 25	0.94	2554.70 11519.06 11.53 1.53 1.53	????? ??663.?? ??663.?? ??6 ??6
बनावट ग्र हे, हे या हे या बिस आहे. ल आणि केजिंगच्या	4) विते यहां २०:३१-३० वीता जर्मे सुरक २० व्यालांक सर्वत र वेली त्या सार्व सुरक प्राप्ता आतेक सर्वत २० व्यालांक सर्वत र लिरी.२०, २३ व्यालांक रावेला २० व्या २० व्यालांक स्वात लिरी.२०, २३ व्यालांक रावेला २० व्यालांक व्यात हिंदी प्राप्ता का व्यात व्यात प्राप्ता आते. २० व्यात विल्वेबा सार्व प्राप्ता आते आहे. २० व्यात विल्वेबा सार्व प्राप्ता का व्यात का व्यात प्राप्ता का व्यात का व्यात व्यात का व्यात का व्यात प्राप्ता का व्यात का व्यात का व्यात का व्यात का व्यात प्राप्ता का व्यात का व्यात का व्यात का व्यात का व्यात प्राप्ता का व्यात का व्यात का व्यात का व्यात का व्यात प्राप्ता का व्यात का व्यात का व्यात का व्यात का व्यात का व्यात प्राप्ता त्यात का व्यात का व्यात का व्यात का व्यात का व्यात का व्यात का व्यात का व्यात के विला जा का व्यात का व्यात का व्यात का व्यात का व्यात का व्यात का का व्यात का व्यात का का व्यात का व्यात क	तेत्या विश्वाई आपि आर्थित वर्ष सरासा द्रार्थ्यात्सन्त प्रास्त्रहेत (भ) थोटपूर्ण (भ) अधिशृत्तित कार्यरत आहे (भ) थोटपूर्ण सा कोर्थात् व कार्यर (भ) थोटपूर्ण सा कोर्थात कार्र्यात कार्यात कर कार्या सा कोर्या के स्वार्थ कर कार्या का रोट तिमिटेड ही विटपुर्गेन आर्थि केर्सला वार्ध्रनित कार्या आधान का (, रालप्रध्रस्तान आहुक शेकात महाजेत कर्षण्या आर्थात आर्थात	দিঠক (৫) एआवसीएर प्रालेल्या इंठियन अस्वा) पवनचक्कीच्या माध्य तालकीची ज्यमंघयी जि टॉर्मेनल्स नजेवर, किंग दर्जियल्स जरंपदर्गाचा क रॉटियल उत्पदर्शाचा के राविस्टार्ड सैंक ऑफ इं	।खटिंग स्लंडर्ड्स (इंड ए वने जी पायाभुत सुविधांध्य भगतून पठन जजाँ निर्मित बेटयूमिनेक्स कोधीन प्राय के आणि तळोजा येथे आणि जज्महन आणि विज्ञीरत्वा 4 यात केसल्स आहेत आणि ती व केसल्स आहेत भोटे विट्युबेन इंडिसा यांज्याकडे परवाना	राइस) आणि त्यात व या प्रकल्पांत गोठगा तरहेर सिमिटेठा, र्स ये आजटसोर्स सुदि क्षेत्रज्ञ काम करते ये ती दिडाई नैंक ये ती दिडाई नैंक ये ती रडियई नेंक ये ती स्टब्स् आहेत आ रा जारी करण्यासाठ 1 जरुसार काडण्या?	कालांचा समावेश अ कंपनीज (इंडियन ता इंगामी स्वरूपाये गिया जिल्हा कामल विश्व कारवस, डलर्ड आफि वर्षचा समुर्ग अफि इंडिया सानी ।.०२ लाख एसटी अ ती के वीयीसीएलचे दी अर्ज करण्याचा 5 ल आले आहेत.) कंपनी (4) बिट्यू साहे. आकार्डाटिंग स्टेंडर वे आहेत त्यामुळे त्य प्रय, आस्थाम आसि ' देश आपि मंगलोर मालकीपी विदेशी ' वे बेग्रेडेळी जारी के समवेने बहन करवात वे पेट्रोल पण्प रहायू प्रत्याव विचाराधीन -	षुवेक्स क्वोमीन प्रायवहेट इंस) (सुधारणा) नियम (दन जानि व्यायस (२) गांवा मडस्कूल सातपाने गांवा प्रवेशमूल सातपान वेचे जातेत उप कंपनी एआवसीलल (उप्रस्वामा वेदेशमील केंट (उप्रस्वामा व्यायसील हर, आसनगांव महाराष्ट्र आपि प्रक्रियाधीन आहे.		सामीपडात) ५. कारसव्यधिकरिता उत्पन्न ६. इक्टिटी शेअस भांडय ७. अन्य इक्टिटी शेअस भांडय ७. उत्पन्न इक्टिटी स्वराज्यता) ८. उत्पन्न प्रति शेअस मेरव सेम्ब देग : २. वरील अहव्यात दि. ३ मे. सेमी (सुपी अनिवार्थता	एक्ग सर्वसमावेशक त्त मूल्पॉकन आर्थित मूल्पॉकन आर्थित हत केली आहे. कंप्सी विश्वोयन आवस्थकत	३६६५.२० - ०.६५ ०.६५ धेर लेखा समिती द्वा वेधानिन अहम्पाल) विनियमन २०१५	१२२२.) ०.) ०.) पाइल्पात आला अ सदर अनुसार मर्थों	८५ : (० ११ - अद अद गोरे व संवात्लक मंद का आहे. तिर्गत बीएसई लि.	१४४.९० - ०.७५ ०.७५ इन्ड यांच्याद्वारे मंजूर यांच्यासह दाखाल !	३६६५.२० ११६१७.७८ २.६३ २.६३ केला आहे व ल्यांचे विस्तृत पारूपांचे सा	११४४.९० ११८८३.९१ ३.९७ ३.१७ संबंधित समा दि. २८
बनावट द्ध रेंद्र हे, हे ट या डेंडच्या निक आहे. ल आणि केजिंगच्या , जाहिराती	() विते यहाँ २०:३:३:२: वर्तता जातें मुद्दे पूर्वत १७ अल्मात्मा वर्षता २ के अल्मात्मा वर्षता २ के उदा में के उदा भी की पर देखें राज्य का कि को के प्रार्थ के उदा भी की पर देखें राज्य का कि को कि उदा भी की पर देखें राज्य का कि को कि उदा भी की पर देखें राज्य का कि को कि उदा भी की पर देखें राज्य का कि को कि उदा भी की पर देखें राज्य का कि को कि उदा भी की पर देखें राज्य का कि को कि उदा भी की पर देखें राज्य का कि को कि उदा भी की पर देखें राज्य का कि उदा में की पर देखें राज्य का कि को कि उदा में की पर देखें राज्य का कि उदा में की प्रार्थ का कि उदा मार्के के प्रार्थ का कि उदा में की प्रार्थ का के की प्रार्थ का कि उदा में की प्रार्थ का कि उदा में की प्रार्थ का कि उदा में की प्रार्थ का की प्रार्थ का कि उदा में की प्रार्थ का की प्रार्थ का कि उदा में की प्रार्थ का कि उदा में की प्रार्थ का कि उदा में की प्रार्थ का की की की की प्रार्थ का की प्रार्थ का की की की की प्रार्थ का की प्रार्थ का की प्रार्थ का की प्रार्थ का की की की की प्रार्थ का की	तेत्या विषाई, आवि आर्थिक कर्ष सरावार प्रान्मलिनक प्रमञ्जेट तिर्ग (प क्रमे अविश्वपित कारण्यात 3 या वांत कार्लरत आहे (व) श्रीटवृष्णि या भाभवातून कडत करते (व) स्रे कोर्वित (त्यांभ्या रखक्या न प्रे केट किर्मिटेड के सिटायुर्भेन आर्ग अंदरत कार्टरित कार्वला प्रकार के प्रत्या प्रार्थत कार्वला का कार्यमा क प्रत्या प्रार्थत कार्वला आहुत के कार प्रत्या प्रार्थत कार्वला आहुत के कार प्रत्या प्रार्थत कार्वला आहा के आपि मा स्वर्भ गांतील कर्षचाया आग्रे आक्सो बडर पडलेला नाई.	मिटेड (८) एआपसीएर प्रातेल्या इंडियन जस्ता) घउनच्चकरिमा माध्य वालवीची उपकंपनी कि पिनल्स उत्प्रवर्ध्य [विमे मे उत्सम उत्प्रवर्त्या वे हो आगि लांच्या ताल्य वे कार्यरा जाहे आगि त राजा देश्यर्ड केंड ऑफ डे राजाय योनी जरी केलेट	बिटिंग स्लंडव्ह्रंस (इंड ए दने जी पायाभूत सुविक्रांध्य यमातून पठन जर्जा निर्मित बेद पुरिवेक्स कोवीन प्राय- के जानि जर्डान कोवी प्राय के जाएनन आपि विक्रीरेखा (यात व्वेसल्स आहेत आपि जी व व्याच्यासारु मांटे विद्युनेन इतिया सांठ्याकर प्रेर वा इतिया संग्राकर हे एस ३३ प्रमा	राइस) आणि त्यात व या प्रकल्पांत गोठगा तरहेर सिमिटेठा, र्स ये आजटसोर्स सुदि क्षेत्रज्ञ काम करते ये ती दिडाई नैंक ये ती दिडाई नैंक ये ती रडियई नेंक ये ती स्टब्स् आहेत आ रा जारी करण्यासाठ 1 जरुसार काडण्या?	कालांचा समावेश अ कंपनीज (इंडियन ता इंगामी स्वरूपाये गिया जिल्हा कामल विश्व कारवस, डलर्ड आफि वर्षचा समुर्ग अफि इंडिया सानी ।.०२ लाख एसटी अ ती के वीयीसीएलचे दी अर्ज करण्याचा 5 ल आले आहेत.) कंपनी (4) बिट्यू साहे. आकार्डाटिंग स्टेंडर वे आहेत त्यामुळे त्य प्रय, आस्थाम आसि ' देश आपि मंगलोर मालकीपी विदेशी ' वे बेग्रेडेळी जारी के समवेने बहन करवात वे पेट्रोल पण्प रहायू प्रत्याव विचाराधीन -	षुवेक्स कोमीन प्रायवहेट इस) (सुधारणा) निवम हदन आणि त्यारास (२) गांवा मडस्यूल स्वारायने या कार्यत्य प्रावस्य लेख्या विदेशासील बेट अक्रयति द्वार्ज्यात्वर त्रेज्या विदेशासील बेट अक्रयति प्रक्रियाधीन आहे. स्वाराय व्याप्त्य करिता। स्वास्त्रे पिटंड स्वाराव करिता।		सामीपडात) ५. कारसव्यधिकरिता उत्पन्न ६. इक्टिटी शेअस भांडय ७. अन्य इक्टिटी शेअस भांडय ७. उत्पन्न इक्टिटी स्वराज्यता) ८. उत्पन्न प्रति शेअस मेरव सेम्ब देग : २. वरील अहव्यात दि. ३ मे. सेमी (सुपी अनिवार्थता	एकूण सर्वसमावेशक त्ल 'मूल्पांकन आरक्षित 'मार्च, २०२४ रोजी अ १ मार्च, २०२४ रोजी अ	३६६५.२० - ०.६५ ०.६५ धेर लेखा समिती द्वा वेधानिन अहम्पाल) विनियमन २०१५	१२२२.) ०.) ०.) पाइल्पात आला अ सदर अनुसार मर्थों	८५ : (० ११ - अद अद गोरे व संवात्लक मंद का आहे. तिर्गत बीएसई लि.	१४४.९० - ०.७५ ०.७५ इन्ड यांच्याद्वारे मंजूर यांच्यासह दाखाल !	३६६५.२० ११६१७.७८ २.६३ २.६३ केला आहे व त्यांचे विल्तुत परूपांचे साम	<u>११४४.१०</u> ११८८३.११ ३.१७ ३.१७ संसंपित समा दि. २८ श आहे.
बनावट द्ध रेंदार हें, हें टेंट्रें टेंट्रें के जिंगच्या , जाहिराती नांच्या	4) विते यहाँ २०:३१-२० वीता जी मुंदू पूर्व २७ अल्लाभा वर्षवर म वीत वासा सुरक्ष प्राप्त आत्मक कोय का स्वारं २०:२० कि संग विते २०:३ १३ वास्त्र वीत स्वति स्वारं २०:२० कि संग विते २०:३ १३ वास्त्र प्राप्त प्राप्त का स्वारं २०:३ १३ २०:३ भा सुरक्ष प्राप्त प्राप्त के स्वारं २०:३ १३ २० क्ये के विते प्राप्त से इंड क्रोस, कोठ, होरावर, क्रेम स्वारं स्वारं स्वारं में भीत प्राप्त के इंड क्रोस, कोठ, होरावर, क्रा स्वारं स्वारं स्वारं की भारत प्राप्त का स्वारं आत्म क्रांत (रायाला) २४ को उन्हों को स्वारं स्वारं के क्रांत्र स्वारं प्राप्त के वीत स्वारं स्वारं के स्वारं स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं प्राप्त के सामा स्वारं के स्वारं के स्वारं स्वारं के स्वारं के स्वारं स्वारं के स्वारं के स्वारं के सा स्वारं के स्वारं के स्वारं स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं के २० क्वें स्वारं स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं स्वारं के सामय २० क्वें सा स्वारं का स्वारं के स्वारं स्वारं के प्राप्त के स्वारं स्वारं के सात्र २० क्वें सा स्वारं के स्वारं के स्वारं के स्वारं स्वारं के प्राप्त के सात्र २० क्वें सा स्वारं के स्वारं के सात्र के स्वारं स्वारं के प्राप्त के सात्र २० क्वें सा स्वारं के सात्र स्वारं के स्वारं स्वारंकी प्राप्त के स्वारंक सात्र २० क्वें सात्र सात्र के सात्र स्वारंक के स्वारंकी व्यक्ते प्राप्त के प्राप्त के सात्र २० क्वें सात्र सात्र के सात्र सात्र के स्वारंक सात्र के प्राप्त के सात्र २० क्वें सात्र सात्र के सात्र सात्र के स्वारंक सात्र के प्राप्त के प्राप्त के सात्र के सात्र का सात्र के सात्र २० क्वें सात्र सात्र के सात्र सात्र के स्वारंक सात्र के सात्र सात्र के सात्र सात्र के सात्र सात्र के सात्र का सात्र के सात्र का सात्र के सात्र का सात्र के सात्र के सात्र के सात्र का सात्र के सात्र का सात्र के सात्र का सात्र के सात्र के सात्र का सात्र के सात्र के सात्र के सात्र के सात्र का सात्र के सात्र का सात्र के सात्र का सात्र के सात्र	तेत्या विषाई, आवि आर्थिक कर्ष सरावार प्रान्मलिनक प्रमञ्जेट तिर्ग (प क्रमे अविश्वपित कारण्यात 3 या वांत कार्लरत आहे (व) श्रीटवृष्णि या भाभवातून कडत करते (व) स्रे कोर्वित (त्यांभ्या रखक्या न प्रे केट किर्मिटेड के सिटायुर्भेन आर्ग अंदरत कार्टरित कार्वला प्रकार के प्रत्या प्रार्थत कार्वला का कार्यमा क प्रत्या प्रार्थत कार्वला आहुत के कार प्रत्या प्रार्थत कार्वला आहुत के कार प्रत्या प्रार्थत कार्वला आहा के आपि मा स्वर्भ गांतील कर्षचाया आग्रे आक्सो बडर पडलेला नाई.	मिटेड (८) एआपसीएर प्रातेल्या इंडियन जस्ता) घउनच्चकरिमा माध्य वालवीची उपकंपनी कि पिनल्स उत्प्रवर्ध्य [विमे मे उत्सम उत्प्रवर्त्या वे हो आगि लांच्या ताल्य वे कार्यरा जाहे आगि त राजा देश्यर्ड केंड ऑफ डे राजाय योनी जरी केलेट	बिटिंग स्लंडव्ह्रंस (इंड ए दने जी पायाभूत सुविक्रांध्य यमातून पठन जर्जा निर्मित बेद पुरिवेक्स कोवीन प्राय- के जानि जर्डान कोवी प्राय के जाएनन आपि विक्रीरेखा (यात व्वेसल्स आहेत आपि जी व व्याच्यासारु मांटे विद्युनेन इतिया सांठ्याकर प्रेर वा इतिया संग्राकर हे एस ३३ प्रमा	राइस) आणि त्यात व या प्रकल्पांत गोठगा तरहेर सिमिटेठा, र्स ये आजटसोर्स सुदि क्षेत्रज्ञ काम करते ये ती दिडाई नैंक ये ती दिडाई नैंक ये ती रडियई नेंक ये ती स्टब्स् आहेत आ रा जारी करण्यासाठ 1 जरुसार काडण्या?	कालांचा समावेश अ कंपनीज (इंडियन ता इंगामी स्वरूपाये गिया जिल्हा कामल विश्व कारवस, डलर्ड आफि वर्षचा समुर्ग अफि इंडिया सानी ।.०२ लाख एसटी अ ती के वीयीसीएलचे दी अर्ज करण्याचा 5 ल आले आहेत.) कंपनी (२) बिट्यू साहे. आकार्डाटिंग स्टेंड्स वे आहेत स्वामुळे स् इप, आसाग आति ग वियो आपि गमसोर वियो यपि गमसोर वे येट्रेल प्राप्त के वे येट्रेल प्राप्त के प्रस्ताव विचरात्राचीन प्रस्ताव विचरात्राचीन द्रअल कॉर्पोवेशन रि	ुषेक्स कोधीन प्रायखेट इंस) (सुधारपा) नियम इन्द्र आणि व्याप्रस (२) रांघा पडस्यूल स्वतर्ण्यने प्रायप्राय नाहर जिल्हा येने आहेत. उन्नर प्राय न्यू ट्रस्तीलच्छ र. आस्ट प्रारेग रेज्य स्वित्त . आस्ट प्रारंग प्रतिमध्ये न . स्वारा प्रत्या क्रमिटेंड माण्य करिता स्वाक्ष थे / - सतित अमरवाक पर्ण येक संपालक		सामीपडात) ५. कारसव्यधिकरिता उत्पन्न ६. इक्टिटी शेअस भांडय ७. अन्य इक्टिटी शेअस भांडय ७. उत्पन्न इक्टिटी स्वराज्यता) ८. उत्पन्न प्रति शेअस मेरव सेम्ब देग : २. वरील अहव्यात दि. ३ मे. सेमी (सुपी अनिवार्थता	एक्ग सर्वसमावेशक त्त मूल्पॉकन आर्थित मूल्पॉकन आर्थित हत केली आहे. कंप्सी विश्वोयन आवस्थकत	३६६५.२० - ०.६५ ०.६५ धेर लेखा समिती द्वा वेधानिन अहम्पाल) विनियमन २०१५	१२२२.) ०.) ०.) पाइल्पात आला अ सदर अनुसार मर्थों	८५ : (० ११ - अद अद गोरे व संवात्लक मंद का आहे. तिर्गत बीएसई लि.	१४४.९० - ०.७५ ०.७५ इन्ड यांच्याद्वारे मंजूर यांच्यासह दाखाल !	३६६५.२० ११६१७.७८ २.६३ २.६३ २.६३ केला आहे व त्यांचे केला आहे व त्यांचे संपालक म राम	<u>११४४.९०</u> ११८८३.११ ३.१७ ३.१७ संसंपित समा दि. २८ रा आहे. डाठारणा आदेशान्यये वाई
बनावट न्द सिदार हे, हट या के आहे. ल आणि किजिंगच्या , जाहिराती नांच्या स्कार	4) विते यहाँ २०:३१-३२ महीता जी मुंदू पूर्व २७ अक्सांत्रेण सर्वत र विते प्रथम मुंदू प्रयुक्त प्राप्त आत्मित सर्वत ३४ महान दिविये २०:४ किंस किंग्रेस् २३ १३ स्वर्थमान् व्योद्य स्वति सर्वत ३४ महान दिवां १३ विते २४ प्राप्त स्वति प्रयुक्त सर्वे उद्य स्वति २३ स्वति २३ २४ प्राप्त स्वति प्रयुक्त सर्वे इत्योत्र, केंद्रा, देवापर, क्रांत्र, देवपर, स्वतान स्वतुर्थन्त्र वे स्वतान स्वति उद्य सार्वे उद्य प्रिये २४ मात्म स्वतान स्वतुर्थन्त्र वे स्वतान स्वतान स्वतान क्रिये २४ प्राप्त स्वति प्रयुक्त से इत्योत्र, केंद्राज्य स्वतान क्रिये स्वतान स्वतुर्थन्त्र के प्रयुक्त से इत्योत्र, क्रांत्र स्वतान स्वतान स्वतान स्वतान क्रिये १४ प्राप्त सार्वे स्वर्थन स्वतान स्वतान स्वतान स्वित्य के स्वाताने प्रथम स्वते स्वातान स्वतान स्वतान स्वतान स्वित्य के स्वाताने प्रथम के स्वातानी स्वाती प्रयुक्ताना स्वती स्वातान सिविय के स्वातानी क्राय स्वाते स्वातान स्वातान स्वतान स्वातान सिविय के स्वाताने क्राय स्वातान स्वातान स्वाती स्वाती स्वातान स्वातान क्राय सिविय के स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान सिविय के स्वातान व्यातान स्वातान स्वातान क्राय सार्व स्वात्य स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान सार्वा स्वात्य स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान साराव्य स्वातान स्वात्य स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान सार्वा स्वात्य स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान साराव्य स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान साराव्य स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान साराव्य स्वातान सार्वा स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान साराव्य स्वातान सारावा स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान स्वातान सारावा सारावान स्वातान स्वातान सारावा सारावा सारावा सारावा स्वातातान साराव्य साराव्य स्वातान स्वातान सारावा सारावाता स्वाता सारावाता साताता साताता साताता सारावाता साताता सारावाता साताता साताता साताता सारावाता साताता साताताता सातावाताता साताता साता	तेत्या विषाई, आवि आर्थिक कर्ष सरावार प्रान्मलिनक प्रमञ्जेट तिर्ग (प क्रमे अविश्वपित कारण्यात 3 या वांत कार्लरत आहे (व) श्रीटवृष्णि या भाभवातून कडत करते (व) स्रे कोर्वित (त्यांभ्या रखक्या न प्रे केट किर्मिटेड के सिटायुर्भेन आर्ग अंदरत कार्टरित कार्वला प्रकार के प्रत्या प्रार्थत कार्वला का कार्यमा क प्रत्या प्रार्थत कार्वला आहुत के कार प्रत्या प्रार्थत कार्वला आहुत के कार प्रत्या प्रार्थत कार्वला आहा के आपि मा स्वर्भ गांतील कर्षचाया आग्रे आक्सो बडर पडलेला नाई.	मिटेड (८) एआपसीएर प्रातेल्या इंडियन जस्ता) घउनच्चकरिमा माध्य वालवीची उपकंपनी कि पिनल्स उत्प्रवर्ध्य [विमे मे उत्सम उत्प्रवर्त्या वे हो आगि लांच्या ताल्य वे कार्यरा जाहे आगि त राजा देश्यर्ड केंड ऑफ डे राजाय योनी जरी केलेट	बिटिंग स्लंडव्ह्रंस (इंड ए दने जी पायाभूत सुविक्रांध्य यमातून पठन जर्जा निर्मित बेद पुरिवेक्स कोवीन प्राय- के जानि जर्डान कोवी प्राय के जाएनन आपि विक्रीरेखा (यात व्वेसल्स आहेत आपि जी व व्याच्यासारु मांटे विद्युनेन इतिया मांठ्यारुके परवाना हेल्या संड ए एस ३३ प्रमा	राइस) आणि त्यात व या प्रकल्पांत गोठगा तरहेर सिमिटेठा, र्स ये आजटसोर्स सुदि क्षेत्रज्ञ काम करते ये ती दिडाई नैंक ये ती दिडाई नैंक ये ती रडियई नेंक ये ती स्टब्स् आहेत आ रा जारी करण्यासाठ 1 जरुसार काडण्या?	कालांचा समावेश अ कंपनीज (इंडियन ता इंगामी स्वरूपाये गिया जिल्हा कामल विश्व कारवस, डलर्ड आफि वर्षचा समुर्ग अफि इंडिया सानी ।.०२ लाख एसटी अ ती के वीयीसीएलचे दी अर्ज करण्याचा 5 ल आले आहेत.) कंपनी (२) बिट्यू साहे. आकार्डाटिंग स्टेंड्स वे आहेत स्वामुळे स् इप, आसाग आति ग वियो आपि गमसोर वियो यपि गमसोर वे येट्रेल प्राप्त के वे येट्रेल प्राप्त के प्रस्ताव विचरात्राचीन प्रस्ताव विचरात्राचीन द्रअल कॉर्पोवेशन रि	षुषेक्स कोधीन प्रायवहेट ईस्स) (सुधारपा) निवन वादन आणि व्ययप्र (२) वाया मङपुल स्वातप्याने प्रकारपा राहर जिल्हा नेथे आहेत उत्तरप्राया ट्रान्सरित्तक स्र, आसनगाव महाराष्ट्र आपि प्रक्रियाधीन आहे. देवास्सी निर्मेड बॉप्सा करिता स्वास्त्री ना स्वारम्यी न स्वीस्त्रा अनगरनास		सामीपडात) ५. कारसव्यधिकरिता उत्पन्न ६. इक्टिटी शेअस भांडय ७. अन्य इक्टिटी शेअस भांडय ७. उत्पन्न इक्टिटी स्वराज्यता) ८. उत्पन्न प्रति शेअस मेरव सेम्ब देग : २. वरील अहव्यात दि. ३ मे. सेमी (सुपी अनिवार्थता	एक्ग सर्वसमावेशक त्त मूल्पॉकन आर्थित मूल्पॉकन आर्थित हत केली आहे. कंप्सी विश्वोयन आवस्थकत	३६६५.२० - ०.६५ ०.६५ धेर लेखा समिती द्वा वेधानिन अहम्पाल) विनियमन २०१५	१२२२.) ०.) ०.) पाइल्पात आला अ सदर अनुसार मर्थों	८५ : (० ११ - अद अद गोरे व संवात्लक मंद का आहे. तिर्गत बीएसई लि.	१४४.९० - ०.७५ ०.७५ इन्ड यांच्याहरे मंजूर यांच्याहर दाखास	३६६५.२० ११६१७.७८ २.६३ २.६३ केला आहे म ग्यांचे केला आहे म ग्यांचे संघालक भ संघालक म संघालक म	<u>११४४.९०</u> ११८८३.९१ ३.१७ ३.१७ संसंधित सम्रा दि. २८ रा आहे. इडराल्या आदेशन्य ये
बनावट दु हे, हे ट या हिंडच्या हेंडच्या केजिंगच्या केजिंगच्या , जाहिराती नांच्या स्कार बब्द	4 विते यहाँ २०२३-३२ केंता जर्मे सुपत १७ आलगा स्वर्थन धेने गामां रुप स्वर्थ-२०२४ केंता जर्मे सुपत १७ अलगा स्वर्थना ७ देनी गामां रुप स्वर्थ-२० केंता स्व ७ देनी निश्चन केंत्र प्रार्थ स्वर्थना केंद्र 1 (सन् २०) ७ देने प्रार्थ प्रार्थ स्वर्थना स्वर्थना केंद्र 1 (सन २०) ७ देने प्रार्थ प्रार्थ स्वर्थना स्वर्थना स्वर्थना स्वर्थना स्वर्धना स्वरण्य स्वरस्वना स्वर्धना स्वरण्य स्वरस्वना स्वर्धना स्वर्धना स्वरण्य स्वरमान्य स्वरमान्य स्वरम्य स्वरमान्य स्वरम्य स्वरमान्य स्वरम्य स्वरम्य स्वरम्य स्वरम्य स्वरम्य स्वरम्य स्वरम्य स्वरम्य स्वरम्य स्वर	भेला जिन्ह्ये उभीन अवितेल करें साला पुनासीरना सामजेट लिंग प्रावार पुनासीरना सामजेट लिंग जा मामजापुर वज्य कर तरा () नी प्रायु जा मामजापुर वज्य कर तरा () जा प्रायं प्राय पुनास कर प्रार्थना प्रायं ति कार्य कर तरा () प्रायं प्रायं प्रायं कर तरा () प्रायं प्रायं प्रायं कर तरा () प्रायं प्रायं प्रायं कर तरा () प्रायं प्रायं कर तरा ()	मिटेड (८) एआनसीए आलेल्या इंडिवन उक्स नि जासि उन्य उत्तव ए वन्यवाली उपनेक्यी हि एनिंनला नजेय, दिमि में उत्तरा उप्तय्नाये दिमि में उत्तरा उप्तय्नाये दिमि में उत्तरा उप्तय्नाये हों जामिल उप्तव जोन क्य कॉम्सर उज्जे आपि कॉम्सर उज्जे आपि कॉम्सर उज्जे आपि कॉम्सर उज्जे आपि जा कॉम्सर उज्जे आपि न तरामुद्दित करण्यात ज	बिटिंग स्लंडव्ह्रंस (इंड ए दने जी पायाभूत सुविक्रांध्य यमातून पठन जर्जा निर्मित बेद पुरिवेक्स कोवीन प्राय- के जानि जर्डान कोवी प्राय के जाएनन आपि विक्रीरेखा (यात व्वेसल्स आहेत आपि जी व व्याच्यासारु मांटे विद्युनेन इतिया मांठ्यारुके परवाना हेल्या संड ए एस ३३ प्रमा	राइस) आणि त्यात व या प्रकल्पांत गोठगा तरहेर सिमिटेठा, र्स ये आजटसोर्स सुदि क्षेत्रज्ञ काम करते ये ती दिडाई नैंक ये ती दिडाई नैंक ये ती रडियई नेंक ते ती देडाई नेंक ते देक्स आहेत आ रा जारी करण्यासाठ 1 जनुसार काडण्या?	कालांचा समावेश अ कंपनीज (इंडियन ता इंगामी स्वरूपाये गिया जिल्हा कामल विश्व कारवस, डलर्ड आफि वर्षचा समुर्ग अफि इंडिया सानी ।.०२ लाख एसटी अ ती के वीयीसीएलचे दी अर्ज करण्याचा 5 ल आले आहेत.) कंपनी (२) बिटव् साहे. आकार्डाटिंग स्टेंड्स वे आहेत स्वामुळे स् इप, आसाग आति ग वियो आपि गमसोर वियो यपि गमसोर वे येट्रेल प्रमान विदिसी न वे येट्रेल प्रम रहापू प्रस्ताव विचाराधीन द्रअल कॉर्पोदेशन रि	ुषेक्स कोधीन प्रायखेट इंस) (सुधारपा) नियम इन्द्र आणि व्याप्रस (२) रांघा पडस्यूल स्वतर्ण्यने प्रायप्राय नाहर जिल्हा येने आहेत. उन्नर प्राय न्यू ट्रस्तीलच्छ र. आस्ट प्रारेग रेज्य स्वित्त . आस्ट प्रारंग प्रतिमध्ये न . स्वारा प्रत्या क्रमिटेंड माण्य करिता स्वाक्ष थे / - सतित अमरवाक पर्ण येक संपालक		 सार्वप्रधार) सारवप्रियार) सारवप्रियार पांडर प्रस्त इस्टि सगळता) प्रस्त इस्टि सगळता) प्रस्त इस्टि सारव सोम्ब देवा सारव अव्यात दि. ३ मे. वरित अव्यात दि. २ मे. वरित अव्यात दि. २ 	एक्ग सर्वसमावेशक त्त मूल्पॉकन आर्थित मूल्पॉकन आर्थित हत केली आहे. कंप्सी विश्वोयन आवस्थकत	३६६५.२० - ०.६५ ०.६५ धेर लेखा समिती द्वा वेधानिन अहम्पाल) विनियमन २०१५	१२२२.) ०.) ०.) पाइल्पात आला अ सदर अनुसार मर्थों	८५ : (० ११ - अद अद गोरे व संवात्लक मंद का आहे. तिर्गत बीएसई लि.	१४४.९० - ०.७५ ०.७५ इन्ड यांच्याहरे मंजूर यांच्याहर दाखास	३६६५.२० ११६१७.७८ २.६३ २.६३ केला आहे म ग्यांचे केला आहे म ग्यांचे संघालक भ संघालक म संघालक म	११४४.९० ११८८३.९१ ३.१७ ३.१७ संबंधित सभा दि. २८ रा आहे. डळारच्या आहेरतन्वये बहाय सारेक्षा स्थाइ
बनावट द्ध शिखार हे, ह ट चा डिंच्या कि आि कि आि कि आि कि आि कि जिम्ब्या , जाहिराती , नांच्या स्कार क्कार क्कार का	। भेकेत पर २०३१-२२ भेकेता जमें सुरक १७ अल्लाम्स सर्वम २ ८ और भारत सुरक्ष स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ सुरक्ष १७ अल्लाम्स सर्वम २ ४ और भिक्षा स्वार्थ स्वार्य स्वार्य स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार स्वा स्वार स्वार्य स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वारधार्य स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वा स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वारधार्य स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वा	भेला जिन्ह्ये उभी कार्वलि कर्ये साला दुराव्यीरन्त करणाव उ साला दुरावीरन्त करणाव उ साला दुरावीरन्त करणाव उ साला दुरावी कर करणे () साला साला दुरावी कर करणे () से दिन साला देनि कार्वाज्य करणा से दिन साला दिन कारणा कर का साला साला करणा करणा करणा साला साला साला करणा करणा साला साला साला करणा करणा साला साला साला करणा करणा साला साला साला करणा करणा करणा करणा साला साला साला करणा करणा करणा करणा करणा करणा साला साला करणा करणा करणा करणा करणा करणा करणा करण	मिटेड (८) एआनसीए आलेल्या इंडिवन उक्स नि जासि उन्य उत्तव ए वन्यवाली उपनेक्यी हि एनिंनला नजेय, दिमि में उत्तरा उप्तय्नाये दिमि में उत्तरा उप्तय्नाये दिमि में उत्तरा उप्तय्नाये हों जामिल उप्तव जोन क्य कॉम्सर उज्जे आपि कॉम्सर उज्जे आपि कॉम्सर उज्जे आपि कॉम्सर उज्जे आपि जा कॉम्सर उज्जे आपि न तरामुद्दित करण्यात ज	बिटिंग स्लंडव्ह्रंस (इंड ए दने जी पायाभूत सुविक्रांध्य यमातून पठन जर्जा निर्मित बेद पुरिवेक्स कोवीन प्राय- के जानि जर्डान कोवी प्राय के जाएनन आपि विक्रीरेखा (यात व्वेसल्स आहेत आपि जी व व्याच्यासारु मांटे विद्युनेन इतिया मांठ्यारुके परवाना हेल्या संड ए एस ३३ प्रमा	राइस) आणि त्यात व या प्रकल्पांत गोठगा तरहेर सिमिटेठा, र्स ये आजटसोर्स सुदि क्षेत्रज्ञ काम करते ये ती दिडाई नैंक ये ती दिडाई नैंक ये ती रडियई नेंक ते ती देडाई नेंक ते देक्स आहेत आ रा जारी करण्यासाठ 1 जनुसार काडण्या?	कालांचा समावेश अ कंपनीज (इंडियन ता इंगामी स्वरूपाये गिया जिल्हा कामल विश्व कारवस, डलर्ड आफि वर्षचा समुर्ग अफि इंडिया सानी ।.०२ लाख एसटी अ ती के वीयीसीएलचे दी अर्ज करण्याचा 5 ल आले आहेत.) कंपनी (२) बिटव् साहे. आकार्डाटिंग स्टेंड्स वे आहेत स्वामुळे स् इप, आसाग आति ग वियो आपि गमसोर वियो यपि गमसोर वे येट्रेल प्रमान विदिसी न वे येट्रेल प्रम रहापू प्रस्ताव विचाराधीन द्रअल कॉर्पोदेशन रि	ुषेक्स कोधीन प्रायखेट इंस) (सुधारपा) नियम इन्द्र आणि व्याप्रस (२) रांघा पडस्यूल स्वतर्ण्यने प्रायप्राय नाहर जिल्हा येने आहेत. उन्नर प्राय न्यू ट्रस्तीलच्छ र. आस्ट प्रारेग रेज्य स्वित्त . आस्ट प्रारंग प्रतिमध्ये न . स्वारा प्रत्या क्रमिटेंड माण्य करिता स्वाक्ष थे / - सतित अमरवाक पर्ण येक संपालक		 सार्वप्रधार) सारवप्रियार) सारवप्रियार पांडर प्रस्त इस्टि सगळता) प्रस्त इस्टि सगळता) प्रस्त इस्टि सारव सोम्ब देवा सारव अव्यात दि. ३ मे. वरित अव्यात दि. २ मे. वरित अव्यात दि. २ 	एक्ग सर्वसमावेशक त्त मूल्पॉकन आर्थित मूल्पॉकन आर्थित हत केली आहे. कंप्सी विश्वोयन आवस्थकत	३६६५.२० - ०.६५ ०.६५ धेर लेखा समिती द्वा वेधानिन अहम्पाल) विनियमन २०१५	१२२२.) ०.) ०.) पाइल्पात आला अ सदर अनुसार मर्थों	८५ : (० ११ - अद अद गोरे व संवात्लक मंद का आहे. तिर्गत बीएसई लि.	१४४.९० - ०.७५ ०.७५ इन्ड यांच्याहरे मंजूर यांच्याहर दाखास	३६६५.२० ११६१७.७८ २.६३ २.६३ केला आहे म ग्यांचे केला आहे म ग्यांचे संघालक भ संघालक म संघालक म	११४४.९० ११८८३.९१ ३.१७ ३.१७ संबंधित सभा दि. २८ रा आहे. डळारच्या आहेरतन्वये बहाय सारेक्षा स्थाइ
बनाक्ट दु स्वर हे, ट य हे ट य किंगिण्या ल आणि किंगिण्या ल आणि लिकार त्या स्वया म्या म्या स्वया स्वया स्वया लादेश स्वया स्वर स्वर स्वर स्वर स्वया स्वर स्वया स्वर स्वया स्वर स्वया स्वा स्वया स्वा स्व स्वा स्व स्वा स्व स्व स्वरा स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्व स्व स्व स्व स्व स्या स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व	। भीते पर २०३१-२० थेता जमें सुरक्ष २७ २० अलगावा स्वेतन भीते २०२१ से २२२१ से २२२२ से २२२१ से २२२१ से २२२१ से २२२१ से २२२१ से २२२२ से २२२२ से २२२२ से २२२२ से २२२ से २२२ से २२२ से २२२ से २२२ से २२२ से २२ २२ से २२ २२ से २२ २ २ २२ २ २ २	भेल्या किन्छे उठीक आर्वने कर्चे का राजया द्रावारील मार्गेट लिंगि प्र भये असिपुरिव करण्यात उ मारांच कार्वरत उठी हो की उन्होंने आरंगि मारांच कार्वरत का रिप्रा मारांच के जिलेक की दिन्दुनि आरंगि के जिलेक की दिन्दुनि आरंगि के जिलेक की दिन्दुनि आरंगि के जिल कार्वरत का के प्रतार कार्वर का मारांच मंग्रे के प्रवेध आरंगि के आरंगर कार्य का मारांच तो आरंगरकारा भारति ते छा पु र्युपुर्ग रत्तराजर अश्वरकार स्थाप्र कार्य कार्य भारति ते छा पु	मिरेठ () एअपनीए आलेपा इंकिंग उत्तर उत्तर 11 आणि प्राप्तवासीया भागा सालासीचे प्रवस्तन किंदित्या स्वेद प्रतिप्तान प्रवेदा, सिंहि 13 आणि पांचा मार्थ देखर्र आज पांचा मार्थ हार्वर उद्ध आणि पंचा मार्थ हार्वर उद्ध आणि पंचा मार्थ हार्वर उद्ध आणि पंचा मार्थ तन वरापुरंज काण्याज अ निवस् प्रत्य प्राप्त	बिटिंग स्लंडव्ह्रंस (इंड ए दने जी पायाभूत सुविक्रांध्य यमातून पठन जर्जा निर्मित बेद पुरिवेक्स कोवीन प्राय- के जानि जर्डान कोवी प्राय के जाएनन आपि विक्रीरेखा (यात व्वेसल्स आहेत आपि जी व व्याच्यासारु मांटे विद्युनेन इतिया मांठ्यारुके परवाना हेल्या संड ए एस ३३ प्रमा	राइस) आणि त्यात व या प्रकल्पांत गोठगा तरहेर सिमिटेठा, र्स ये आजटसोर्स सुदि क्षेत्रज्ञ काम करते ये ती दिडाई नैंक ये ती दिडाई नैंक ये ती रडियई नेंक ते ती देडाई नेंक ते देक्स आहेत आ रा जारी करण्यासाठ 1 जनुसार काडण्या?	कालांचा समावेश अ कंपनीज (इंडियन ता इंगामी स्वरूपाये गिया जिल्हा कामल विश्व कारवस, डलर्ड आफि वर्षचा समुर्ग अफि इंडिया सानी ।.०२ लाख एसटी अ ती के वीयीसीएलचे दी अर्ज करण्याचा 5 ल आले आहेत.) कंपनी (२) बिटव् साहे. आकार्डाटिंग स्टेंड्स वे आहेत स्वामुळे स् इप, आसाग आति ग वियो आपि गमसोर वियो यपि गमसोर वे येट्रेल प्रमान विदिसी न वे येट्रेल प्रम रहापू प्रस्ताव विचाराधीन द्रअल कॉर्पोदेशन रि	ुषेक्स कोधीन प्रायखेट इंस) (सुधारपा) नियम इन्द्र आणि व्याप्रस (२) रांघा पडस्यूल स्वतर्ण्यने प्रायप्राय नाहर जिल्हा येने आहेत. उन्नर प्राय न्यू ट्रस्तीलच्छ र. आस्ट प्रारेग रेज्य स्वित्त . आस्ट प्रारंग प्रतिमध्ये न . स्वारा प्रत्या क्रमिटेंड माण्य करिता स्वाक्ष थे / - सतित अमरवाक पर्ण येक संपालक		सार्वप्रधान) - सारवावधीसतिता - प्रसाव - प्रसाव - प्रसाव - प्रसाव - प्रमान प्रसित ने कार - प्रमान - प्रमान 	एक्ष्म सर्वसमयेशक तर मूल्यांकन आर्थसन प्रायं, २०२४ रोजी आ कि केली आहे. कंपनी व विमोधन आवरपकत सरोज पेससाइर www.bs	३६६५.२० - 0.६५ 0.६५ 0.६५ 0.६५ 0.६५ 0.६५ 0.६५ 0.६५	१२२२,) ०./ ०./ १ पहल्पात आला ३ सरर अनुसार मन्द्र थ्या विविस्रम ३३ ऊ स्परीली बेससाइट M	८५ : (० ११ - अद अद गोरे व संवात्लक मंद का आहे. तिर्गत बीएसई लि.	१४४.९० - ०.७५ ०.७५ इन्ड यांच्याहरे मंजूर यांच्याहर दाखास	३६६५.२० ११६१७.७८ २.६३ २.६३ केला आहे म ग्यांचे केला आहे म ग्यांचे संघालक भ संघालक म संघालक म	११४४.९० ११८८३.९१ ३.१७ ३.१७ संबंधित सभा दि. २८ रा आहे. डळारच्या आहेरतन्वये बहाय सारेक्षा स्थाइ
बनावर ड सरवर हे, हे प्र डच्या बज्या किंगोल्या नांच्या स्वार क ककारा क कारिराती नांच्या स्वार क व बडीरांसी वि	। भूतित पर २०३१-२३ कीता जात्रे सुपत्र १७ आत्माल सर्वत म ७ कीत प्राप्त पुत्र साम्या आत्मल सार्व २ भार्य २०२० कीताल ७ कीता मिलान सामेला आत्माल सार्व २ भार्य २०२० कीताल ७ कीता किलान सामेला प्राण्य आत्मालीन पर्वत । (भार-२) ० कीता किलान सामेला प्राण्य के आत्मा साम्या प्राण्य अत्मा ० कीता किलान सामेला प्राण्य के आत्मा साम्या आत्मा हिताल सामेला १ कोता किलान सामेला प्राण्य के आत्मा साम्या आत्मा हिताल सामेला १ कोता किलान सामेला प्राण्य के आत्मा साम्या आत्मा हिताल सामेला प्राण्य के सामेला कि अपने सामेला किलान सामेलाला १ काली सामेला प्राण्य के सामेला सामेला किलान सामेलाला प्राण्य के सामेला किलाने प्राण्य सामेला काला किलाने सामेला राज्य के सामेला काला किलाने प्राण्य सामेला काला किलाने सामेला भारत सामेला किलाने प्राण्य सामेला काला किलाने काला राज्य के सामेला काला किलाने प्राण्य सामेला काला के सामेला सामाला काला कालाने सामेला काला काला के सामेला काला भारत मुझ्ल के आत्म के सामेल सामाला काला कालाना कालाना सामा मुझ्ल राज्य के आत्म के साम सामाला कालानी काला सामा मुझ्ल राज्य के आत्म के साम सामाला कालाना काला सामा मुझ्ल राज्य के आत्म के साम सामाला कालाना कालाना सामा मुझल राज्य के सामेल सामाला कालाना काला कालाना सामा मुझल राज्य के सामेल सामाला कालाना कालाना सामा मुझल राज्य के आत्म के सामेल सामाला कालाना कालाना सामा मुझल राज्य के सामेल सामाला कालाना कालाना कालाना कालाना सामा मुझल राज्य काला कालाना कालाना कालाना कालाना कालाना कालाना सामा मुझल राज्य कालाना कालाना कालाना कालाना कालाना कालाना सामा मुझल राज्य कालाना कालाना कालाना कालाना कालाना कालाना कालाना कालाना सामा मुझल राज्य कालाना कालाना कालाना कालाना कालाना कालाना कालाना कालाना कालाना कालाना सामा मुझल राज्य कालाना काला काल	भेला जिन्ह्ये उठीक आर्वनेल करें स्वारा प्रत्नापीलन सामजेट लिंगि प्र वर्ध्व अविभूतिव करणपार उ मारा प्रत्यादा उठी हो (नी देखाने साम क्रिस्ट का देखाने करें का स्वार प्रदेश लिन्दि क हि विश्वनि करीं प्रत्या प्रार्थने का साम करने प्रत्या प्रार्थने का साम साम प्रत्या प्रार्थने का साम साम प्रत्या प्रत्या आर्थने त्या प्र देखे आरावरकारा भाषेत्त त्या प्र रेथीर्पूर्ण रतराउतर प्रेश्टनकों प्रयोग् प्रार्थना प्राप्ती ना स्वार प्रयोग् प्रार्थना आपने त्या प्र राष्ट्री साम करने त्या प्र राष्ट्री साम करने त्या प्र	निरंठ () एआवनीएलेस आतेत्व्या इंडियन उक्तर का इंडियन उक्तर) प्रचनवक्रीया मर्थ्या कारती के उक्तर का क्रियन के तलात काव्यापति के तिराम जावेव, प्रदि के तलात काव्यापति के तलात काव्यापति कात्यापति काव्यापति काव्यापति काव्यापति काव्यापति काव्यापति काव्यापति काव्यापति काव्यापति काव्यापति काव्यापति काव्यापति काव्यापति काव्यापति काव्यापति काव्यापति काव्यापति कात्यापति कात्यापति काव्यापति कात्यापति कात्यापति कात्याप	राइटिंग श्लेवर्ळ्यूरा (इड ए. हरो जी प्रयापुन शुविधाळ कारावुर एक उठ्ठा निर्मि केर्ड्युमेनेक्स कोर्मेच एक उंधाने त्रायोग मेथे आणि केर्याल आपि क्रेडिया केर्याल आपि क्रेडि दिनुमे रेखाम स्थाप्त के प्रदेत प्राप्त केर्या प्रयाप्त के प्रति हो केर्या के जाहेज	राइस) आणि त्यात व या प्रकल्पांत गोठगा तरहेर सिमिटेठा, र्स ये आजटसोर्स सुदि क्षेत्रज्ञ काम करते ये ती दिडाई नैंक ये ती दिडाई नैंक ये ती रडियई नेंक ते ती देडाई नेंक ते देक्स आहेत आ रा जारी करण्यासाठ 1 जनुसार काडण्या?	कालांचा समावेश अ कंपनीज (इंडियन ता इंगामी स्वरूपाये गिया जिल्हा कामल विश्व कारवस, डलर्ड आफि वर्षचा समुर्ग अफि इंडिया सानी ।.०२ लाख एसटी अ ती के वीयीसीएलचे दी अर्ज करण्याचा 5 ल आले आहेत.) कंपनी (२) बिटव् साहे. आकार्डाटिंग स्टेंड्स वे आहेत स्वामुळे स् इप, आसाग आति ग वियो आपि गमसोर वियो यपि गमसोर वे येट्रेल प्रमान विदिसी न वे येट्रेल प्रम रहापू प्रस्ताव विचाराधीन द्रअल कॉर्पोदेशन रि	ुषेक्स कोधीन प्रायखेट इंस) (सुधारपा) नियम इन्द्र आणि व्याप्रस (२) रांघा पडस्यूल स्वतर्ण्यने प्रायप्राय नाहर जिल्हा येने आहेत. उन्नर प्राय न्यू ट्रस्तीलच्छ र. आस्ट प्रारेग रेज्य स्वित्त . आस्ट प्रारंग प्रतिमध्ये न . स्वारा प्रत्या क्रमिटेंड माण्य करिता स्वाक्ष थे / - सतित अमरवाक पर्ण येक संपालक		सार्वप्रधान) - सारवावधीसतिता - प्रसाव - प्रसाव - प्रसाव - प्रसाव - प्रमान प्रसित ने कार - प्रमान - प्रमान 	एक्ष्म सर्वसमयेशक तर मूल्यांकन आर्थसन प्रायं, २०२४ रोजी आ कि केली आहे. कंपनी व विमोधन आवरपकत सरोज पेससाइर www.bs	३६६५.२० - 0.६५ 0.६५ 0.६५ 0.६५ 0.६५ 0.६५ 0.६५ 0.६५	१२२२,) ०./ ०./ १ पहल्पात आला ३ सरर अनुसार मन्द्र थ्या विविस्रम ३३ ऊ स्परीली बेससाइट M	८५ : (० ११ - अद अद गोरे व संवात्लक मंद का आहे. तिर्गत बीएसई लि.	१४४.९० - ०.७५ ०.७५ इन्ड यांच्याद्वारे मंजूर यांच्यासह दाखाल !	३६६५.२० ११६१७.७८ २.६३ २.६३ केला आहे म ग्यांचे केला आहे म ग्यांचे संघालक भ संघालक म संघालक म	११४४.९० ११८८३.९१ ३.१७ ३.१७ संबंधित सभा दि. २८ रा आहे. डळारच्या आहेरतन्वये बहाय सारेक्षा स्थाइ
बनावर ड रखर हे ट या इच्चा क आहे. ल आणि केजिंगच्या नॉच्या नॉच्या ककाश क म शहरोती विरिकेय म स्था क क य	। भूतित पर २०३१-२३ भीता जात्रे सुरुष ७ ७० आत्माचा स्वर्थन २ ७ भीत भाग में सुरुष प्राप्त आत्मा जाते ३ भाग देव०२० भीतं भाग भूति १२४ विष्ठा १३ मान्यमाने प्राप्त २३ भाग २३ भाग २३ १०२६ भा सुरुष भाग करामा जाते भाग २३ भाग २३ १९४४ विष्ठा भूतमा प्राण्वेते भा साम मान्य भाग २३ १९४४ विष्ठा भूतमा भाग भाग २३ १९४४ विष्ठा भूतमा भाग भाग भाग भाग २४ १९४४ विष्ठा भाग भाग भाग भाग २४ भाग २४ भाग भाग भाग १४ १९४४ विष्ठा भाग भाग भाग १४४ भाग १४४ भाग भाग भाग भाग १४ १९४४ विष्ठा भाग भाग भाग १४४ भाग १४४ भाग भाग भाग भाग १४४ भाग १४४ भाग भाग भाग भाग १४४ भाग १४४ भाग भाग भाग भाग भाग १४४ भाग भाग भाग भाग भाग १४४ भाग १४४ भाग भाग भाग भाग १४४ भाग भाग भाग भाग भाग भाग १४४ भाग	भाषा प्रेस्च उमेक आर्मक का स्वारा जुम्मर्गित्व का स्वारा पांचा कार्लर जा आर्म । पांचा कार्लर जा आरं । भी तिम्सु पांचा कार्लर जा के । भी तिम्सु पांचा कार्य कार्य का पांचा कार्य कार्य का पांचा कार्य का प्राया का	निरंठ () एआवनीएर्ट आतेत्व्या इंडियन उक्तर हिंत्र आति यन उक्तर सालवार के प्राप्त करने सालवार के प्राप्त करने निरामन करेंदा, सिंह निरामन करेंदा, सिंह के प्राप्त करने के प्राप्त करने करा करने करने करने करने करने करने करने करने	बिटिंग स्लंडव्ह्रंस (इंड ए दने जी पायाभूत सुविक्रांध्य यमातून पठन जर्जा निर्मित बेद पुरिवेक्स कोवीन प्राय- के जानि जर्डान कोवी प्राय के जाएनन आपि विक्रीरेखा (यात व्वेसल्स आहेत आपि जी व व्याच्यासारु मांटे विद्युनेन इतिया मांठ्यारुके परवाना हेल्या संड ए एस ३३ प्रमा	राइस) आणि त्यात व या प्रकल्पांत गोठगा तरहेर सिमिटेठा, र्स ये आजटसोर्स सुदि क्षेत्रज्ञ काम करते ये ती दिडाई नैंक ये ती दिडाई नैंक ये ती रडियई नेंक ते ती देडाई नेंक ते देक्स आहेत आ रा जारी करण्यासाठ 1 जनुसार काडण्या?	कालांचा समावेश अ कंपनीज (इंडियन ता इंगामी स्वरूपाये गिया जिल्हा कामल विश्व कारवस, डलर्ड आफि वर्षचा समुर्ग अफि इंडिया सानी ।.०२ लाख एसटी अ ती के वीयीसीएलचे दी अर्ज करण्याचा 5 ल आले आहेत.) करनी (२) बिट्नु साडे. आवार्डाटिंग स्टेंड आवार्डाटिंग स्टेंड ये आहेत प्राप्तु के स्पू दिवा आपि नमलेत ये बोडोबी जाती से प्रेतन पर बाहुए मानलेपी विदेशी ग बोडोबी जाती से प्रेतन पर बाहुए सराज विपले स्ट्रांत प्र	ुषेक्स कोधीन प्रायखेट इंस) (सुधारपा) नियम इन्द्र आणि व्याप्रस (२) रांघा पडस्यूल स्वतर्ण्यने प्रायप्राय नाहर जिल्हा येने आहेत. उन्नर प्राय न्यू ट्रस्तीलच्छ र. आस्ट प्रारेग रेज्य स्वित्त . आस्ट प्रारंग प्रतिमध्ये न . स्वारा प्रत्या क्रमिटेंड माण्य करिता स्वाक्ष थे / - सतित अमरवाक पर्ण येक संपालक	9111 9111	सार्वप्रेपाल) प्रस्ति के प्रसार प्रस्ति के प्रसार प्रम प्रम प्रम प्रम प्रम प्रम प्रम प्रम प्रम प्	ख्या सर्वत्रमधोगक ता मुप्तचेक आधित १ मार्च, २०२४ रोगी आ दिक बेली अप्रे, कंपनी दिकोप्ल अप्रायक संदेव वेबसार, www.bc	<u>३६६५.२०</u> - <u>०.६५</u> - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	د بهریک و دورد. د اماد ماسینی مریک مری مر م مر مر م مر م مر مر م مر م مر م م م م م م م م م م م م م	сч. 3 со १1 - эл. л? а кіяцтан йі а кіяцтан йі а кіяцтан қайтароў	१४४.१० - - 0.9% 0.9% इस संघ्याद्वर मंजूर पंजयार हरवार pack.com चर उप	३६६५.२० ११६१७.७८ २.६३ २.६३ केला आहे म ग्यांचे केला आहे म ग्यांचे संघालक भ संघालक म संघालक म	११४४.९० ११८८३.९१ ३.१७ ३.१७ संबंधित सभा दि. २८ रा आहे. डळारच्या आहेरतन्वये बहाय सारेक्षा स्थाइ
बनावट दु संदार संदार हर हर प्रध्य किल्वा संदेश संदेश संदेश संदेश संदेश संदेश संदेश संदेश संदेश संदेश संदेश संदेश संदार संत संदार संत संदार संदार संदार संदार संदार संदार संदार संदार संदार संदार संदार संत संत संत संत सं संत संदार संत सं स संत सं संत स संत स स संत स स स स	। भीता पर २०३१-२२ भीता जीते सुरक्ष २७ अलागा सार्थता स् से भीत सार्थ सुरक्ष साम्या आतेश्व सार्थ २०२१ भीतेश्वर भीते सार्थ सुरक्ष साम्या आतेश सार्थ २३ भारे २०२१ भीतेश भीते २२ भीते सार्थ २३ भारते साम्या भीते सार्थ २३ भारते २३ भीते भीते २३ भीते सार्थ सामया सामया भीते २३ भीते २३ भारते २३ भीते २३ भीते सार्थ सामया सामया सामया सामया भीते भीते २३ भारते सामया भीते भीते २५ भारते भारते सार्थ सामया सामया सामया सामया सामया सामया सामया भारते सार्थ सामया सामया सामया सामया सामया सामया भारते सार्थ सामया सामया सामया सामया सामया सामया भारता सामया सामया सामया सामया सामया सामया सामया साम्या सुरब्ध सामया सामया सामया सामया सामया सामया सामया सामया साम्या सुरबंध सामया सामया सामया सामया सामया सामया साम्या सुरबंध सामया सामया सामया सामया सामया सामया सामया सामया साम्या सुरबंध सामया सामया सामया सामया सामया सामया सामया साम्या सुरबंध सामया सामया सामया सामया सामया सामया सामया साम्या सुरबंध सामया	भेष्य किछ उमेरि का किस्तु कि पर भये अप्रित्त करणाउ के () के किएं जा प्रभ्यानु उस्त करते () के किएं जा प्रभ्यानु उस करते () के किएं जा प्रभ्यानु उस करते () के किएं जा प्रभ्यानु उस करते () प्रभावे () प्राप्त प्रकार करने देव के किएं के कि किएं के किएं प्राप्त प्रभाव साहस के कि न्द्राप्त करते का आप साहस्त देव आजरबना मासे देव आजरबना मासे दो आजरबना मासे सारीठी, रोयधप्राना ध उड्नून आणप्रजास । सार्व्या, स्वनुरायस्व म स्वुयुद्धा	निर्फत (i) एआवनीएलेस्ट्रि आगेरेवा इंडियन उक्तर प्रायतकरिया नाभा प्रायतकरिया नाभा हरनिया कर प्रायति प्रायति कर हरनिया कर प्रायति प्रायति कर इ. अपि नापाल जन्मा कर इ. अपि नापाल जन्म करियत कर प्रायति कर राज्यव चानी करी हर हो दी	राइटिंग श्लेवर्ळ्यूरा (इड ए. हरो जी प्रयापुन शुविधाळ कारावुर एक उठ्ठा निर्मि केर्ड्युमेनेक्स कोर्मेच एक उंधाने त्रायोग मेथे आणि केर्याल आपि क्रेडिया केर्याल आपि क्रेडि दिनुमे रेखाम स्थाप्त के प्रदेत प्राप्त केर्या प्रयाप्त के प्रति हो केर्या के जाहेज	राइस) आणि त्यात व या प्रकल्पांत गोठगा तरहेर सिमिटेठा, र्स ये आजटसोर्स सुदि क्षेत्रज्ञ काम करते ये ती दिडाई नैंक ये ती दिडाई नैंक ये ती रडियई नेंक ते ती देडाई नेंक ते देक्स आहेत आ रा जारी करण्यासाठ 1 जनुसार काडण्या?	काताचा समीका अ कंपनीज (इंडियन) ॥ प्रमानाठ वायरती पा हमाना दक्यमेर वित्य कराया, इताना वित्य कराया, इताना वित्य कराया, इताने आर्थन स्वीच संपूर्ध आर्थन स्वीच संपूर्ध और संडिया बाने वे वीसीसे(स्वा) हो अ वीसी आर्थन श्रे आ से आर्थन) करने (१२) विद् तां. सारं. आसम्पर्कटिंग एर्डेक वे आठे प्रायुक्त प्रायं के माजसीन विद्वेशी प्रायं के प्रायंत्री प्रायं के प्रायंत्री प्रायंत्री प्रायंत्री प्रायंत्री प्रे वे कोओवो जाते के माने वे दन मजाज दे वे जात प्रायंत्र दे अजयएन प्र बी अयएन प्र नोर्ड्लेक्ट्र कार्या	प्रेश्वन शोधीन प्रायखेट इन्द्र आगि प्रयास (२) त्वा प्राय प्राप्त (२) प्राय प्रवास (२) प्राय प्रवास (२) प्राय प्रवस (२) प्रवस (२) प्रवस (२) प्राय प्रवस (२) प्रवस (२) प्राय प्रवस (२) प्रवस (२) प्राय प्रवस (२) प्रवस	भारत भारत भारत	<u></u>	प्रकृत सर्वसायोगक ता यूपाप्तेक आधित १ मार्च, २०२४ रोसी आ दिक केती अंग्रे, कंपनी विक्रोप्टर आपक संदेश पेसाराट अप्रकाट अधिप्रकार (S), सुंच २०० 			co १। - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	२८४८.२० - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	३६६५.२० ११६१७.७८ २.६३ २.६३ केला आहे म ग्यांचे केला आहे म ग्यांचे संघालक भ संघालक म संघालक म	११४४.९० ११८८३.९१ ३.१७ ३.१७ संबंधित सभा दि. २८ रा आहे. डळारच्या आहेरतन्वये बहाय सारेक्षा स्थाइ
बनावर द संस्वाः हे हे हि ट्या टिया कि आहे. ल आणि किंगिण्या लकाश ल्लांच्या क का का का का का का का का का का का का	। भूतित पर २०३१-२२ करिंग जर्मे सुरुष २ ७० अल्मात्म सर्वेष २ ७४ किर भाग मेर २४ २४ विंग जर्मे सुरुष २ ७० अल्मातम सर्वेष २ ७४ किर भिक्ता स्वर्थन्त प्राव २४ आतार्थन एर्डर । १४ २० २० २०१५ भा सुरुष प्राव प्राव रेग भार पर ३ भिर २ २० २०१४ में प्राव प्राव प्राव से प्राय प्राव रेग १४ ३ भिर २ २० २०१४ में प्राव प्राव स्वर्थन्त भार भे आता प्रात सिर्ण स्वर्ण भारत से सुरुष अप्रार्थन्ते में आप पर भारत आता मिर स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण प्राव से प्राय प्राव स्वर्ण भारत स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण भारत आता मुदियम् अप्रार्थना प्राव हे स्वर्ण स्वरत्ण स्वर्ण स्वरत्य स्वर्ण स्वरत्य स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्य स्वर्ण स्वर्ण	भवा भिष्ठ्ये उगीक अवसिंग कर्य स्वारा प्रवर्शनाव भवामदेत लिं प भये अविश्वरिय करण्याद 3 () संविद्धा का कार्यव्य उगे () संविद्धा का कार्यव्य उगीक () () संविद्धा का कार्यव्य उगीक () () संविद्धार्थ का प्रतिर्थन कार्यवा प्रवार का प्र मंत्र पहला कुलि स्वार्थ का संवार कार्यवा प्रवार का प्र संवार कार्यवा का प्र कार्यवा कार्यवा कार्यवा संवार कार्यवा कार्यवा का संवार कार्यवा कार्यवा का संवार कार्यवा कार्यवा का संवार कार्यवा का प्र मंत्र संवार कार्यवा का प्र संवार का प्र संवार कार्यवा का प्र संवार का प्र संवार का प्र संवार कार्यवा का प्र संवार संवार का प्र संवार का प्र संवार का प्र संवार संवार का प्र संवार का प्र संवा प्र संवार का प्र स का प्र स का प्र स का का प्र स का प्र स का प्र	सिरंह (१) एआवसीए साथ सालेका इंडियन अक्स 1) प्रदायहर्षिय गाभा (हे रहिया के साल क्या के साल हे रहिया के साल क्या के साल हे रहिया के साल क्या के साल के आपि कार्या के साल हो रियार्ज के आपि हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो	राइटिंग श्लेवर्ळ्यूरा (इड ए. दले जी प्रयापुत शुक्रिस्ट अन्यादुव एक उठ्ठा निर्मि केंद्रमुनि मेक्स कोंचेति प्रयाप उंधाने त्रायोग मेंदे उद्योग केंद्र उद्याप्त आणि केंद्र प्रयाप केंद्रापा प्रयाप्तके प्राप्ते आणि केंद्रापा प्रयाप्तके प्राप्ते जा केंच्या केंद्र एस ३३ एमा आले आहेत.	राइस) आणि त्यात व या प्रकल्पांत गोठगा तरहेर सिमिटेठा, र्स ये आजटसोर्स सुदि क्षेत्रज्ञ काम करते ये ती दिडाई नैंक ये ती दिडाई नैंक ये ती रडियई नेंक ते ती देडाई नेंक ते देक्स आहेत आ रा जारी करण्यासाठ 1 जनुसार काडण्या?	काताचा समीका अ कंपनीज (इंडियन) ॥ प्रमानाठ वायरती पा हमाना दक्यमेर वित्य कराया, इताना वित्य कराया, इताना वित्य कराया, इताने आर्थन स्वीच संपूर्ध आर्थन स्वीच संपूर्ध और संडिया बाने वे वीसीसे(स्वा) हो अ वीसी आर्थन श्रे आ से आर्थन) करने (१२) विद् तां. सारं. आसम्पर्कटिंग एर्डेक वे आठे प्रायुक्त प्रायं के माजसीन विद्वेशी प्रायं के प्रायंत्री प्रायं के प्रायंत्री प्रायंत्री प्रायंत्री प्रायंत्री प्रे वे कोओवो जाते के माने वे दन मजाज दे वे जात प्रायंत्र दे अजयएन प्र बी अयएन प्र नोर्ड्लेक्ट्र कार्या	प्रेश्वन शोधीन प्रायखेट इन्द्र आगि प्रयास (२) त्वा प्राय प्राप्त (२) प्राय प्रवास (२) प्राय प्रवास (२) प्राय प्रवस (२) प्रवस (२) प्रवस (२) प्राय प्रवस (२) प्रवस (२) प्राय प्रवस (२) प्रवस (२) प्राय प्रवस (२) प्रवस	भारत भारत भारत	सार्वप्रेपाल) प्रस्ति के प्रसार प्रस्ति के प्रसार प्रम प्रम प्रम प्रम प्रम प्रम प्रम प्रम प्रम प्	प्रकृत सर्वसायोगक ता यूपाप्तेक आधित १ मार्च, २०२४ रोसी आ दिक केती अंग्रे, कंपनी विक्रोप्टर आपक संदेश पेसाराट अप्रकाट अधिप्रकार (S), सुंच २०० 			co १। - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	२४४,२० - - - - - - - - - - - २०४ - - - २०४ - - २०४ - - २०४ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	३६६५,२० १९६९७.७८ २.६३ २.६३ २.६३ २.६३ २.६३ २.६३ २.६३ २.६३	११४४.९० ११८८३.९१ ३.१७ ३.१७ संबंधित सभा दि. २८ रा आहे. डळारच्या आहेरतन्वये बहाय सारेक्षा स्थाइ
बनावर द संस्वाः हे हे हि ट्या टिया कि आहे. ल आणि किंगिण्या लकाश ल्लांच्या क का का का का का का का का का का का का	। भीते पर २०३१-२२ भीता जी मुंदू पत ७ ७० आगाम सर्वेत २ ७ भीत भाग मेर रहा भाग आतेम को २४ भाग २४ २०२० भीते भाग ४० भीते भिक्ता कालेन प्रति २४ भाग २४ २०२० भीते भाग ४० भीते भिक्ता कालेन प्रति २४ आगा २१ भाग २४ २०२७ ४० भीते भिक्ता कालेन प्रति २४ आगा २१ भाग २४ ४० भीत भार्थिकने प्राय स्वेत प्रता भाग २४ आगा २१ ४० भीत भार्थिकने प्राय स्वेत प्रता भाग २४ आगा २१ ४० भीत भार्थिकने प्रता भाग २४ आगा २१ भाग २४ भाग विद्यार्थ भाग २४ आगा २१ भाग २४ आगा भाग २४ आगा २४ भीते भार्थिक प्रता भाग २४ आगा भाग २४ आगा २४ भीते भार्थिक प्रता भाग २४ आगा भाग २४ आगा २२ भीते भार्थ प्रता भाग विद्योध्या भाग भाग २४ आगा भाग २४ आगा २२ भीते भार्थ आगा २४ भाग २४ भीता भाग २४ आगा २४ ४ आगा २४ आगा २४ आगा २४ आगा २४ आगा २४ आगा २४ ४४ ४४ आगा २४ आगा ४४ ४४ आगा २४ आगा २४ आगा ४४ आगा २४ आगा ४४ ४४ आगा ४४ ४४ आ	भेष्य किछ उमेरि का किस्तु कि पर भये अप्रित्त करणाउ के () के किएं जा प्रभ्यान दे () के किएं जा प्रभ्यान दे () के किएं जा प्रभ्यान द्वारा के () के किएं जा प्रभ्यान द्वारा के () के किएं प्रभाव के किएं के किएं कि किएं दे के किएं के कि किएं के किएं प्रथाप्रभाव पर का प्रमुध के मार्जेन प्रदेश आप्रों वाल्मी दे आजरबना मांगे दे () आजरबना मांगे दो आजरबना मांगे दो आजरबना मांगे दो जा प्रमान के कि	सिरंह (१) एआवसीए साथ सालेका इंडियन अक्स 1) प्रदायहर्षिय गाभा (हे रहिया के साल क्या के साल हे रहिया के साल क्या के साल हे रहिया के साल क्या के साल के आपि कार्या के साल हो रियार्ज के आपि हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो	राइटिंग श्लेवर्ळ्यूरा (इड ए. दले जी प्रयापुत शुक्रिस्ट अन्यादुव एक उठ्ठा निर्मि केंद्रमुनि मेक्स कोंचेति प्रयाप उंधाने त्रायोग मेंदे उद्योग केंद्र उद्याप्त आणि केंद्र प्रयाप केंद्रापा प्रयाप्तके प्राप्ते आणि केंद्रापा प्रयाप्तके प्राप्ते जा केंच्या केंद्र एस ३३ एमा आले आहेत.	राइस) आणि त्यात व या प्रकल्पांत गोठगा तरहेर सिमिटेठा, र्स ये आजटसोर्स सुदि क्षेत्रज्ञ काम करते ये ती दिडाई नैंक ये ती दिडाई नैंक ये ती रडियई नेंक ते ती देडाई नेंक ते देक्स आहेत आ रा जारी करण्यासाठ 1 जनुसार काडण्या?	काताचा समीका अ कंपनीज (इंडियन), 11 प्रमानाठ वायरती पांच तिराव राजगी रजरम्पत्री गिर्फा तिराव सरमार, कार्य वित्रा बरायर, इत्या प्रेरित संदे आपि तर्वाच सर्प्रा, का और रावेचा सर्प्रा, का 10 वे वीयेरी(सरक दी अर्ज कल्प्रचा क हा आते जलेत.) करने (१२) विद् तां. सारं. आसम्पर्कटिंग एर्डेक वे आठे प्रायुक्त प्रायं के माजसीन विद्वेशी प्रायं के प्रायंत्री प्रायं के प्रायंत्री प्रायंत्री प्रायंत्री प्रायंत्री प्रे वे कोओवो जाते के माने वे दन मजाज दे वे जात प्रायं दी आपएल प्र नी दर्गांक्वल कार्या देवा नी दर्गांक्वल कार्या	प्रेश्वन शोधीन प्रायखेट इन्द्र आगि प्रयास (२) त्वा प्राय प्राप्त (२) प्राय प्रवास (२) प्राय प्रवास (२) प्राय प्रवस (२) प्रवस (२) प्रवस (२) प्राय प्रवस (२) प्रवस (२) प्राय प्रवस (२) प्रवस (२) प्राय प्रवस (२) प्रवस	भारत भारत भारत	<u></u>	प्रकृत सर्वसायोगक ता यूपाप्तेक आधित १ मार्च, २०२४ रोसी आ दिक केती अंग्रे, कंपनी विक्रोप्टर आपक संदेश पेसाराट अप्रकाट अधिप्रकार (S), सुंच २०० 			त् ः २८ १। - २८ २८ २८ २१ २८ २२ २८ २२ २४ २२	२४४,२० - - - - - - - - - - - २०४ - - - २०४ - - २०४ - - २०४ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	३६६५,२० १९६९७.७८ २.६३ २.६३ २.६३ २.६३ २.६३ २.६३ २.६३ २.६३	ર રરજ. ૧૦ ૨૨૮૦ ૧.૨ ૨.૨૦ ૨.૨૦ ૨.૨૦ ૨.૨૦ ૨.૨૦ ૨.૨૦ ૨.૨૦ ૨
बनावर द संस्वाः हे हे हि ट्या टिया कि आहे. ल आणि किंगिण्या लकाश ल्लांच्या क का का का का का का का का का का का का	। भूति पर २०३१-२० वर्ताता जर्मे सुरक १७ अलगाना वर्षता २ भूति त्यार २३ २३ २३ २४ वर्ताता जर्मद सुरक १७ अलगाना वर्षता २ जिले २२ १३ व्यवसीन वर्ताता करवेत सुरक ११ २२ २४ २०१३ आ युर्ग्न पर करनावा जीने २३ २०१३ आ युर्ग्न पर करनावा जीने २३ २४ वर्त्य वर्षात्राचे प्राप्ता वर्षे प्राण्ठ २३ ४४ २४ वर्त्य वर्षित्र २४ व्यायतीय २४ व्याय पर वर्त्या प्राप्ता दे २४ वर्त्य वर्षात्राचे प्राप्ता वर्षे प्राण्ठ २३ ४४ २४ वर्त्य वर्ष्याच्ये प्राप्ता वर्षे प्राप्ता प्राप्ता वे २४ वर्त्य वर्ष्याच्ये प्राप्ता वर्षे प्राप्ता प्राप्ता वे २४ वर्त्य वर्ष्याच्या वर्षे प्राप्ता वर्ष्या प्राप्ता वे २४ वर्त्य विषय प्राप्तांचे प्राप्ता वर्ष्या प्राप्ता विद्या २४ वर्ण्य वर्ष्या वर्ष्या व्यायवर्त्य प्राप्ता व्याय कार्यवा वे २७ वर्ष्या व्याय कर्ण्या व्यायवर्धा प्राप्ता व्याय कार्यवा वे २४ वर्ण्या व्याय वर्ण्या व्यायवर्दा प्राप्ता व्याय कार्यवा वे २२ वर्ण्या वर्षा व्यायवर्दा प्राप्ता व्याय कार्यवा व्याय विष्ठा व्याय व्याय व्यायवर्दा प्रेत्	भवा भिष्ठ्ये उगीक अवसिंग कर्य स्वारा प्रवर्शनाव भवामदेत लिं प भये अविश्वरिय करण्याद 3 () संविद्धा का कार्यव्य उगे () संविद्धा का कार्यव्य उगीक () () संविद्धा का कार्यव्य उगीक () () संविद्धार्थ का प्रतिर्थन कार्यवा प्रवार का प्र मंत्र पहला कुलि स्वार्थ का संवार कार्यवा प्रवार का प्र संवार कार्यवा का प्र कार्यवा कार्यवा कार्यवा संवार कार्यवा कार्यवा का संवार कार्यवा कार्यवा का संवार कार्यवा कार्यवा का संवार कार्यवा का प्र मंत्र संवार कार्यवा का प्र संवार का प्र संवार कार्यवा का प्र संवार का प्र संवार का प्र संवार कार्यवा का प्र संवार संवार का प्र संवार का प्र संवार का प्र संवार संवार का प्र संवार का प्र संवा प्र संवार का प्र स का प्र स का प्र स का का प्र स का प्र स का प्र	तिरंठ (/) एआवसीए सोलंग हिंदि के प्रिय के प्रित के प्राय के प्रिय के प्राय	राईटिंग तत्वहेत्वः (१७ ए तते जी वसापूर प्रार्थका किंग्रे केंद्रियों केंद्रियों केंद्रियों केंद्रियों केंद्रियों केंद्रियों के किंग्रे केंद्रियों कार्य केंद्रला कोर्य अपी किंग्रा कार्यका केंद्रियों कार्य केंद्रला कोर्य अपी किंग्रा कार्यका के केंद्रियों केंद्रिया वायतके प्रत्य केंद्रियों किंग्रा वायतके प्रत्य केंद्रियों केंद्र किंग्रा कार्यके प्रत्य के	एस्स) आमि त्याव व या प्रकलवांच मोठवा किरण्डे वे व्यवस्था को किरण्डे वे व्यवस्था के किरण्डे के या प्रकलिय के किरण के किरण के किरण के किरण के किरण के किरण के किरण के किरण के किरण के किरण के कि किरण के किरण क	साराधा समीका अ कंपपील (इंडियन) प्रायमाड वायरली पिछ तिला वास्त्र प्रायमित तिया तेला वास्त्र अप्रि तरीसा मानी अप्रि तरीस प्रायमित अप्रि तरीस प्रायमित अप्र उद्यास प्रायमित अप्र उत्यास प्रायमित अप्र उत्यास प्रायमित अप्र उत्यास प्रायमित अप्र उत्यास प्रायमित अप्र उत्यास प्रायमित) भरतने (२) मिट्यु ता. 	ुवेवस कोचेंग प्रायदेट हवा (पुपाल पाप्रास () हवा प्रायद्वार (दा) प्राय प्रवद्धा का प्रायदे वेचे आते , ज्यावा प्रायन्तींक में उप्राया प्रायन्तीक में उप्राया प्रायन्तीक में प्राया प्रायन्तीक में प्राया प्राया प्राया क्यावा प्रायन्तीक का प्राया के प्राया प्राया क्यावा प्रायन्तीक स्वाय प्राया प्राया क्यावा प्राया प्राया क्यावा प्राया का ना का प्राया प्राया क्यावा प्राया का ना का प्राया का ना का प्राया का ना का प्राया का ना का प्राया का ना ना का ना का ना का ना का ना का ना ना का ना ना का ना ना का ना का ना का ना का ना ना का ना ना का ना	भाग भाग स्थापी स्थापी		एष्ट्रा सर्वसानोगक ता मूच्यांचन आधित दि सार्व, २०३४ गोरी आ कि बेदनी अंदे, स्वेद म विमेशन आयरकार के बेस्तार त्याप्त स्वाराध्य स्वित्र प् स्वाराध्य स्वार्य य स्वाराध्य स्वार्य य स्वाराध्य स्वार्य य स्वाराध्य स्वाराध्य स्वार्य			 ८० ११ - २६ २६ २६ ३६ <	२४४,९० - ०.७५ ०.७५ २.७५ २.७५ २.७५ २.७५ २.४४ २.४४ २.४४ २.४४ २.४४ २.४४ २.४४ २.४	३६१२,२० ११९१७-७४ १९९१७-७४ २.९३ २.९३ चेला आहे व लांचे चेला आहे व लांचे वेला आहे व लांचे गंपालक प्र गंपालक प्र गंपालक क्रि	११४८८.२० १९८८३.२१ ३.२७ ३.२७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१
बनावर दु संदार हु ह स्ट या स्ट या संट या सिंह जाहि स्त्री सिंह जाहि स्त्री संत्रिया संत्रिया में विरुदेखर प्रत्या परिवरी वि सिंह जाह मन्द्रा से सिंह जाह संतर संतर संतर संतर संतर संतर संतर संतर	। भूतित पर २०३१-२२ जीता जीते पूर्वत २७ अल्मात्म वर्षत २ ७ जीत जाग स्वर २०३१-२२ जीता जीते प्रदेश २०२० जीतंस १०२० जाग स्वर प्राप्त करने साम स्वर २०२० जीतंस जिलेहर, १२ प्रकार्थना व्यक्ति स्वरंड साम स्वर्ग (१) स्वर २०२४ सा प्रकृत पर करनावा जीते १४ स्वर्ग विश्वस्य ने प्राप्त के प्राप्त प्राप्त के प्राप्त २०२० २०२४ सा प्रकृत प्राप्त के प्राप्त प्राप्त के प्राप्त प्राप्त के १९ स्वर्ग विश्वस्य ने प्राप्त के प्राप्त प्राप्त के प्राप्त होता १९ स्वर्ग विश्वस्य ने प्राप्त के प्राप्त प्राप्त के प्राप्त होता का स्वर्ग स्वरंत त्याप्तम् १ आतंत्र के प्राप्ती स्वर्ग प्राप्त के प्राप्त १९ स्वर्ग विश्वस्य ने प्रायंत्र के प्राप्त के प्राप्त होती प्राप्त स्वरंत त्याप्तम् १ आतंत्र के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त होता भावस्य होता के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त १९ स्वर्ग विश्वस्य के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त १९ स्वर्ग विश्वस्य के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त १९ स्वर्ग व्याप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त १९ स्वर्ग विश्वस्य के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त १९ स्वर्ग व्याप्त का प्राप्तवर्ग वास्तविद्यों प्राप्त के प्राप्त १९ स्वर्ग व्याप्त का प्राप्तवर्ग वास्तवर्ग देशीका प्राप्त १९ स्वर्ग व्याप्त का प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त १९ स्वर्ग व्याप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त वा व्याप्त इत्य १९ स्वर्ग वास्त्र क्याप्त वास्तवर्ग वास्त्र वास्त्र विश्वति के व्याप्य वाति १९ स्वरित व्याप्य प्राप्त वास्तवर्ग वास्त्र वास्त्र वित्य के विर्यापत १९ स्वरित वास्त्र वास्त्र वास्त्र वास्त्र वास्त्र वार्याप्त के प्राप्त वाति १९ स्वरित वास्त्र वास्त्र वास्त्र वास्त्र वार्यात्र क्राप्त वाति १९ स्वर वाल्य प्राप्त वास्त्र वास्त्र वास्त्र वास्त्र वार्या	भेष्य किछ उमेरि का स्वित्त कर स्वार ज़लारी का स्वार्थ के स्वार कार्यत जाती है। वे किछूमि जा माध्यस्य रहे । वे किछूमि जा माध्यस्य रहे । वे किछूमि जा माध्यस्य रहने किछ रहे । वे किछुमि जा माध्यस्य रहने किछ रहने किछ रहने स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के रहने किछ रहने किछ रहने के रहने के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्य के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्य के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के स्वार के स्वार्य के स्वार के स	तिरंठ (/) एआवसीए सोलंग हिंदि के प्रिय के प्रित के प्राय के प्रिय के प्राय	रादेगि सत्वप्रेश्त (३६ गर स्टो पी चायपुर पुरिक्ष स्टेल्ड्रेसिया संस्थाप स्टेल्ड्रेसिया संस्थाप स्टेल्ड्रेसिया संस्थाप स्टेल्ड्रेसिया सार्वे केल्स, आरंत की सिंग्स पालने स्टेल्ड्रेसिया संस्थाप स्टेल्ड्रिया संस्थापने प्रत्य स्टेल्ड्रिया संस्थापने प्रत्य स्टेल्ड्रिया संस्थापने प्रत्य स्टेल्ड्रिया संस्थापने प्रत्य स्टेल्ड्रिया संस्थापने प्रत्य स्टेल्ड्रिया संस्थापने प्रत्य स्टेल्ड्रिया	राइस) आणि त्यात व या प्रकल्पांत गोठगा तरहेर सिमिटेठा, र्स ये आजटसोर्स सुदि क्षेत्रज्ञ काम करते ये ती दिडाई नैंक ये ती दिडाई नैंक ये ती रडियई नेंक ते ती देडाई नेंक ते देक्स आहेत आ रा जारी करण्यासाठ 1 जनुसार काडण्या?	साराधा समीका अ कंपनीज (इंडियन) 10 प्रमाला उत्तरवे मिस्र जिस्ता सार्थ्य प्राप्ति प्रतिक्रा सार्थ जिस्ता सार्वे प्राप्ति ने से सार्थ अपिन इंडिया मोनी 0.02 प्राप्त पर्यंत्र) अपिन इंडिया मोनी 0.02 प्राप्त पर्यंत्र) उप्तर प्राप्त के विजेने स्वराधा के विजेने स्वराधा के विजेने स्वराधा के विजेने स्वराधा के विजेने स्वराधा के विजेने स्वराधा के विजेने क्षा के विजेने के वा के के वा के के के वा के के वा के के वा के के के वा के के के वा के के के वा के के के वा के क) करने (१३) मिट् साहे. आसा चंडेरिंग एटेंक जासा चंडेरिंग एटेंक वे जांक पाकुल प्रे के जांक पर, आसम जामि से जांक प्रे के प्रे के जांक के जांक स्थाने वे द्वार करता के प्रे के जांक स्थाने वे द्वार करता के प्रे के जांक स्थाने वे द्वार करता के प्रे से प्रे के प्रे के प्रे से प्रे के प्रे के प्रे से प्रे के प्रे के प्रे के प्रे के प्रा के प्रे के प्रे के प्रा के प्रकार के प्रा के प्रे के प्रा के प्रा के प्रा के प्रे के प्रा के प्रा के प्रा के प्रे के प्रा के प्रे के प्रा के प्रा क	ुवेवस कोचेंग प्रायदेट इंतर (पुराक्षया) विषय स्वत्र आणि प्रायद्वार (२२) प्रायदेव प्रायदेव (२२) प्रायदेव प्रायदेव (२२) स्वायता प्रत्यानिक प्रेर स्वायता प्रत्यानिक प्रेर स्वायता प्रत्यानिक प्रायदेव स्वायता प्रत्यानिक प्रायदेव स्वायते २२ स्वायति २४ स्वायक स्वायते २२ स्वायति २४ स्वायक स्वायते २२ स्वायते स्वायते २२ स्वायक स्वायते २२ स्वायते स्वायते २२ स्वायते स्वायते २२ स्वायते स्वायते २४ स्वायति स्व	भगाप भगाप स्थापी १.०३.२०२३	पर्वप्राण)	प्रथाः सर्वस्वारोगस् स्वार्थे स्वार्थे स्वार्ये स्वार्थे स्वार्ये स्वार्य स्वार्ये स्वार्ये स्वा			co. २ co.	۲۲۲۲ ۲۵۰ 	३६९२,२० ११६१७,७८ १९६१७,७८ २,९३ २,९३ केला आहे व ल्यांचे विवर्त पाफांचे सा अपियाइस व अपियाइस क्र अपियाइस क्र अपियाइस क्र इसि. अपियाइस क्र इसि. अपियाइस क्र अपियाइस क्र इसि. अपियाइस क्र इसि. अपित्स क्र इसि. अपि. अपित्स क्र इसि. अपित्स क्र इसि. अपि. अपि. अपि. अपि. अपि. अपि. अपि. अप	११४८.२० १९८८२.११ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३
बनावर द स्वर हिरा हे. ह य हिरा किंगिल्या किंगिल्या काहिराती निक्तेवय भ काहिराती विक्तेवय भ काहिराती विक्ताय के सिकाम के संकार कार संकार काहिराती किंगिल्या संकार काहिराती किंगिल्या संकार काहिराती किंगिल्या संकार काहिराती किंगिल्या संकार काहिराती किंगिल्या संकार काहिराती किंगिल्या संकार काहिराती किंगिल्या संकार काहिराती किंगिल्या संकार काहिराती किंगिल्या संकार काहिराती केंगिल्या संकार काहिराती केंगिल्या संकार काहिराती केंगिल्या संकार काहिराती केंगिल्या संकार केंगिल संकार केंगिल संकार के का संकार के संकार कार का संकार का संकार का संकार का संकार संकार केंगि संकार का संकार का संकार का संकार का संकार का संकार का संकार का संकार के का संकार का संकार संकार का संकार का संकार संकार के स संकार संकार संकार संकार संकार स संकार स स संकार स स संकार स स स स स स स स स स स स स स स स स स स	। भूतित पर २०३१-२२ महाता जर्मे सुरक १० आत्माक सर्वेत म ७ महिता पर २०३१-२२ महाता जर्मे सुरक १० आत्माक सर्वेत म ७ महिता भिक्रम कालेल हमिर आत्मा २०२४ भार ० भूते किल्का कालेल हमिर आतम्हित स्वित्र प्रिय ० भूते किल्का कालेल हमिर आतम्हित स्वत्र प्रिय ० भूते किल्का काले हमिर आतम्हित स्वत्र प्राय २०१४ मा सुरम्म पालसे में आजम हमार्थना काला मिले देना २०१४ मा सुरम्म पालसे में आतम हमार्थना काला मिले देना २०१४ मा सुरम्म पालसे में आतम हाला महत्र में २०१४ मा सुरम्म पालसे में आतम हाला महत्र में २०१४ मा सुरम्म पालसे में आतम हाला महत्र २०१४ मा सुरम्म पालसे सात्म मा स्वत्र २०१४ मा सुरम्म पालसे सात्म मा स्वत्र १९९४ मा सात्म स्वत्र स्वर्थ मा स्वत्र आतम्ह भाषावा आतम्ह काला काला स्वत्र मुद्दे में स्वरतने आतम्ह भाषावा आतम्ह काला स्वत्र प्राय २२ मिरा कडी अतमेह सुरम्म स्वति मिला । इन्यु स्वति स्वत्र आतम्ह स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र मा स्वत्र मिला २२ मिरा कडी अतमेह सुर मातामी प्राय स्वत्र प्	भवा फिर्क्यु उमेक अविस् कर्क स्वात्रा प्रवर्तनिक माम्स्टे लिं मां का कार्यव, सार्वे - () सीदभूमी सां का कार्यव, सार्वे - () सीदभूमी सां का कार्यव, सार्वे - () सीदभूमी सां का कार्यव, सुर्वे - () सीदभूमी सां का कार्यव, सुर्वे - कार्यव्या, का सं कार्यव, सां का का ना सां सां कार्यव, सां कार्यव, सां का का सां देखें, सांस्टर्ग, सांस्टर्ग, सांस्टर्ग, मां सार्वे, रो स्वायपानी मां स्टेड यूतन आणण्यात्रान मां स्टोड यूतन कररोल्ये का सां दिइझाइन केरोले आहे. स्वाप्ताप्र १२० १५८	तिरंठ (/) एआवसीए सोलंग हिंदि के प्रिय के प्रित के प्राय के प्रिय के प्राय	रावेश संवर्ष्षत्र (३६ पर स्रे जो वायपूरा पुरिधाः व्याप्त प्रिया जीति प्राप्त हे व्याप्त स्वाप्त के स्वे प्राप्त हे व्याप्त स्वाप्त के स्वे प्राप्त स्वाप्त स्वे के सित्युम वाया वायस्य स्वाप्त व्याप्त स्वाप्त के स्वे हे तियुम् वाया वायस्य स्वाप्त के स्वे प्राप्त स्वाप्त के स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त के स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त के स्वाप्त स्व	रस्स) आसि त्याव २ मा प्रकल्वाचे भोगवा ती करणे हे ज्याव्य औरत मा करते औरत मा करते के आकर कार्य करते के आकर कार्य करते के आकर कार्य करते के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार कार्य कार्य कार कार कार कार कार कार कार कार कार कार	साराधा सम्प्रीका अ संपत्रील (इंडिवन), 11 प्रयापांक वास्तर्थन पिक जिल्हा वास्त्र प्रति संपत्र विक सरावता, इन्हें अप्रेल संप्रेस प्राप्त में अप्रेल संप्रित्र वानी अप्रेल संप्रेस प्राप्त के अप्रेल संप्रित्र अप्रेल संप्रेस प्राप्त क आप्ते आप्रेल संप्रेस प्राप्त क आप आप्ते के स्वेली क आप आप्ते के स्वेलिय क संके संके संकेलिय क) अपनी (१) मिट् मारे. 	शुवेश कोर्पने प्रायंद्र 2 इंता (पुराय) विषय इन्द्र अति प्रायंत्र (2) ताल पार्च्य कर्पना कार्यात्र प्रेयं अते , कर्पना कार्यात्र कर्मान्त्र प्रेयं अते , करावाद उन्दर्शनकार करावाद उन्दर्शनकार क्षेत्र अते प्रायंत्र कर्मान्त्र कार्यात्र व्यवसिन्द्र कर्म कार्यात्र व्यवसिन्द्र कर्म कार्यात्र व्यवसिन्द्र कर्म कार्या व्यवसार कार्या व्यवसार कार्या क्रम्प्र कर्म कार्या व्यवसार कार्या क्रम्प्र कर्म कार्या व्यवसार कार्या क्रम्प्र कर्म कार्या क्रम्प्र कर्म कार्या व्यवसार कार्या क्रम्प्र कर्म्या कार्या व्यवसार कार्या क्रम्प्र कर्म्या कार्या क्रम्प्र कर्म्य कर्म्य कर्म्या कर्म्य कर्म्या कर्म्य कर्म्य कर्म्य कर्म्य क्रम्प्र कर्म्य कर्म्य क्रम्प्र कर्म्य कर्म्य क्रम्प्र कर्म्य कर्म्य कर्म्य कर्म्य क्रम्प्र कर्म्य क्रम्य कर्म कर्म कर्म्य कर्म्य कर्म कर्म्य कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म	भाग भाग स्थापी स्थापी १.०३.२०२३ (फ. ३ पारा)	परिप्राः)	एष्ट्रा सर्वसानोगक ता मूच्यांचन आधित दि सार्व, २०३४ गोरी आ कि बेदनी अंदे, स्वेद म विमेशन आयरकार के बेस्तार त्याप्त स्वाराध्य स्वित्र प् स्वाराध्य स्वार्य य स्वाराध्य स्वार्य य स्वाराध्य स्वार्य य स्वाराध्य स्वाराध्य स्वार्य			ch, 3 co ११ - - st, - st, attraction -		३६१२,२० ११९१७-७४ १९९१७-७४ २.९३ २.९३ चेला आहे व लांचे चेला आहे व लांचे वेला आहे व लांचे गंपालक प्र गंपालक प्र गंपालक क्रि	११२८-२० ११८८३-११ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.
बनावर द्ध संदार हे, इ. स्ट या स्ट या स्ट या स्ट या स्ट या स्ट या सिंह जाहर संदेश स्वरा स्वरा संदेश संद संदेश संद संदेश संद संद संद संत संद संद संत संद संत संत संत संत संत संत संत संत संत संत	। भूतित पर २०३१-२० वर्गता जाते पुरुष २० ७० अल्मान्स वर्षन २ ७ भूति राज्य २०३१-२० वर्गता जाते पुरुष २० ७० अल्मान्स वर्षन २ १०२१ आप उन्हे प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं २०२१ विंधा २०२१ विंदे प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं २०२१ विंधा २०२१ १२२१ आप उन्हार प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं २०२१ विंधा २०२१ २०२१ आप उन्हरा प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं २०२१ २०२१ आप उन्हरा प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं २०२१ २०२१ आप उन्हरा प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं २२ २०२४ विंधा प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं २२ २०२४ विंधा प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं विद्याप्रायं प्रायं २२ २०२४ विंधा प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं प्रायं विद्याप्रायं प्रायं विद्याप्रायं प्रायं व्याप्रायं प्रायं विद्याप्रायं प्रायं विद्याप्रायं व्याप्रायं व्याप्रायं व्याप्रायं व्याप्रायं व्याप्रायं व्याप्रायं व्याप्रायं प्रायं व्याप्रायं व्यायं व्यायं व्याप्रायं व्या	भेष्य किछ देशके जाने कर्मने कर प्राया प्रवर्शना कर्माने है। वे किछ् मांच कर्मल जाने है। वे किछ् मांच कर्मल जाने है। वे किछ् मांच कर्मल जाने है। वे किछ् मांच कर्मने वा प्राया प्रवर्शना ह मांच कर्मने प्रवर्शना प्रवर्शना ह मांच कर्मने प्रवर्शना कर कर प्रवर्शना कर कर्मने कर कर बंद प्रवर्शना कर कर के आप प्रवर्शना भारते कर्मन प्रवर्शना कर कर्मने कर कर बाद प्रवर्शना भारते कर्मन कर्मने प्रवर्शना भारते कर बाद प्रवर्शना भारते कर्मन बाद प्रवर्शना प्रवर्शना कर मांच क्रम्प्र प्रवर्शना कर बाद प्रवर्शना प्रवर्शना कर बाद प्रवर्शना प्रवर्शना कर बाद प्रवर्शना प्रयास कर बाद प्रवर्शना प्रवर्शना कर बाद प्रवर्शना प्रवर्शना कर बाद प्रवर्शना प्रयास कर बाद प्रवर्शना प्रवर्शना कर बाह प्रवर्शना कर बाह प्रवर्शना कर कर्म	तिर्फट (v) एवसलगेल तिर्फट में प्रे प्रवास व्यक्त 1) आसी क्षेत्र प्रवास के प्रे प्रायम जनमेरी प्रवास प्रे प्रवास के प्रित्तिक के प्रायम जनमेरी प्रवास व्यक्त कि प्रतास के प्रार्थन के प्रार्थन देखें जिस वाच्या करते दिने ति प्रार्थन के प्रार्थन के प्रार्थन के प्रार्थन के प्रार्थन राजन पांचे करी के प्रार्थन के प्रार्थन के प्रार्थन राजन पांचे करी के प्रार्थन देवे ति राजने स्वी	रावेशि संवर्षम् पुनिधः स्रे जी पायपूर पुनिधः स्रि प्रायपुर स्वन्द्र आति सिंग देवती स्वर्णे स्वर्णे से देवती विक्रा स्वर्णे स्वर्णे स्वर्णे स्वर्णे स्वर्णे स्वर्णे स्वर्णे स्वर्णे स्वर्णे स्वर्णे स्वर्णे स्वरे स्वर्णे स्वरत्णे स्वर स्वरत्ते स्वरत्ते स्वर्णे स्वरत्ते स्वरत्ते स्वरत्ते स्वरत्ते स्वरत्ते स्वरत्ते स्वरत्ते स्वरत्ते स्वरत्ते स्वर	रस्प) आगि स्वाव १ या प्रहरूखने प्रोडिय किंग्सने हे आयह अख्य साथ प्रजादस्पति सिहिन्दे अख्य साथ प्रति किंग्सन व विक्र केंग्रास स्वाति क या वेद्र प्रात्ति आहे या जुनुसार कारवस्पार विक्रास स्वाति क	कारांच स्पर्धिक अ स्वर्थमित हॉडिक्स निव हिम्सी स्वरूपमें रिके तिराव स्वरूप केल सरिक पाई स्वरूप केल सरिक पाई स्वरूप के सरिक स्वरूप के सरिक स्वरूप के स्वरिक स्वरूप के साम स्वरूप के साम स्वरूप के स्वरूप के साम स्वरूप के स्वर के स्वरूप के स्वर स्वरूप के स्वरूप के स्वरूप के स्वरूप के स्वर के स्वर के स्वरूप के स्वरूप के स्वर के स्वर स्व के स्वर स्वर के स्व के स्वर के स्व के स्वर) करने (१) मिट् (२) मिट मार्से. 	वृषेवस कोचीन प्रायलेट दलब आनि पहुंपाल प्रायता विषय दलब आनि प्रायता दिषा मा प्रवट्न प्रायता विषय मा प्रवट्न प्रायता विषय मे प्रवे विषय के आते : कार्याता ही प्रवर्तिकार्य कार्याता ही प्रवर्तिकार्य कार्याता ही प्रवर्तिकार्य प्रवर्ते वि प्रवर्तिकार्य प्रवर्ते वि प्रवर्तिकार्य प्रवर्ते वि प्रवर्तिकार्य प्रवर्ते वि प्रवर्तिकार्य प्रवर्ते वि प्रवर्तिकार्य स्वर : १००२, १० जा मा स्वर : १००२, १० जा मा स्वर : १००२, १० जा मा	भाग भाग स्वापी स्वापी स्वापी (१.०३.२०२३.२०२१)	परिषक्षाः)	रष्ट्राः संसारतोगतः स सूर्वाचेल अर्गीसन सि स्वयं, २०२४ तेले अ सि से स्वयं स्वयं स्वयं सि से स्वयं स्वयं स्वयं से से स्वयं स्व	रहर, २० -		co ११ - -		३६९२.२० ११९१७.७८ २.६३ २.६३ वेत्रसा आहे व ग्लांचे वेत्रसा आहे व ग्लांचे वेत्रसा आहे व ग्लांचे अप्रालक अप्रालक अप्रालक इसि. इसि. इसि. इसि. इसि. इसि. इसि. इसि.	र १२४८-२० ११८८३-११ ३.२७ ३.२७ ३.२७ ३.२७ १२४२ १२४२ १२४२ १२४२ १२४२ १२४२ १२४२ १२
बनावर उ उ सरवाः हे, हे ट्र हिट्या कि आहे. ल आणि कि आहे. लाहिप्ती निकिन्ने स्विण्ण क मेरिक्रिया कि महत्य स्वित् स्वित् स्वित् स्वित् के आहे. लाहिप्ती निके जिते स्वार निके जिते स्वार ने के स्वार ने के स्वार न के स्वार ने के स्वार न के स्वार न के स्वार न के के स्वा के स्वार न के स्वार ने के	। भूतित यह २०३३-३२ करिंग जर्मे सुरुष १७ अल्प्रे वाला स्थित धेने प्रथम सुरुष स्थाप आतंक सार्व २४ अपि २०२४ और १७ ७ ४४ भिर्म सिकार सार्व राज्य आतंक सार्व २४ अपि २०२४ और १७ ७ ४४ भी व्यक्ति स्वारा सार्व २४ अपि २४ अपि २४ अपि २४ अपि ० ४४ भी व्यक्ति स्वारा सार्व २४ अपि २४ अपि २४ अपि २४ अपि २४ भी व्यक्ति स्वारा सार्व २४ अपि २४ अपि २४ अपि २४ अपि २४ भी व्यक्ति सार्व २४ अपि २४ अपि २४ अपि २४ अपि २४ भी व्यक्ति प्रथम से व्यक्ति प्रथम से २४ अपि २४ अपि २४ भी व्यक्ति प्रथम से व्यक्ति से व्यक्त स्वार्थ में विक्रार २४ भी व्यक्ति प्रथम से व्यक्ति स्वारा सार्व २४ अपि २४ भी व्यक्ति सार्व २४ अपि २४ अपि २४ अपि २४ अपि २४ अपि २४ अपि २४ अपि २४ अपि २४ अपि २४ अपि २२ भीन अपी वाला सार्व सार्व व्यक्ति राज्य से विक्री २२ भीन अपी वाला स्वारा स्वार्थ व्यक्ति राज्य से सार्व २२ भीन अपी वाला स्वारा स्वार्थ २४ अपि २४ अपि २२ भीन अपी वाला स्वारा स्वार्थ उपी स्वारा स्वारा २२ भीन अपी वाला स्वारा स्वार्थ व्यक्ति स्वारा स्वारा क्रांस्ता क्वांस २२ भीन अपी वाला स्वारा स्वार्थ उपी स्वारा स्वारा सार्व २४ विक्रा स्वारा स्वारा स्वारा अपि वाला स्वारा सार्व २४ विक्रा स्वारा स्वारा स्वारा अपि वालास से सिक्रा स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा अपि वालास से सिक्रा साराव स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा अपि वालास से सार्व सार्व से सिक्रा साराव स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा अपि वालास से सार्व सार्व से सिक्रा साराव स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा अपि वालास से सार्व सार्व सिक्रा साराव स्वारा से प्राप्त स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा अपि व्यस सार्व सिक्रा साराव स्वारा से स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा स्वारा सार्व सार्व सार्व सार्व साराव स्वारा सार्व स्वारा से स्वारा स्वारा स्वारा सार्व सार्व सार्व सार्व सार्व सार्व साराय साराव स्वारा सार्व सा	भाष तिम्ह्ये उमीक आविस्त कर्यु स्वाया प्रवर्षालय कार्यवर्ता कि (४ मध्रे अम्प्रिय करण्यात्र ३ (३ विद्यु का भारत्यवूर उद्य ताजर्थ, १) सामेवे (वाष्प्रमा परवज्या १ सामेवे (वाष्प्रमा परवज्या १ सामेवे (वाष्प्रमा परवज्या १ सामेव (वाष्प्रमा प्रवर्ण) बेल्स प्रवर्ण व्यक्ति कर्यानाय व्यव्यूर्ण स्तरायस्त प्रेष्टकों सामेते, स्तंवप्रयाप्ता प्रधान्त्री, स्तंवप्रयाप्ता भा चर्ड्यून, आण्यन्यात्र भा चर्ड्यून, आण्यन्यात्र मा चर्ड्यून, आण्यन्यात्र मा चर्ड्यून, आण्यन्यात् दिद्ध्यादन केरोले आहे, व्यक्ताप्र ए०० १५८ dabbtetti (ह सामाक्र	तिर्फत (२) एवसलगेए तिरिक (२) एवसलगेए तिरिक (२) एवसलगेए तिरिक (२) प्रवत्न गोए तिरिक (२) प्रवत्न गोए तिरक्ष प्रव) प्रवतन्त्र तिरक्ष प्रवतन्त्र के प्रवतन्त के प्रवतन्त्र के प्रवतन्त्	स्वेरी संतर्शन्त (इस स्वे स्वे तो वायपूर पुर्वे प्रारं कर प्रति में सिंग् प्रति प्रारं कर वार्त कर प्रति में सिंग रे वही सारोग से वही वही सारोग से वही रे वही सारोग से वही प्रति कर रहा रहा रहा रहा रहा रहा प्रति कर रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा प्रति कर रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा	रस्प) आणि त्याव २ गा प्रसल्पवे पोठवा किरणे हे उपस्प के सिनिहेन्द्र), जी आकर पाप करने थे आकर पाप करने के साम के प्रकार के साम के सिन्दा के साम के साम के साम के साम के साम किरवरण रिवयरण दि च्चाक्रम 2	काराय व्यक्ति उकित्व - स्वापील इकित्व - मा वयावाः वास्त्रवि ताः इंग्ली स्वाप्ताः वास्त्र नाते स्विते नाते प्रदेश व्यक्ति नाते कार्य ताले उकित्व प्रती - ताले उकित्व प्रती - हे उन्ते ना के केलित्त ही जो के केलितियाल ही जाने जानेत. जाना इंग्ली - हे दि - हे र हे द - हे र हे द - हे र हे द - हे र हे स्वाप्त -) करने (१) मिट् (२) मिट मार्से. 	शुवेश कोर्पने प्रायंद्र 2 इंता (पुराय) विषय इन्द्र अति प्रायंत्र (2) ताल पार्च्य कर्पना कार्यात्र प्रेयं अते , कर्पना कार्यात्र कर्मान्त्र प्रेयं अते , करावाद उन्दर्शनकार करावाद उन्दर्शनकार क्षेत्र अते प्रायंत्र कर्मान्त्र कार्यात्र व्यवसिन्द्र कर्म कार्यात्र व्यवसिन्द्र कर्म कार्यात्र व्यवसिन्द्र कर्म कार्या व्यवसार कार्या व्यवसार कार्या क्रम्प्र कर्म कार्या व्यवसार कार्या क्रम्प्र कर्म कार्या व्यवसार कार्या क्रम्प्र कर्म कार्या क्रम्प्र कर्म कार्या व्यवसार कार्या क्रम्प्र कर्म्या कार्या व्यवसार कार्या क्रम्प्र कर्म्या कार्या क्रम्प्र कर्म्य कर्म्य कर्म्या कर्म्य कर्म्या कर्म्य कर्म्य कर्म्य कर्म्य क्रम्प्र कर्म्य कर्म्य क्रम्प्र कर्म्य कर्म्य क्रम्प्र कर्म्य कर्म्य कर्म्य कर्म्य क्रम्प्र कर्म्य क्रम्य कर्म कर्म कर्म्य कर्म्य कर्म कर्म्य कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म	भाग भाग स्थापी स्थापी १.०३.२०२३ (फ. ३ पारा)	परिप्राः)	रष्ट्रः संसदन्तेम स सूर्व्यांच्या आरीका मार्वे उत्तर तीका कि बेती के सारित संविधान आराज्य संविधान आराज्य संविधान आराज्य संविधान आराज्य संविधान आराज्य संविधान आराज्य संविधान संविधान क्ष स्विधान आराज्य संविधान संविधान क्ष संविधान आराज्य संविधान संविधान क्ष संविधान संविधान क्ष संविधान संविधान क्ष संविधान संविधान क्ष संविधान संविधान क्ष			co ११ - -		३६९२.२० ११९१७.७८ २.६३ २.६३ २.६३ ३.६३ ३.६३ ३.६३ अल्पाक (इ.सिएस इ.८३.२०२४ १.८३.२०२४	११२८-२० ११८८३-११ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.
बनायर उ उ संदार हे, र स्टय हिंच्या स्विजिल्धि स्विजिल्धि स्विजित्या स्वजित्या स्वज	। भीते पर २०३१-२२ भीता जी मुंदू पत ७ ७० आगा सार्थ में २२ भीते प्राणा मुंदू पर प्राणा आगे सार्थ २२ आगे १२ भीते २२ भीते १२ २०२ ७ १४ में भीते भिक्षा सार्थना आगे सार्थ २२ भीते १२ २०२ ०२ १४ में प्राणा पर प्राणा सार्थना आगे भीते २२ भीते २२ आग २४ १४ में प्राणा सार्थना आगे आगे १२ भीते २२ आग २४ १४ में प्राणा सार्थना आगे आगे १२ भीते २२ आग २४ १४ में प्राणा सार्थना आगे आगे १२ भीता सार्वन अग्न २४ १४ में प्राणा सार्थना आगे आगा भारते आगे १२ भीता सार्वन अग्न २४ १४ में प्राणा सार्थना आगे भारते भारते भीते भीते २२ भारते अग्न २४ १४ में प्राणा सार्थना अग्न २२ भीता भारते आगे १२ भीता भारते आगे १२ १४ में प्राणा सार्वन अग्न २२ भीते भारते भारते भीती भारते भारते भीती अपर सिर्मिट १३ आगो १२ भर्मने आगे भारते भारते भीती भारते भारते भीती भारते सार्वन आगे आग्र १२ ४४ मारत आगे भीतिया १४ भारते भीती भारते भारते आगे आग्र १२ ४४ मारत आगे भीतिया १४ भारते भारते भीती भारत प्राणा भारते आगे भारते भारते भारते भारते भीती भारते भारते भीती भारत प्राणा भारते आगे भारते भारते भारते भारते भीती भारते भारते भीती भारत प्राणा भारते आगे भारते भारते भारते भारते भीती भारते भारते भीती भारते भार	भाष तिम्ह्ये उमेक अतिक करने स्वाया पुरस्तीय करने साम उम्हे कि प्राप्त करने साम कर्मन्द्र आतं के (-) की सुमा या प्राप्त प्राप्त करने साम करने करने (-) की सुमा या प्राप्त प्राप्त करने साम करने करने करने करने साम करने करने करने करने साम करने करने करने साम करने करने करने करने साम करने करने करने करने करने साम करने करने करने करने करने साम करने करने करने करने करने करने करने साम करने करने करने करने करने करने करने करने	तिर्फट (*) प्रश्नामगैरा कोर्टम के उपसम्पति के किर्फे के प्रश्न के प्रस्त के प्रश्न के प्रस्त के प्रस्त के प्रस प्रारम् अपनि के प्रतिकार के प्र तथा प्रतिकार के प्रतिका के प्रतिकार के क के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के के प्रतिकार के प्रतिकार के ता के प्रत	स्वेरी संतर्शन्त (इस स्वे स्वे तो वायपूर पुर्वे प्रारं कर प्रति में सिंग् प्रति प्रारं कर वार्त कर प्रति में सिंग रे वही सारोग से वही वही सारोग से वही रे वही सारोग से वही प्रति कर रहा रहा रहा रहा रहा रहा प्रति कर रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा प्रति कर रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा रहा	रस्प) अगि त्याव १ या प्रसल्पांच पोठवा ती करणे हे आयस्प राखेट सिसिटेंड), री आवस पाठ पाडे से किस्ट पेड से किस्ट पेड से किस्ट पेड पाठी स्वरप्रसार पाठी स्वरप्रसार पाठी स्वरप्रसार स्वरस्प विवरस्ण विवरस्य	काराय व्यक्ति उकित्व - स्वापील इकित्व - मा वयावाः वास्त्रवि ताः इंग्ली स्वाप्ताः वास्त्र नाते स्विते नाते प्रदेश व्यक्ति नाते कार्य ताले उकित्व प्रती - ताले उकित्व प्रती - हे उन्ते ना के केलित्त ही जो के केलितियाल ही जाने जानेत. जाना इंग्ली - हे दि - हे र हे द - हे र हे द - हे र हे द - हे र हे स्वाप्त -) करने (१) मिट् (२) मिट मार्से. 	वृषेवस कोचीन प्रायलेट दलब आनि पहुंपाल प्रायता विषय दलब आनि प्रायता दिषा मा प्रवट्न प्रायता विषय मा प्रवट्न प्रायता विषय मे प्रवे विषय के आते : कार्याता ही प्रवर्तिकार्य कार्याता ही प्रवर्तिकार्य कार्याता ही प्रवर्तिकार्य प्रवर्ते वि प्रवर्तिकार्य प्रवर्ते वि प्रवर्तिकार्य प्रवर्ते वि प्रवर्तिकार्य प्रवर्ते वि प्रवर्तिकार्य प्रवर्ते वि प्रवर्तिकार्य स्वर : १००२, १० जा मा स्वर : १००२, १० जा मा स्वर : १००२, १० जा मा	भाग भाग स्वापी स्वापी स्वापी (१.०३.२०२३.२०२१)	परिषक्षाः)	रष्ट्राः संसारतोगतः स सूर्वाचेल अर्गीसन सि स्वयं, २०२४ तेले अ सि से स्वयं स्वयं स्वयं सि से स्वयं स्वयं स्वयं से से स्वयं स्व	रहर, २० -		co ११ - -		३६९२.२० ११९१७.७८ २.६३ २.६३ वेत्रसा आहे व ग्लांचे वेत्रसा आहे व ग्लांचे वेत्रसा आहे व ग्लांचे अप्रालक अप्रालक अप्रालक इसि. इसि. इसि. इसि. इसि. इसि. इसि. इसि.	र १२४८-२० ११८८३-११ ३.२७ ३.२७ ३.२७ ३.२७ १२४२ १२४२ १२४२ १२४२ १२४२ १२४२ १२४२ १२
बनावर उ उ संरदार हे, र स्टया इस्टग विख्या स्तिजित्त प्राहिस्ती विख्यिहर संरक्षण अन्त्र' हे से पिष्ठ्यां स्ती वा संरक्षण अन्त्र' हे से पिष्ठ्रां सांहर संरक्षण कार्या संरक्षण अन्त्र' संरक्षा संरक्षण कार्या संरक्षण संतक्षण संतकाण संतक्षण संतकाण संतकाण संतकाण संतकाण संतकाण संतकाण संतकाण संत संत संत संत संत संत संत संत संत संत	। भूतित पर २०३१-२२ केंता जाते कुस के 10 काली का स्वर्थन 6 के ता का राष्ट्र क्या कालक काले का भूत के 10 काली का स्वर्थन 20 के ता काल स्वर्थ का स्वर का स्वर का कि स्वर का स्वर का का स्वर का स्	भेष जिस्के उमेरि जाने करने करने करने करने करने करने करने कर	तिर्फट (*) प्रश्नामगैरा कोर्टम के उपसम्पति के किर्फे के प्रश्न के प्रस्त के प्रश्न के प्रस्त के प्रस्त के प्रस प्रारम् अपनि के प्रतिकार के प्र तथा प्रतिकार के प्रतिका के प्रतिकार के क के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के के प्रतिकार के प्रतिकार के ता के प्रत	विशेष संवर्धन्त (३३ पर स्वति स्वरूप मुक्तिस्व समय का जिसि इन्हें से स्वरूप से प्राप्त के सि इन्हें से स्वरूप से प्राप्त के सि इन्हें से स्वरूप से प्राप्त के सि सि सा पालस्के प्रवत्न के सि सि पालस्के प्रवत्न के सि स्वरूप से सि सि पालस्के प्रवत्न के सि से पालस्के प्रवत्न के सि	रुष्ण) अणि त्याव । या प्रकल्पांत भोत्या से किंग्रा के प्रत्य के किंग्रा के प्रत्य के प्रत्य के किंग्रा के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के किंग्रा के प्रत्य के के प्रत्य के के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के के प्रत्य के के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के के प्रत्य के प्रत्य के के के प्रत्य के के प्रत्य के के प्रत्य के के के प्रत्य के के प्रत्य के के प्रत्य के के के प्रत्य के के के प्रत्य के के प्रत्य के के प्रत्य के के प्रत्य के के के प्रत्य के के के प्रत्य के के के के प्रत्य के के के प्रत्य के के के के प्रत्य के के के के प्रत्य के के के के के के प्रत्य के	वालाचा लगोका अ कालांच लगोका का भा वन्त्रमात हाइल्प्स मित्स जिला का किस काला, हाइल्प्स मित्स किला काला किस काला, हाइल्प्स काला का किस काला के वे वीकीलंप्स के वे वीकीलंप्स के वे वीकीलंप्स के वीकी के वीकीलंप्स के वीकी के वीकीलंप्स के वीकी के वीकीलंप्स के वीकी काला के वीकीलंप्स के वीकी काला के वीकीलंप्स के वीकी काला के वीकी के वीकीलंप्स के वीकी काला के वीकी काला के वीकी काला के वीकी काला के वीकी काला के वीकी काला के वीकी काला काला काला काला के वीकी काला के वीकी काला काला काला काला काला के वीकी काला काला काला काला काला काला काला काला काला) (अलगे ()) () हल्ला मार्डे. 	वृषेवस कोचीन प्रायलेट दलब आनि पहुंपाल प्रायता विषय दलब आनि प्रायता दिषा मा प्रवट्न प्रायता विषय मा प्रवट्न प्रायता विषय मे प्रवे विषय के आते : कार्याता ही प्रवर्तिकार्य कार्याता ही प्रवर्तिकार्य कार्याता ही प्रवर्तिकार्य प्रवर्ते वि प्रवर्तिकार्य प्रवर्ते वि प्रवर्तिकार्य प्रवर्ते वि प्रवर्तिकार्य प्रवर्ते वि प्रवर्तिकार्य प्रवर्ते वि प्रवर्तिकार्य स्वर : १००२, १० जा मा स्वर : १००२, १० जा मा स्वर : १००२, १० जा मा	भाग भाग स्वापी स्वापी स्वापी (१.०३.२०२३.२०२१)	परिषक्षाः)	रष्ट्राः संसारतोगतः स सूर्वाचेल अर्गीसन सि स्वयं, २०२४ तेले अ सि से स्वयं स्वयं स्वयं सि से स्वयं स्वयं स्वयं से से स्वयं स्व	रहर, २० -		cx 3 cx 1 xx 1	- - - -	३६९२.२० ११९१७.७८ २.६३ २.६३ वेत्रसा आहे व ग्लांचे वेत्रसा आहे व ग्लांचे वेत्रसा आहे व ग्लांचे अप्रालक अप्रालक अप्रालक इसि. इसि. इसि. इसि. इसि. इसि. इसि. इसि.	र १२४८-२० ११८८३-११ ३.२७ ३.२७ ३.२७ ३.२७ १२४२ १२४२ १२४२ १२४२ १२४२ १२४२ १२४२ १२
वनावर २३ २३ १२ १२ १२ १२ १२ १२ १२ १२ १२ १२ १२ १२ १२	। भू किंत के 2021-22 महीता जीव सुरक्ष 10 कालांचा स्वर्थन के किंग माने 22 कालां कालेचा सुरक्ष 14 किंग 2022 की संगठ 10 किंग सिकल सकलेत सुर्वेश्व 2022 किंग 2022 किंग 10 किंग सिकल सकलेत सुर्वेश्व 2023 किंग 2022 किंग 10 किंग सिकल सकलेत सुर्वेश्व 2023 किंग 2022 किंग 10 केंग सिकल सकलेत सुर्वेश्व 2023 किंग 2022 किंग 10 केंग सिकल सकलेत सुर्वेश्व 2023 किंग 2023 किंग 10 केंग सिकल सुर्वेश्व 2023 किंग 2023 किंग 2023 किंग 10 केंग सिर्वे 2023 किंग 2023 किंग 2023 किंग 2023 किंग 10 केंग सुरक्ष 2023 किंग 2023 किंग 2023 किंग 2023 किंग 10 केंग सुरक्ष 2023 किंग 2023 किंग 2023 किंग 2023 किंग 10 केंग सुरक्ष 2023 किंग 2023 किंग 2023 किंग 2023 किंग 10 किंग सुरक्ष 2023 किंग 2023 किंग 2023 किंग 2023 किंग 10 किंग सुरक्ष 2023 किंग 2023 किंग 2023 किंग 2023 किंग 10 किंग सुरक्ष 2023 किंग 2023 किंग 2023 किंग 2023 किंग 2023 किंग 2023 किंग 10 किंग सुरक्ष 2023 किंग 2023 कि	भाष तिम्ह्ये उमेक अतिक करने स्वाया पुरस्तीय करने साम उम्हे कि प्राप्त करने साम कर्मन्द्र आतं के (-) की सुमा या प्राप्त प्राप्त करने साम करने करने (-) की सुमा या प्राप्त प्राप्त करने साम करने करने करने करने साम करने करने करने करने साम करने करने करने साम करने करने करने करने साम करने करने करने करने करने साम करने करने करने करने करने साम करने करने करने करने करने करने करने साम करने करने करने करने करने करने करने करने	तिर्फट (*) प्रश्नामगैरा कोर्टम के उपसम्पति के किर्फे के प्रश्न के प्रस्त के प्रश्न के प्रस्त के प्रस्त के प्रस प्रारम् अपनि के प्रतिकार के प्र तथा प्रतिकार के प्रतिका के प्रतिकार के क के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के के प्रतिकार के प्रतिकार के ता के प्रत	विष्ठी संवर्षस्य (अवस्य) स्वे तो वावसूय (अवस्य) प्राप्त कर वार्त्य के स्वि प्राप्त कर वार्ट्य के स्वि प्राप्त कर के स्वे ती वार्य के स्व स्वे ता तार्व्य के स्वि की विद्युं के वार्य तार्व्य के स्वि की विद्युं के स्वा का स्वे के सिद्धुं के स्वा के स्वे के सिद्धुं के स्वा के स्वे के सिद्धुं के स्वा के स्वे के स्वि के स्वि स्वा के स्वे के स्वि के स्वि स्वा के स्वे के स्वे के स्वा स्वा के स्वे के स्वे के स्वे के स्वे स्वा के स्वे के स्वे के स्वे के स्वे के स्वे स्वा के स्वे के स्वे के स्वे के स्वे के स्वे के स्वे के स्वे स्वा के स्वे के से के स्वे के के स्वे के स्वे के स्वे के के स्वे के के स्वे के स्वे के स्वे के स्वे के के स	राष्ट्र) अमिर प्राव । या वन्द्रपति प्रोत्ते कि क्यां के कि क्यां के प्रधान कि क्यां के प्रधान के प्रात के प्रात के प्रात के प्रात के प्रात के प्रात के प्रात के प्रात के व दीर्षा के प्रात के प्रात के व प्रात के प्रात के कि क्यां के प्रधान के ब क्यां के प्रधान के कि क्यां के प्रात के कि क्यां के कि क्यां के प्रात के कि क्यां के कि कि कि क्यां के प्रात के कि	वालाचा लगोका अ कालांच लगोका का भा वन्त्रमात हाइल्प्स मित्स जिला का किस काला, हाइल्प्स मित्स किला काला किस काला, हाइल्प्स काला का किस काला के वे वीकीलंप्स के वे वीकीलंप्स के वे वीकीलंप्स के वीकी के वीकीलंप्स के वीकी के वीकीलंप्स के वीकी के वीकीलंप्स के वीकी काला के वीकीलंप्स के वीकी काला के वीकीलंप्स के वीकी काला के वीकी के वीकीलंप्स के वीकी काला के वीकी काला के वीकी काला के वीकी काला के वीकी काला के वीकी काला के वीकी काला काला काला काला के वीकी काला के वीकी काला काला काला काला काला के वीकी काला काला काला काला काला काला काला काला काला) (अलगे ()) () हल्ला मार्डे. 	विश्वस कोचीन प्रायदेट इंग) (मुप्राप्ता) निषम इन्ह्र असि प्रायम (2) मांत्र प्रस्तुव मत्राप्तारे मांत्र प्रस्तुव मत्राप्तारे प्रायम (2) प्रत्याप्ता प्रत्यमित्त बेचे आते. प्रायम (2) प्रत्याप्ता प्रत्यमित राषार (2) मांत्र प्रत्याप्ता प्रत्यमित राषार (2) मांत्र प्रत्याप्ता प्रत्यमित राषार (2) मांत्र प्रत्याप्ता प्रत्यमित राषार (2) मांत्र प्रत्य प्रत्यमित राषार (2) मांत्र प्रत्यमित राषार (2) मांत्र प्रत्यमित राषार (2) मांत्र प्रत्यमित राषार (2) मांत्र प्रत्यमित	भाषा स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्था	पर्वप्राण्ड)	रष्ट्र विकारमान स मुल्लेक आर्थन स्वर्थन अर्थन कि के के अंद के कि कि के अंद के कि कि के के कि के कि कि के के के कि के के के कि के के के कि के के कि के के के के कि के के के के कि के के के के कि के के के के के कि के के के के के कि के के के के के के कि के के के के के के के कि के के के के के के के कि के के के के के के के के के के कि के			cx 3 cx 1 xx 1	- - - -	३६९२.२० ११९९७.७८ २.९३ २.९३ २.९३ संपालकृ स अप्या प्र प्रारं संपालकृ इत्रियाय इत्र्याय स इत्र्याय इत्या स्र त इत	रहरू.२० रहर.२० रहर
वनावर दुद्ध दु दु दु दु दु दु दु दु दु दु	। भूतित पर २०३१-२२ भरेता जाते मुद्राष्ठ १० अल्माना सर्वेत भूति साम मुख्य स्वाप्त आतेना सार्व २ भारे २०२० जिसक जिसके २०३ विकास सार्व सार्व २३ भरेता २२२ २४ १९४२ २०२४ भरेता प्रयुप्त पर २७ भरेता २३२ १९४२ २०२४ भरेता प्रयुप्त सार्व २३४ भरेता २३४ भरेता २३४ १९४२ २३४ भरेता प्रयुप्त सार्व २३४ भरेता २३४ भरेता २३४ भरेता २३४ भरेता प्रयुप्त भरेता २३४ भरेता २३४ भरेता २३४ भरेता २३४ भरेता प्रयुप्त भरेता २३४ भरेता २३४ भरेता २३४ २३४ भरेता प्रयुप्त २३४ भरेता २३४ भरेता २३४ भरेता २३४ भरेता भरेता प्रयुप्त २३४ भरेता २३४ भरेता २३४ भरेता २३४ भरेता भरेता भरेता २३४ भरेता २३४ भरेता २३४ भरेता २३४ भरेता भरेता भरेता २३४ भरेता २३४ भरेता २३४ भरेता २३४ भरेता भरेता भरेता २३४ भरेता २३४ भरेता २३४ भरेता २३४ भरेता भरेता भरेता २३४ भरेता २३४ भरेता २३४ भरेता २४४ २३४ भरेता भरेता २४४ भरेता २३४ भरेता २४४ भरेता २४४ भरेता २३४ भरेता भरेता २४४ भरेता २४४ भरेता २४४ भरेता २४४ १३४४ भरेता २३४ भरेता २४४ भरेता २४४ भरेता २४४ भरेता २४४ २४४ भरेता १४४४ भरेता २४४ भरेता २४४ भरेता २४४ भरेता २४४ २४४४ भरेता २४४ भरेता १४४४ भरेता २४४ भरेता २४४ भरेता २४४ २४४४ भरेता १४४४४ भरेता २४४४ भरेता २४४ भरेता २४४ भरेता २४४ भरेता २४४ भरेता २४४ भरेता २४४ भरेता २४४४ भरेता २४४४ भरेता २४४४ भरेता २४४४ भरेता २४४४ भरेता २४४४४ भरेता २४४४ भरेता २४४४ भरेता २४४४ भरेता २४४४४ भरेता २४४४ भरेता २४४४ भरेता २४४४ भरेता २४४४ भरेता २४४४४ भरेता २४४४ भरेता २४४४ भरेता २४४४ भरेता २४४४ भरेता २४४४४४ भरेता २४४४४ भरेता २४४४४४ भरेता २४४४४ भरेता २४४४ भरेता २४४४४४ भरेता २४४४४ भरेता २४४४४ भरेता २४४४४४ भरेता २४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४	भवा मिल्हे जोग आवीस कर्जा स्वारा जुलांगिल करणाउ उ साथ कर्पल आयी है। वे किंदुर्ग भा कर्पल आयी है। वे किंदुर्ग भा करणेत आये हैं। वे किंदुर्ग भा करणेत प्रारं करणेत भा करणेत करणेत करणा करणा करणा स्वारा करणा करणा करणा करणा के किंदुर्ग करणाउ करणा बाद प्रकार मार्था वहां प्रवेश आप साथ करणा बाद प्रकार मार्था वहां प्रवेश आप साथ करणा बाद प्रकार मार्था के आप साथ करणा करणा बाद प्रकार मार्था के आप साथ करणा करणा बाद प्रकार मार्थे के आप साथ करणा बाद प्रकार मार्थे के आप साथ करणा बाद प्रकार मार्थे का करणेत करणा करणा बाद प्रवेश करणा करणा करणा बाद प्रवेश करणा करणा करणा करणा बाद प्रवेश करणा करणा करणा करणा करणा करणा करणा करणा	तिर्फट (*) प्रश्नामगैरा कोर्टम के उपसम्पति के किर्फे के प्रश्न के प्रस्त के प्रश्न के प्रस्त के प्रस्त के प्रस प्रारम् अपनि के प्रतिकार के प्र तथा प्रतिकार के प्रतिका के प्रतिकार के क के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के के प्रतिकार के प्रतिकार के ता के प्रत	ধনি প্ৰথম বিধায় ধন বা অবসুৰ পুৰিঞ্জন প্ৰথম বা বা অবসুৰ পুৰিঞ্জন প্ৰথম বা বা অবসুৰ পুৰিঞ্জন হ বা ব	ता का उसरे का में कि	सात्राय प्रमेशिक अपनेश र विषय प्रा व्याप्य व्याप्ती के प्रा विषय पित प्रा विषय कि रितर प्रा प्रा विषय कि रितर प्रा व्याप्ति के प्रा विषय कि रितर प्रा व्याप्ति के प्रा विषय कि राज्य प्रा व्याप्ति के प्रा विषय कि राज्य प्रा व्याप्ति के राज्य कि राज्य प्रा व्याप्ति के राज्य कि राज्य प्रा राज्य कि राज्य के राज्य कि राज्य के राज्य कि राज्य के राज्य के राज्य के राज्य के राज्य के राज्य के राज्य के राज्य के राज्य के राज्य के राज्य के राज्य के राज्य के राज्य के राज) (अलगे ()) () हल्ला मार्डे. 	विश्वस कोचीन प्रायदेट इंग) (मुप्राप्ता) निषम इन्ह्र असि प्रायम (2) मांत्र प्रस्तुव मत्राप्तारे मांत्र प्रस्तुव मत्राप्तारे प्रायम (2) प्रत्याप्ता प्रत्यमित्त बेचे आते. प्रायम (2) प्रत्याप्ता प्रत्यमित राषार (2) मांत्र प्रत्याप्ता प्रत्यमित राषार (2) मांत्र प्रत्याप्ता प्रत्यमित राषार (2) मांत्र प्रत्याप्ता प्रत्यमित राषार (2) मांत्र प्रत्य प्रत्यमित राषार (2) मांत्र प्रत्यमित राषार (2) मांत्र प्रत्यमित राषार (2) मांत्र प्रत्यमित राषार (2) मांत्र प्रत्यमित	भाषा स्थाय भाषा स्थाय भाषा स्थाय भाषा स्थाय भाषा स्थाय भाषा स्थाय भाषा स्थाय भाषा स्थाय भाषा स्थाय	पर्वप्राण्ड)	रष्ट्र विकारमान स मुल्लेक आर्थन स्वर्थन अर्थन कि के के अंद के कि कि के अंद के कि कि के के कि के कि कि के के के कि के के के कि के के के कि के के कि के के के के कि के के के के कि के के के के कि के के के के के कि के के के के के कि के के के के के के कि के के के के के के के कि के के के के के के के कि के के के के के के के के के के कि के			ck 3 ck 3 ck -		३६९२.२० ११९९७.७८ २.९३ २.९३ २.९३ संपालकृ स अप्या प्र प्रारं संपालकृ इत्रियाय इत्र्याय स इत्र्याय इत्या स्र त इत	रहरू.२० रहर.२० रहर
वनावर दुद संदर्भा हद हे दिख्य हे द्वा देव हे द्व संदर्भा दनांच्या संदर्भाण या ने विरुदेवार संदर्भा संदर्भाण या ने विरुदेवार संदर्भा संदर्भा संदर्भा संदर्भा संदर्भा संदर्भा संदर्भा संदर्भा संदर्भा संदर्भा संदर्भा संदर्भा संदर्भा संदर्भा संदर्भ संतर संदर्भ संतर संदर्भ संतर संतर संतर संतर संतर संतर संतर संतर	। भू कित पर २०३१-२० विंता जर्मे पूर्वत क 10 काली का देवरी क 0 कित काले प्रदुष कारण कालेक लाई में भू भू भे २०२० कित का 0 कित काले प्रदुष कारण कालेक लाई में भू भारे २०२० कित का 0 कित कालेक राष्ट्र काल कालक राष्ट्र में 1800 का कित काल 1 कित काल काल केला कित काल कालक राष्ट्र में 1800 का का कित काल 1 काल केला का काल काल काल काल काल काल काल काल का	भवा भिष्ठ्ये उमेश आर्थेल का भवा भवारे प्राण्ठ विष्ठा भवारे कि भवा भवारे प्राण्ठ विष्ठ प्राण्ठ विष्ठ प्राण्ठ का भवारे प्राण्ठ विष्ठ विष्ठ प्राण्ठ का भवारे प्राण्ठ विष्ठ विष्ठ वि्राप्त का भवारे प्राण्ठ प्राण्ठ विष्ठ वि्राप्त का भवारे प्राण्ठ प्राण्ठ विष्ठ वि्राप्त का भवारे प्राण्ठ प्राण्ठ विष्ठ वि्राप्त का भवारे प्राण्ठ प्राप्त व्यव का भवारे प्राप्त का आप साल्यम विद्य प्राण्ठ प्राप्त व्यव का भवारे प्राप्त का आप साल्यम विद्य प्राण्ठ प्राप्त व्यव का भवारे प्राप्त का आप साल्यम विद्य प्राप्त का आप सालयम विद्य प्राप्त का का विद्य प्राप्त का विद्य विद्य प्राप्त का विद्य विद्य प्राप्त का विद्य विद्य प्राप्त का विद्य विद्य का विद्य विद्य का विद्य विद्य विद्य का विद्य विद्य विद्य का विद्य विद्य विद्य का विद्य विद्य विद्य विद्य का विद्य विद्य व	तिर्फट (*) प्रश्नामगैरा कोर्टम के उपसम्पति के किर्फे के प्रश्न के प्रस्त के प्रश्न के प्रस्त के प्रस्त के प्रस प्रारम् अपनि के प्रतिकार के प्र तथा प्रतिकार के प्रतिका के प्रतिकार के क के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के के प्रतिकार के प्रतिकार के ता के प्रत	बिरेल स्वत्युर्थः (३६ स. २०) स्वत्युर्थः स्वत्युर्थः स्वत्युर्थः स्वत्युर्थः स्वत्युर्थः स्वत्युर्धः स्वत्य स्वत्युर्धेः स्वत्युर्धेः स्वत्युर्धः स्वत्यद्वन्य्यत्य्यार्धः स्वत्यद्वन्यः स्वत्युरः स्वत्यद्वन्यः स्वत्यद्वन्यः स्वत्यस्वय्त्यस्वय्त्यः स्वत्यः स्वत्यस्वय्त्यस्य स्वय्त्यः स्व	त्या उनले करने त्या उनलेक नेता मिल के उनका में कर कर करने के प्रे का प्रकार करने के निष्ठा प्रकार करने के निष्ठा प्रकार करने के निष्ठा प्रकार कि निष्ठा के प्रकार कि निष्ठ के प्रकार के निष्ठ के निष्ठ के निष्ठ के प्रकार के निष्ठ के प्रकार के निष्ठ के नि	सात्राय प्राचेश्वेत अल्पेल (संकल्प) स्वर्णना स्वयत्र स्वयत् के सिंह स्वर्णना स्वयत्र स्वयत् के सिंह स्वर्णना स्वयत्व स्व स्वयत्व स्वयत्व स्वयत्व स्वयत्व स्वयत्व	বিয়া ও জন। বিয় বিয় বিয় বিয় বিয় বিয় বিয় বিয়	वृश्वेस कोचेंग प्रायदेट इंग) (पुप्राप्या) विषय ब्या अवि प्राया () सेंग प्राय्यु कावायं प्राया प्रार्थ्य कावायं केंव आहे. प्रार्थ्य प्रार्थ्य प्राप्या अप्राप्या आदि वित्राप्राप्या अप्राप्या स्वार्थ्य २ प्रार्थ्य प्राप्या स्वार्थ्य २ प्राप्या अप्राप्या स्वार्थ्य २ प्राप्या अप्राप्या स्वार्थ्य २ प्राप्या अप्राप्या स्वार्थ्य २ प्राप्या भाषाय स्वार्थ्य २ प्राप्या २ प्राप्या	भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग	स्वरणविक्ती 27 मिंड रीका संघ मार्ग किंग्रे 28 मिंड रीका संघ मार्ग किंग्रे 28 मार्ग किंग्रे 29 मार्ग किंग्रे 20 मार्ग किंग्रे 21 मार्ग किंग किंग्रे 21 मार्ग किंग किंग्रे 21 मार्ग किंग्रे 21 मार्ग केंग्रे	एएए । संसदायोग स ता ग्राह्मांच्या अर्थावन क्रिक केरी क्रि. अंगी विग क्रिक केरी क्रि. अंगी विग क्रिक केरी क्रि. अंगी विश्वित्रिय आपकार स्वरित्रेय स्वरित्रेय स्वरित्रेय आपकार स्वरित्रेय स्वरित्र स्वरित्रेय आपकार स्वरित्र	2664.30 	255 255 255 255 255 255 255 255 255 255	ck 3 ck 3 ck -		<u>३६६२,२०</u> ११६६२,२० १९६२ २,८३ २,८३ ३,८२४ ३,८२४ २,८२२,२७ २,६२२,२७ २,६२२,२७	
वनावर रुद किस्टा हे ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह	। भूतित पर २०३१-२२ करिंग जाते पुरुष २ ७० व्यक्तिय स्वर्थ २ ७ विते प्राप्त पुरुष प्राप्त करिया क्रिस्ट प्राप्त २ ७ ७ विते प्राप्त पुरुष प्राप्त करिया क्रिस्ट प्राप्त २ ७ ७ विते प्राप्त पुरुष प्राप्त करिया क्रिस्ट २ ७ १ विते प्रिक्त करिकार करिया क्रिस्ट २ ७ १ विते प्राप्त पुरुष प्राप्त करिया करिया है। १२ २ २ ९ व्यक्त विद्युप्त करिया करिया करिया करिया करिया प्राप्त विद्युप्त करिया करिया करिया करिया करिया प्राप्त करिया करिया करिया करिया करिया करिया करिया प्राप्त करिय करिय करिया करिया करिया करिया करिया प्राप्त करिय करिया करिया करिया करिया करिया करिया प्राप्त करिय करिया करिया करिया करिया करिया करिया प्राप्त करिय करिय करिया करिया करिया करिया करिया प्राप्त करिय करिय करिया करिया करिया करिया करिया प्राप्त करिय करिय करिया करिया करिया करिया प्राप्त करिय करिय करिया करिया करिया करिया करिया प्राप्त करिय करिय करिया करिया करिया करिया करिया प्राप्त करिय करिया	भवा मिल्छे उमेक वर्तने का से किल् प्राण्ड प्राण्ड के स्वार्थ के सिंह स्वार्थ के सिंह के सिंह के सिंह के सिंह साम कर्मन्द्र वहां के 19 सिंह मिंह साम कर्मन्द्र वहां के 19 सिंह में साम कर्मन्द्र वहां के 19 सिंह में साम करने के सिंह के सिंह के सिंह में से सिंह के सिंह के सिंह के सिंह में से सिंह के सिंह के सिंह में से सिंह के सिंह के सिंह में से सिंह के सिंह के सिंह में साम करने के सिंह में से सिंह में सिंह में साम करने के सिंह में साम करने के सिंह में से सिंह में सिंह में से सिंह में सिंह में साम करने के सिंह में साम करने के सिंह में से सिंह में सिंह में से सिंह में सि	तिर्फट (*) प्रश्नामगैरा कोर्टम के उपसम्पति के किर्फे के प्रश्न के प्रस्त के प्रश्न के प्रस्त के प्रस्त के प्रस प्रारम् अपनि के प्रतिकार के प्र तथा प्रतिकार के प्रतिका तथा प्रतिकार के प्रतिकार के तथा प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के के प्रतिकार के तथा के प्रतिकार के क	बहेर सरवेद्ध (३३ पर २१ ला साम् का मिर्म २१ ला साम् का मिर्म २१ ला साम् का मिर्म २४ ला साम् का मेरे साम ३ व्यक्त साम का मेरे असी ३ व्यक्त साम के साम ३ व्यक्त साम के साम ३ व्यक्त साम के साम ३ व्यक्त साम	ारण आणि स्वाप्त प्रायम्बन्धः से प्रायम्बने स्वाप्ति से प्रायम्बने स्वाप्ति से प्रायम्बने प्रायम्बन से प्रायम्बन सारम्बन से प्रायम्बन से प्रायम् से प्रायम्बन से प्रायम्बन से प्रायम्बन से प्रायम्बन से प्रायम्य	कात्मा पर्नेश्वेत अल्लेश, दिवस्य ता क्यांग दावेश्वर का क्यांग दावेश्वर का क्यांग दावेश, दावेश कार्य का कार्य का हि. ३२ हि. ३२ हि. ३२ हि. ३२ हि. ३२ हि. ३२ हि. २२ हि. २२ ही. २२ ह	বিয়া ও জন। বিয় বিয় বিয় বিয় বিয় বিয় বিয় বিয়	वृश्वेस कोचेंग प्रायदेट इंग) (पुप्राप्या) विषय ब्या अवि प्राया () सेंग प्राय्यु कावायं प्राया प्रार्थ्य कावायं केंव आहे. प्रार्थ्य प्रार्थ्य प्राप्या अप्राप्या आदि वित्राप्राप्या अप्राप्या स्वार्थ्य २ प्रार्थ्य प्राप्या स्वार्थ्य २ प्राप्या अप्राप्या स्वार्थ्य २ प्राप्या अप्राप्या स्वार्थ्य २ प्राप्या अप्राप्या स्वार्थ्य २ प्राप्या भाषाय स्वार्थ्य २ प्राप्या २ प्राप्या	भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग	स्वरणविक्ती 2 दिवरी केत संख प्रतिक्र प्रतिक्र संग्री 3 साम प्रतिक्र प्रतिक्र संग्री 2 अगर अंग प्रिय संग्री 3 साम प्रतिक्र संग्री 3 साम प्रतिक्र संग्री 1 से 100 अप संग्री पाल प्रदेश संग्री संग्री पाल प्रदेश संग्री संग्री स्वर स्वर्थ संग्री पाल प्रदेश संग्री संग्री स्वर स्वर्थ संग्री स्वर स्वर्थ संग्री स्वर स्वर्थ संग्री स्वर स्वर्थ संग्री स्वर स्वर्थ संग्री स्वर स्वर्थ संग्री स्वर स्वर संग्री स्वर स्वर संग्री स्वर स्वर संग्री संग्री संग्री स्वर संग्री संग्री स्वर संग्री संग्	एएए । संसदायोग स ता ग्राह्मांच्या अर्थावन क्रिक केरी क्रि. अंगी विग क्रिक केरी क्रि. अंगी विग क्रिक केरी क्रि. अंगी विश्वित्रिय आपकार स्वरित्रेय स्वरित्रेय स्वरित्रेय आपकार स्वरित्रेय अपकार स्वरित्रेय स्वरित्र स्वरित्रेय आपकार स्वरित्र	2664.30 	255 255 255 255 255 255 255 255 255 255	Co. 3 Co. 1 Co. 1 K. 1		<u>३६६२,२०</u> ११६६२,२० १९६२ २,८३ २,८३ ३,८२४ ३,८२४ २,८२२,२७ २,६२२,२७ २,६२२,२७	
वनावर २८३ तेद्धार २८३ तेद्धार हे, ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह	। भूमित पर २०३१-२२ महेता जर्म सुरुष २ भ अल्लाम स्पर्थम २ ८ महेता पर २०३१-२२ महेता जर्म २३ महेता २३ २०२० जेवेस्य २ महेता भिक्रम स्वर्णन प्रति २३ महेता २२ २०२७ जेवेस्य २ महेता भिक्रम स्वर्णन प्रति २३ महेता २२ २०२७ भा जुल्म प्राण्य प्रत प्रति ३३ महेता २२ २०२७ भा जुल्म प्राण्य प्रत प्रति ३३ महेता २२ २०२१ भा जुल्म प्राण्य प्रत प्रत प्राण्य प्रत प्राण्य २३ महेता भिक्रम से प्राण्य प्रत प्राण्य प्राण्य स्वा २३ महेता भारत में प्राण्य प्रत प्राण्य स्वा २३ महेता प्राण्य में प्राण्य प्रत प्राण्य में प्राण्य भारत से प्रत प्रत प्राण्य प्राण प्राण्य स्वा २३ महेता प्राण्य में प्राण्य प्रत के प्रत प्राण्य में प्राण्य भारत में प्राण्य प्राण्य प्राण्य स्वा २२ महेता प्राण्य में प्राण्य स्व के प्राण्य स्वा २२ महेता प्राण्य में प्राण्य स्व के प्राण्य स्वा २२ महेता प्राण्य प्राण्य प्राण्य स्वा २२ महेता के प्राण्य स्वा २२ महेता के प्राण्य प्राण्य स्वामने स्वा २२ महेता के प्राण्य स्वा	भवा भिष्ठ्ये उमेश आर्थेल का भवा भवारे प्राण्ठ विष्ठा भवारे कि भवा भवारे प्राण्ठ विष्ठ प्राण्ठ विष्ठ प्राण्ठ का भवारे प्राण्ठ विष्ठ विष्ठ प्राण्ठ का भवारे प्राण्ठ विष्ठ विष्ठ वि्राप्त का भवारे प्राण्ठ प्राण्ठ विष्ठ वि्राप्त का भवारे प्राण्ठ प्राण्ठ विष्ठ वि्राप्त का भवारे प्राण्ठ प्राण्ठ विष्ठ वि्राप्त का भवारे प्राण्ठ प्राप्त व्यव का भवारे प्राप्त का आप साल्यम विद्य प्राण्ठ प्राप्त व्यव का भवारे प्राप्त का आप साल्यम विद्य प्राण्ठ प्राप्त व्यव का भवारे प्राप्त का आप साल्यम विद्य प्राप्त का आप सालयम विद्य प्राप्त का का विद्य प्राप्त का विद्य विद्य प्राप्त का विद्य विद्य प्राप्त का विद्य विद्य प्राप्त का विद्य विद्य का विद्य विद्य का विद्य विद्य विद्य का विद्य विद्य विद्य का विद्य विद्य विद्य का विद्य विद्य विद्य विद्य का विद्य विद्य व	तिर्फट (*) प्रश्नामगैरा कोर्टम के उपसम्पति के किर्फे के प्रश्न के प्रस्त के प्रश्न के प्रस्त के प्रस्त के प्रस प्रारम् अपनि के प्रतिकार के प्र तथा प्रतिकार के प्रतिका तथा प्रतिकार के प्रतिकार के तथा प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के के प्रतिकार के तथा के प्रतिकार के क	पहलेश संवर्थन्त (१३ प स्वति स्वरूप मुक्ते स्वरूप मुक्ते स्वरूप स्वति स्वरूप मुक्ते स्वरूप मुक्ते स्वरूप र वर्ष स्वति स्वरूप मुक्ते स्वरूप र वर्ष स्वति स्वरूप मुक्ते स्वरूप स्वति स्वरूप मुक्ते स्वरूप स्वति स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप	ा का नाम के प्रात्ति के प्रात	सा सा प्राप्त के प्रापत के प)। काले () () सिंह आज के राज्य के राज राज्य के राज्य के राज राज्य के राज्य के राज राज्य क	विश्वस कोचीन प्रायदेव इंग) (गुप्राथ्य) विश्व ब्या जीन एक्स 2017) सेंग प्रायंत्र प्रबंध का जाने का जाने सेंग प्रायंत्र प्रायंत्र किया के प्रायंत्र प्रायंत्र के आते. प्रायंत्र प्रायंत्रिक में प्रायंत्र के जाने का प्रायंत्र प्रायंत्रिक में प्रायंत्र के जाने बाता के प्रायंत्रिक में प्रायंत्र के जाने बाता के प्रायंत्र प्रायंत्र के जाने बाता के प्रायंत्र के प्रायंत्र के जाने सांग के प्रायंत्र के प्रायंत्र के जाने सांग के प्रायंत्र के प्रायंत्र के जाने बाता के प्रायंत्र के जाने के जाने बाता के प्रायंत्र के जाने के जाने का जाने के जाने	भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग	स्वरणविक्ती 2 स्वरणविक्ती 2 स्वरणविक्ती 2 अप्रार्थ के अप्रा 2 अप्रा 3 स्वरणविक्ती 2 अप्रा 3 स्वारणविक्ती 2 अप्रा से स्वारणविक्ती 1	रष्ट्रः संसल्योगक स सूर्व्याचन आर्थित कि से स्वर्थ कि से स्वर्थ कि से स्वर्थ स्वरित्र अपने कि स्वर्थ स्वरित्र स्वर्थ स्वर्ण स्वर्ध स्वर्थ स्वर्थ स्वर्ण स्वर्य स्व्र्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्व्र्य स्व्र्य स्व्र्य स्व्या स्व्र्य्या स्व्र्य्य्य्य स्व्य्य्य्य्य स	2155,80 0,505		Co. 3 Co. 1 Co. 1 K. 1		2000, 10 2001, 20 20, 10 20, 10, 10 20, 10 20, 10, 10 20, 10 20, 10 20, 10 20, 10 20, 10 20, 10 20,	<u>११४८.२०</u> ११८८३.११ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७
वनावर रद निरंधार रद निरंधार ह ह ब्राह्म विद्या के निर्वाहिस्ती प्राह्म निरुदेवर प्राह्म निरुदेवर प्राह्म निरुदेवर क्र निरुदेवर निरेदेवर निरेदेवर निरेदेवर निरेदेवर निरेदेवर निरेदेवर निरेदेवर निरेदेवर निरेदेवर निरेदेवर निरेदेवर निरेदेवर निरेदेवर निरेदेवर निरुदेवर	। भू कित पर २०३१-२२ करिता जर्के पुरुष २ ७० व्यक्तिय स्वर्थ २ ७ कित प्राथम पुरुष प्रायम व्यक्तिय के २२ करिता के २२ करिता २ ७ हमि किसक सकरित प्रहेश्व व्यक्तार्थन एर्डर 1 हिंग् २२ कर ४ वर्ष किसिक सकरित प्रहेश्व व्यक्तार्थन एर्डर 1 हिंग् २२ कर ४ वर्ष व्यक्तिय प्रायम प्रायम व्यक्त व्यक्त र ४ वर्ष व्यक्तिय प्रायम प्रायम व्यक्त प्रायम प्रायम व्यक्त विद्यु हो स्वर ४ वर्ष व्यक्तिय प्रायम प्रायम व्यक्त प्रायम प्रायम व्यक्त प्रायम ४ वर्ष व्यक्तिय प्रायम के प्रायम होते प्रायम प्रायम व्यक्त निर्णे स्वर ४ वर्ष व्यक्तिय प्रायम के प्रायम होते प्रायम के प्रायम प्रायम ४ वर्ष व्यक्त व्यक्त प्रायम प्रायम व्यक्त प्रायम प्रायम ४ वर्ष व्यक्त व्यक्त प्रायम के प्रायम होते प्रायम के प्रायम १ वर्ष व्यक्त व्यक्त प्रायम व्यक्त प्रायम व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त १ वर्ष व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त प्रायम प्रायम व्यक्त व्यक्त व्यक्त १ वर्ष व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त प्रायम व्यक्त व्यक्त विद्यु हो १ व्यक्त प्रायम व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त १ व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त विद्यु हो १ व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त १ व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त १ व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त १ व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त १ व्यक्त व्यक्त १ व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यव्यक्त व्यव्तवात्री व्यवत्यवीत्ति व्यक्त व्यक्त व्याक्त १ व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यत्व व्यव्यव्यत्ति व्यत्यवत्ति व्यत्त व्यत्त व्यत्य व्यागा १ व्यक्त व्यक्त व्यत्त व्यत्यव्यत्त व्यत्त व्यत्त व्यत्त व्यत्य व्याया व्यत्त १ व्याक्त व्यत्त व्यत्त व्यत्त व्यत्त व्यत्त व्यत्य व्याग्त व्या १ व्याक्त विद्य व्यत्ति व्यत्त व्यत्त व्यत्त व्यत्त व्यत्त व्यत्त व्यत्य व्यत्त व्यत्य व्यत्त व्	भवा मिल्छे उमेक वर्तने का से किल् प्राप्त प्राप्त के प	तिर्फट (*) प्रश्नामगैरा कोर्टम के उपसम्पति के किर्फे के प्रश्न के प्रस्त के प्रश्न के प्रस्त के प्रस्त के प्रस प्रारम् अपनि के प्रतिकार के प्र तथा प्रतिकार के प्रतिका तथा प्रतिकार के प्रतिकार के तथा प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के के प्रतिकार के तथा के प्रतिकार के क	बिरे स्वर्थन् (के प्रदेश) स्वर्णने के स्वर्थन् (के प्रदेश) स्वर्णने के स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने के साम के स्वर्णने के स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने के साम को स्वर्णने स्वर स्वरत्न स्वर्णने स्वरत्न स्वरत्त स्वरत्व स्वर स्वरत्व स्वर्णने स्वरत्व स्वरत्व स्वर्णने स्वर्णने स्वरत्व स्वरत्य	ारण आणि स्वाप्त प्रायम्बन्धः से प्रायम्बने स्वाप्ति से प्रायम्बने स्वाप्ति से प्रायम्बने प्रायम्बन से प्रायम्बन सारम्बन से प्रायम्बन से प्रायम् से प्रायम्बन से प्रायम्बन से प्रायम्बन से प्रायम्बन से प्रायम्य	कात्राच प्रभागित अर्थनात्र का स्वार्थनात्र का स्वार्थना स्व स्वार्थना स्वार्थना स्व स्वार्थना स्वार्थना स)। काले () () मेरे () 	विश्वस कोचीन प्रायदेव इंग) (गुप्राथ्य) विश्व ब्या जीन एक्स 2017) सेंग प्रायंत्र प्रबंध का जाने का जाने सेंग प्रायंत्र प्रायंत्र किया प्रायंत्र के आते. प्रायंत्र प्रायंत्रिक में प्रायंत्र का प्रायंत्र प्रायंत्रिक में ब्यायंत्र प्रायंत्रिक में ब्यायंत्र प्रायंत्रिक में ब्यायंत्र प्रायंत्रिक में ब्यायंत्र प्रायंत्रिक में ब्यायंत्र प्रायंत्र के ब्यायंत्र का प्रायं प्रायंत्र के ब्यायंत्र का प्रायं प्रायंत्र के ब्यायंत्र का प्रायंत्र का प्रायंत्र का प्रायंत्र का प्रायंत्र के ब्यायंत्र का प्रायंत्र के ब्यायंत्र प्रायंत्र के ब्यायंत्र का प्रायंत्र के ब्यायंत्र का प्रायंत्र के ब्यायंत्र का प्रायंत्र के ब्यायंत्र का प्रायंत्र के ब्यायंत्र के व्यायंत्र के व्यायंत्य के व्यायंत्र के व्यायंत्र के व्यायंत्र के व	भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग	स्वरणविक्ती 2 स्वरणविक्ती 2 स्वरणविक्ती 2 अप्रार्थ के अप्रा 2 अप्रा 3 स्वरणविक्ती 2 अप्रा 3 स्वारणविक्ती 2 अप्रा से स्वारणविक्ती 1	रष्ट्रः संसल्योगक स सूर्व्याचन आर्थित कि से स्वर्थ कि से स्वर्थ कि से स्वर्थ स्वरित्र अपने कि स्वर्थ स्वरित्र स्वर्थ स्वर्ण स्वर्ध स्वर्थ स्वर्थ स्वर्ण स्वर्य स्व्र्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्व्र्य स्व्र्य स्व्र्य स्व्या स्व्र्य्या स्व्र्य्य्य्य स्व्य्य्य्य्य स	2155,80 0,505		Co. 3 Co. 1 Co. 1 K. 1		2000, 10 1000, 10 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2	<u>११४८.२०</u> ११८८३.११ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७ ३.१७
वनावर दुद्ध दुद्ध तेरदार हद तेरदार ह ह ह बर या किन्द्र तिरुप्य तिरेप्य तिरुप्य तिरेप्य	। भू कित पर २०३१-२२ केंका जर्मे सुरुष २ ७० व्यक्तिय स्वार्थ २०२० केंका २०४० केंका २०२० के तेका २०२० के २०२० के २०२० के	भवा मिल्छे उमेक वर्तने का से किल् प्राप्त प्राप्त के प	तिर्फट (*) प्रश्नामगैरा कोर्टम के उपसम्पति के किर्फे के प्रश्न के प्रस्त के प्रश्न के प्रस्त के प्रस्त के प्रस प्रारम् अपनि के प्रतिकार के प्र तथा प्रतिकार के प्रतिका तथा प्रतिकार के प्रतिकार के तथा प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के के प्रतिकार के तथा के प्रतिकार के क	स्वित संवर्धन्त (३३ पर स्वे जी वक्यूस पुर्वेश्व स्वे जी वक्यूस पुर्वे प्रान्त व्यक्ती प्रार्थ स्वे जी स्वे की स्वे प्रार्थ स्वे की विद्युं के स्वे की स्वे की विद्युं के स्वे की स्वे की विद्युं के स्वे की स्वे की विद्युं के स्वे स्वे की स्वे की विद्युं के स्वे की स्वे की स्वे की विद्युं के स्वे की स्वे की स्वे की स्वे की की की की की स्वे की स्वे की स्वे की स्वे की स्वे की की की की स्वे की स्वे की स्वे की	ाला जेलि का जानवाले तेला में सार्वण के का जावनां के सार्वण में सार्वण के सार्वण के सार्वण में के प्राय्य के सार्वण के सार्वण में के प्राय्य के सार्वण के सार्वण में के सार्वण के सार्वण में सार्वण के सार्वण के सार्वण के सार्वण के सार्वण में सार्वण के सार्वण के सार्वण के सार्वण के सार्वण के सार्वण मार्वण के सार्वण के सार्वण के सार्वण के सार्वण के सार्वण के सार्वण मार्वण के सार्वण के	साराय प्रभागित अप्रिंग (सिन्म) प्र स प्रमाय जानेग (स्वाय) पित के स्वार्थ प्रसाद के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ प्रित के स्वार्थ के स स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार स्वार्थ के स्वार स्वार्थ के स्वार्थ के स	१) काले () (हि. क्यू के क्यू के क्यू के क्यू के क क्यू के क्यू के क्यू के क्यू के क	विश्वर कोशीन प्रायदेव इंग) (मुप्राप्ता) विश्व व्या जीन प्रायतः () मांग प्रदेश कारणांग मांग प्रदेश कारणांग मांग प्रविद्य प्रायता प्रत्यनिकन्त वेशे आति प्रायता प्रत्यनिकन्त कारणां प्रत्याता प्रत्यनिकन्त व्या देशे प्रायता प्रायता प्रत्यनिक मांग कारणां प्रत्याता प्रत्यान कारणां प्रत्याता प्रत्यान कारणां प्रत्याता प्रत्यान कारणां प्रत्यान प्रत्यान कारणां प्रत्यान प्रत्यान कारणां प्रत्यान प्रत्यान कारणां प्रत्यान कारणां कारणां प्रत्यान कारणां कारणां प्रत्यान कारणां कारणा कारणां कारणां कारणां कारणा कारणा कारणां कारणां कारण		प्रस्तिका प्रस्तिका प्रस्तका प्रस्तका प्रस्तक	पुष्टा संसल्योग ता पुष्टांचा आगीका पुष्टांचा आगीका (मार्ग २०२२ तेले आ कि स्त्री अंध संपत्त कि स्त्री अंध संत्र कि स्त्री अंध संत्र कि स्त्री अंध संत्र कि स्त्री अंध संत्र कि स्त्री संत्र कि स्त्री अंध संत्र कि स्त्री अंध संत्री अंध संत्र कि स्त्री अंध संत्र कि स्त्री अंध संत्र कि स्त्री अंध संत्र कि स्त्री संत्र कि स्त्री संत्र कि स्त्री कि स्त्री संत्र कि स्त्री संत्र क	2155.20 - - - - - - - - - - - - -		c. 3 c. 1 c. - st. -		2115.20 2111 (1990) 2111 (1990	
वनावट ठढ ठढ तेरदार हे. हे. हे. हे. हे. हे. हे. हे. हे. हे.	। भूतित पर २०३१-२० विंता जीवे पुरुष १७ २० अल्पाल पर्यतः । २० विंता प्रयाप वृष्ट प्राया आत्माल प्रायं २ भारे २०२० जिसक २० विंता प्रयाप वृष्ट प्राया आत्माल पर २० अपि २०२० जिसक २० विंता विंता प्रयाप आत्माल पर्यता । २० वर्ष प्रविश्वय प्राया प्रयाप वर्ष भारे २०२० जिसक २० वर्ष प्रविश्वय प्राया प्रयाप वर्ष भारे २०२० जिसक २० वर्ष प्रविश्वय प्राया प्रवेश प्राया २०२० २० वर्ष प्रविश्वय प्राया प्रवेश प्राया प्रयाप का जिस वर्ष प्रायता प्राया प्रवेश प्राया प्रवाप का क्रिये २० वर्ष प्रविश्वय प्राया प्रवेश प्राया प्रयाप प्रायता प्राया प्रवेश प्रायता प्रवेश का क्रिया । २० वर्ष प्रविश्वय प्राया प्रवेश प्राया प्राया प्रायता प्राया प्रवेश प्रवेश प्रायता प्राया प्रायता प्रायता प्रवेश प्रवेश प्रवेश प्रायता । २० वर्ष प्रायति प्रवेश प्रवेश का क्राया प्राया प्रायता प्रायता प्रवेश का व्याय प्रायता प्राया भाष्या २० वर्ष प्रायता प्रायता प्रवेश प्रवेश प्रायता । २० वर्ष प्रायति अत्य प्रवेश का व्याय प्रायता प्राया भाष्या विंता : २० वर्ष प्रायति प्रायता प्रायत्व प्रायता प्राया भाष्या वेष्या प्रायता - २० वर्ष प्रायति प्रवेश का क्याय प्रायता प्राया भाष्या वेष्या प्राया २० वर्ष प्रायति आत्म व्याय का प्रायता ते के ति सिर्वेश २० वर्ष प्रायति उत्तराप्यता प्रायता प्राया भाष्या विंता : २० वर्ष प्रायति उत्तराप्यता प्रायता का आत्मा विंता निंता : वर्ष मात्म प्रायता क्याया प्रायता वेष्या प्रायता मात्मा ने प्रायता प्राया मात्मा ने निर्वेत स्वरंगा व्ययता वेष्या प्राया प्राया गाणा प्रायता न्यू प्रवेश उत्यताप्रायता प्राया प्रायता के आधी प्रायता स्वरंगा निर्वेश का क्याया प्राया गाणा काता न्यू व प्रायति उत्यताप्रायता के प्रायति विंती : त्या मातिर्गत्ते त्या प्रायत प्रायताती भाष्या स्वरंग का क्याया स्वरा ना विंता निर्वता : त्या या सातिर्गते ते त्याय प्रायता क्याया स्वरा ना निरितेति स्वरंग : त्या या सातिर्गत्ते त्याय के प्रायति विंता : त्या सात्य स्वरंग्याते के प्रायत्व के प्रायत्व विंता : त्या सात्य स्वरंग स्वरंग स्वरंग स्वरंग स्वरंग सात्वा विंताति स्वरंग स्वरंग : त्या सातिर्गत्ते स्वरंग स्वरंग सात्र ते प्राय सिंता स्वरंग सात्ते स्वराति स्वराति स्वराति स्वरति सात्र सिति : वा वातात्तात्ता : ता वातात्तात्ता : त्या ता ते प्राय सि	भवा मिल्ले आगे आविस केले आज आज (जासील मार्थेना कि प मध्रे आये) आगे कार्यर आये () केल्ट्रां मार मवर्पर आये () केल्ट्रां मार मवर्पर आये () केल्ट्रां मार मवर्पर प्राप्त प्राप्त प्राप्त केल्ट्रां केल्ट्रां केल्ट्रां बेल्ट्रां केल्ट्रां केल्ट्रां बेल्ट्रां केल्ट्रां केल्ट्रां बेल्ट्रां केल्ट्रां केल्ट्रां बेल्ट्रां केल्ट्रां केल्ट्रां बार प्राप्त सार प्राप्त आपि बार प्राप्त आये प्राप्त केल्ट्रा बार प्राप्त आये प्राप्त केल्ट्रा बार प्राप्त आये प्राप्त केल्ट्रा बार प्राप्त अल्वा प्राप्त आपि बार प्राप्त आये प्राप्त केल्ट्रा बार प्राप्त आये प्राप्त केल्ट्रा बार केल्रा बार केल्ट्र	तिर्फट (*) प्रश्नामगैरा कोर्टम के उपसम्पति के किर्फे के प्रश्न के प्रस्त के प्रश्न के प्रस्त के प्रस्त के प्रस प्रारम् अपनि के प्रतिकार के प्र तथा प्रतिकार के प्रतिका तथा प्रतिकार के प्रतिकार के तथा प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के के प्रतिकार के तथा के प्रतिकार के क	बिरेल स्वरद्ध (इव. ए	पर आगे कहा यह का करवे के किस के के किस के के किस के के किस के किस के किस के के किस के के किस के	कात्राय प्रभागित अलिम प्रा कारण अलीम जिस किर प्रमान किस	१) काले () (हि. क्यू के क्यू के क्यू के क्यू के क क्यू के क्यू के क्यू के क्यू के क	विश्वस कोचीन प्रायदेव इंग) (गुप्राथ्य) विश्व ब्या जीन एक्स 2017) सेंग प्रायंत्र प्रबंध का जाने का जाने सेंग प्रायंत्र प्रायंत्र किया प्रायंत्र के आते. प्रायंत्र प्रायंत्रिक में प्रायंत्र का प्रायंत्र प्रायंत्रिक में ब्यायंत्र प्रायंत्रिक में ब्यायंत्र प्रायंत्रिक में ब्यायंत्र प्रायंत्रिक में ब्यायंत्र प्रायंत्रिक में ब्यायंत्र प्रायंत्र के ब्यायंत्र का प्रायं प्रायंत्र के ब्यायंत्र का प्रायं प्रायंत्र के ब्यायंत्र का प्रायंत्र का प्रायंत्र का प्रायंत्र का प्रायंत्र के ब्यायंत्र का प्रायंत्र के ब्यायंत्र प्रायंत्र के ब्यायंत्र का प्रायंत्र के ब्यायंत्र का प्रायंत्र के ब्यायंत्र का प्रायंत्र के ब्यायंत्र का प्रायंत्र के ब्यायंत्र के व्यायंत्र के व्यायंत्य के व्यायंत्र के व्यायंत्र के व्यायंत्र के व	भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग	परिया • 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - <td>स स स स स स स स स स स स स</td> <td>2155,80 0,505</td> <td></td> <td>c. 3 c. 1 c. - st. -</td> <td></td> <td>الله: الله: الله: الله: الله:<!--</td--><td>٥٠, ٢٥٢, ٢ ٥٠, ٢٥٢, ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 1</td></td>	स स स स स स स स स स स स स	2155,80 0,505		c. 3 c. 1 c. - st. -		الله: الله: الله: </td <td>٥٠, ٢٥٢, ٢ ٥٠, ٢٥٢, ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 1</td>	٥٠, ٢٥٢, ٢ ٥٠, ٢٥٢, ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 1
वनावट ठढ ठढ तेरदार हे, हे, हे, हे के कारे. हे, हे के कारे. हे, ते काणि वे कि कारे. हे, जारिपती दनांच्या प्रकार का का का प्रकार का प्रकार का का प्रकार का प्रकार का का प्रकार का का प्रकार का का प्रकार का क	। भूतित पर २०३१-२० विंता जीवे पुरुष १७ २० अल्पाल पर्यतः । २० विंता प्रयाप वृष्ट प्राया आत्माल प्रायं २ भारे २०२० जिसक २० विंता प्रयाप वृष्ट प्राया आत्माल पर २० अपि २०२० जिसक २० विंता विंता प्रयाप आत्माल पर्यता । २० वर्ष प्रविश्वय प्राया प्रयाप वर्ष भारे २०२० जिसक २० वर्ष प्रविश्वय प्राया प्रयाप वर्ष भारे २०२० जिसक २० वर्ष प्रविश्वय प्राया प्रवेश प्राया २०२० २० वर्ष प्रविश्वय प्राया प्रवेश प्राया प्रयाप का जिस वर्ष प्रायता प्राया प्रवेश प्राया प्रवाप का क्रिये २० वर्ष प्रविश्वय प्राया प्रवेश प्राया प्रयाप प्रायता प्राया प्रवेश प्रायता प्रवेश का क्रिया । २० वर्ष प्रविश्वय प्राया प्रवेश प्राया प्राया प्रायता प्राया प्रवेश प्रवेश प्रायता प्राया प्रायता प्रायता प्रवेश प्रवेश प्रवेश प्रायता । २० वर्ष प्रायति प्रवेश प्रवेश का क्राया प्राया प्रायता प्रायता प्रवेश का व्याय प्रायता प्राया भाष्या २० वर्ष प्रायता प्रायता प्रवेश प्रवेश प्रायता । २० वर्ष प्रायति अत्य प्रवेश का व्याय प्रायता प्राया भाष्या विंता : २० वर्ष प्रायति प्रायता प्रायत्व प्रायता प्राया भाष्या वेष्या प्रायता - २० वर्ष प्रायति प्रवेश का क्याय प्रायता प्राया भाष्या वेष्या प्राया २० वर्ष प्रायति आत्म व्याय का प्रायता ते के ति सिर्वेश २० वर्ष प्रायति उत्तराप्यता प्रायता प्राया भाष्या विंता : २० वर्ष प्रायति उत्तराप्यता प्रायता का आत्मा विंता निंता : वर्ष मात्म प्रायता क्याया प्रायता वेष्या प्रायता मात्मा ने प्रायता प्राया मात्मा ने निर्वेत स्वरंगा व्ययता वेष्या प्राया प्राया गाणा प्रायता न्यू प्रवेश उत्यताप्रायता प्राया प्रायता के आधी प्रायता स्वरंगा निर्वेश का क्याया प्राया गाणा काता न्यू व प्रायति उत्यताप्रायता के प्रायति विंती : त्या मातिर्गत्ते त्या प्रायत प्रायताती भाष्या स्वरंग का क्याया स्वरा ना विंता निर्वता : त्या या सातिर्गते ते त्याय प्रायता क्याया स्वरा ना निरितेति स्वरंग : त्या या सातिर्गत्ते त्याय के प्रायति विंता : त्या सात्य स्वरंग्याते के प्रायत्व के प्रायत्व विंता : त्या सात्य स्वरंग स्वरंग स्वरंग स्वरंग स्वरंग सात्वा विंताति स्वरंग स्वरंग : त्या सातिर्गत्ते स्वरंग स्वरंग सात्र ते प्राय सिंता स्वरंग सात्ते स्वराति स्वराति स्वराति स्वरति सात्र सिति : वा वातात्तात्ता : ता वातात्तात्ता : त्या ता ते प्राय सि	भवा मिल्ले आगे आविस केले आज आज (जासील मार्थेना कि प मध्रे आये) आगे कार्यर आये () केल्ट्रां मार मवर्पर आये () केल्ट्रां मार मवर्पर आये () केल्ट्रां मार मवर्पर प्राप्त प्राप्त प्राप्त केल्ट्रां केल्ट्रां केल्ट्रां बेल्ट्रां केल्ट्रां केल्ट्रां बेल्ट्रां केल्ट्रां केल्ट्रां बेल्ट्रां केल्ट्रां केल्ट्रां बेल्ट्रां केल्ट्रां केल्ट्रां बार प्राप्त सार प्राप्त आपि बार प्राप्त आये प्राप्त केल्ट्रा बार प्राप्त आये प्राप्त केल्ट्रा बार प्राप्त आये प्राप्त केल्ट्रा बार प्राप्त अल्वा प्राप्त आपि बार प्राप्त आये प्राप्त केल्ट्रा बार प्राप्त आये प्राप्त केल्ट्रा बार केल्रा बार केल्ट्र	तिर्फट (*) प्रश्नामगैरा कोर्टम के उपसम्पति के किर्फे के प्रश्न के प्रस्त के प्रश्न के प्रस्त के प्रस्त के प्रस प्रारम् अपनि के प्रतिकार के प्र तथा प्रतिकार के प्रतिका तथा प्रतिकार के प्रतिकार के तथा प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के के प्रतिकार के तथा के प्रतिकार के क	बिरे स्वर्थन्त (के दि स्वर्णने स्वर्थन्त (के स्वर्थन्त (के स्वर्थन्त (के स्वर्थन्त (के स्वर्थन्त (के स्वर्थन्त (के स्वर्थन्त के स्वर्णने के स्वर्णने स्वर स्वर्णने स्वर्णने स्व स्वरत्यात् स्वर्णने स्वरत्यात् स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने	ा का नेता के प्रात्म के प्रा	सारामा पर्नेशिक संवर्गना सिंह के सिंह क सिंह के सिंह क सिंह के सिंह क सिंह के सिंह के सिंह सिंह के सिंह के	१) काले () (हि. क्यू के क्यू के क्यू के क्यू के क क्यू के क्यू के क्यू के क्यू के क	विश्वर कोशीन प्रायदेव इंग) (मुप्राप्ता) विश्व व्या जीन प्रायतः () मांग प्रदेश कारणांग मांग प्रदेश कारणांग मांग प्रविद्य प्रायता प्रत्यनिकन्त वेशे आति प्रायता प्रत्यनिकन्त कारणां प्रत्याता प्रत्यनिकन्त व्या देशे प्रायता प्रायता प्रत्यनिक मांग कारणां प्रत्याता प्रत्यान कारणां प्रत्याता प्रत्यान कारणां प्रत्याता प्रत्यान कारणां प्रत्यान प्रत्यान कारणां प्रत्यान प्रत्यान कारणां प्रत्यान प्रत्यान कारणां प्रत्यान कारणां कारणां प्रत्यान कारणां कारणां प्रत्यान कारणां कारणा कारणां कारणां कारणां कारणा कारणा कारणां कारणां कारण		प्रस्तिका प्रस्तिका प्रस्तका प्रस्तका प्रस्तक	पुष्टा संसल्योग ता पुष्टांचा आगीका पुष्टांचा आगीका (मार्ग २०२२ तेले आ कि स्त्री अंध संपत्त कि स्त्री अंध संत्र कि स्त्री अंध संत्र कि स्त्री अंध संत्र कि स्त्री अंध संत्र कि स्त्री संत्र कि स्त्री अंध संत्र कि स्त्री अंध संत्री अंध संत्र कि स्त्री अंध संत्र कि स्त्री अंध संत्र कि स्त्री अंध संत्र कि स्त्री संत्र कि स्त्री संत्र कि स्त्री कि स्त्री संत्र कि स्त्री संत्र क	2155.20 - - - - - - - - - - - - -		c. 3 c. 1 c. 1 st. 1		2115.20 2111 (1990) 2111 (1990	
वनावर रुद तेद्वा तेदवाः हे हे हे देवा तेदव्य वेद्व आणि वेदवाः तेदवाः तेदवाः तेदवाः तेदवाः तेदवाः त्या तेदवाः तेदवाः तेदवाः तेदवाः तेदवाः तेदवाः तेदवाः तेदवाः तेदवाः तेदवाः तेदवाः तेदवाः तेदवाः तेदवाः त्या त्या तेदवाः त्या त्या तेदवाः त्या त्या तेदवाः त्या तेदवाः त्या तेदवाः त्या तेदवाः त्या तेदवाः त्या तेदवाः त्या तेदवाः त्या तेदवाः त्या त्या तेदवाः त्या तेदवाः त्या तेदवाः त्या तेदवाः त्या तेदवाः त्या तेदवाः त्या तेदवाः त्या त्या त्या त्या त्या त्या त्या त्या	। भू किंत के 2021-22 महीता के 2021 कि 10 कालांग करीका के 2022 कि 2022 a 2022	भवा मिल्छे दोनी का वर्तिक कुछे राजवा तुन्दानिक व्याप्त 20 पत्र वर्ध आधित हिंदा करवार 20 साम कर्पल जाई () केंद्रस्ट्री या भ्रम्भवेद (पत्राप्त प्रवास करवा साम कर्पल जाई () केंद्रस्ट केंद्र साम करवार जाई () केंद्रस्ट केंद्र साम करवार जाई () केंद्रस्ट केंद्र साम करवार जाई () केंद्रस्ट केंद्रस्ट केंद्र केंद्र जा करवला मा भारत केंद्र प्र प्रवास करवा का जाना वास्ति केंद्र जा करवला भारत केंद्रस्ट केंद्र केंद्र जा करवला के केंद्र () केंद्रस्ट केंद्र साम केंद्र () केंद्रस्ट केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र साम केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र साम केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र साम केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र साम केंद्र केंद्र साम केंद्र केंद	तिर्फट (*) प्रश्नामगैरा कोर्टम के उपसम्पति के किर्फे के प्रश्न के प्रस्त के प्रश्न के प्रस्त के प्रस्त के प्रस प्रारम् अपनि के प्रतिकार के प्र तथा प्रतिकार के प्रतिका तथा प्रतिकार के प्रतिकार के तथा प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के के प्रतिकार के तथा के प्रतिकार के क	स्विर संतर्शन्त (इव र स्वे जी वक्यून पुरिक्षे क्यू पुरिक्षे स्वे जी वक्यून पुरिक्षे क्यू पुरिक्षे स्वे जी क्यू प्राप्त कर्या हे बात क्यू प्राप्त कर के क्यू प्राप्त के बात क्यू प्राप्त कर के क्यू प्राप्त कर के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त कर के क्यू प्राप्त कर के क्यू प्राप्त कर के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त कर के क्यू प्राप्त कर के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू के क्यू के क्यू के क्यू प्राप्त के क्यू के क्यू के क्यू के क्यू के क्यू के क्यू के के क्यू के क्यू के के क्यू के के के क्यू के के क्यू के के क्यू के के के क्यू के क्यू के के क्यू के के के के के के क्यू के क्यू के क्यू के	त्वा कारण्यं जी लिया के जा कारण्यं के विकास के के कारण्यं के निर्वेशक के के कारण्यं के निर्वेशक के के कारण्यं के निर्वेशक के के किल्का के के किल्का के के किल्का के किल्का कि किल्का कि किला कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि	सारा प्रभावित करें। सा प्रमाय आयोग होकिएन कि रिदे प्रमाय करें के सार्वे के सार सार्वे के सार्वे के सार्व के सार्वे के सार्व के सार्व के सार्वे के सार सार्वे के सार्वे क सार्वे के सार्वे के सा	१) काले () (हि. क्यू के क्यू के क्यू के क्यू के क क्यू के क्यू के क्यू के क्यू के क	विश्वर कोशीन प्रायदेव इंग) (मुप्राप्ता) विश्व व्या जीन प्रायतः () मांग प्रदेश कारणांग मांग प्रदेश कारणांग मांग प्रविद्य प्रायता प्रत्यनिकन्त वेशे आति प्रायता प्रत्यनिकन्त कारणां प्रत्याता प्रत्यनिकन्त व्या देशे प्रायता प्रायता प्रत्यनिक मांग कारणां प्रत्याता प्रत्यान कारणां प्रत्याता प्रत्यान कारणां प्रत्याता प्रत्यान कारणां प्रत्यान प्रत्यान कारणां प्रत्यान प्रत्यान कारणां प्रत्यान प्रत्यान कारणां प्रत्यान कारणां कारणां प्रत्यान कारणां कारणां प्रत्यान कारणां कारणा कारणां कारणां कारणां कारणा कारणा कारणां कारणां कारण		परिया • 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - <td>स स स स स स स स स स स स स</td> <td>2155.20 - - - - - - - - - - - - -</td> <td></td> <td>c. 3 c. 1 c. 1 st. 1</td> <td></td> <td>الله: الله: <t< td=""><td>٥٠, ٢٥٢, ٢ ٥٠, ٢٥٢, ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 1</td></t<></td>	स स स स स स स स स स स स स	2155.20 - - - - - - - - - - - - -		c. 3 c. 1 c. 1 st. 1		الله: الله: <t< td=""><td>٥٠, ٢٥٢, ٢ ٥٠, ٢٥٢, ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 1</td></t<>	٥٠, ٢٥٢, ٢ ٥٠, ٢٥٢, ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 1
मा डीग्दीसी वि मा के कि	। भू किंत के 2021-22 महीता के 2021 कि 10 कालांग करीका के 2022 कि 2022 a 2022	भवा भिष्ठ्ये आणि अवसिंग कर्यु आणा कुमार्गिक प्राथमाउ कर मार्गे प भवी अस्थित करणाव के 10 के स्थान मार्ग भवीत (वांस् प्रायम् प्रायम् प्रायम् प्रायम् प्रायम् प्रायम् प्रायम्	तिर्फट (*) प्रश्नामगैरा कोर्टम के उपसम्पति के किर्फे के प्रश्न के प्रस्त के प्रश्न के प्रस्त के प्रस्त के प्रस प्रारम् अपनि के प्रतिकार के प्र तथा प्रतिकार के प्रतिका तथा प्रतिकार के प्रतिकार के तथा प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के प्रतिकार के के प्रतिकार के तथा के प्रतिकार के क	स्विर संतर्शन्त (इव र स्वे जी वक्यून पुरिक्षे क्यू पुरिक्षे स्वे जी वक्यून पुरिक्षे क्यू पुरिक्षे स्वे जी क्यू प्राप्त कर्या हे बात क्यू प्राप्त कर के क्यू प्राप्त के बात क्यू प्राप्त कर के क्यू प्राप्त कर के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त कर के क्यू प्राप्त कर के क्यू प्राप्त कर के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त कर के क्यू प्राप्त कर के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू प्राप्त के क्यू के क्यू के क्यू के क्यू प्राप्त के क्यू के क्यू के क्यू के क्यू के क्यू के क्यू के के क्यू के क्यू के के क्यू के के के क्यू के के क्यू के के क्यू के के के क्यू के क्यू के के क्यू के के के के के के क्यू के क्यू के क्यू के	ा का नेता के प्रात्म के प्रा	सारा प्रभावित करें। सा प्रमाय आयोग होकिएन कि रिदे प्रमाय करें के सार्वे के सार सार्वे के सार्वे के सार्व के सार्वे के सार्व के सार्व के सार्वे के सार सार्वे के सार्वे क सार्वे के सार्वे के सा	१) काले () (हि. क्यू के क्यू के क्यू के क्यू के क क्यू के क्यू के क्यू के क्यू के क	विश्वर कोशीन प्रायदेव इंग) (मुप्राप्ता) विश्व व्या जीन प्रायतः () मांग प्रदेश कारणांग मांग प्रदेश कारणांग मांग प्रविद्य प्रायता प्रत्यनिकन्त वेशे आति प्रायता प्रत्यनिकन्त कारणां प्रत्याता प्रत्यनिकन्त व्या देशे प्रायता प्रायता प्रत्यनिक मांग कारणां प्रत्याता प्रत्यान कारणां प्रत्याता प्रत्यान कारणां प्रत्याता प्रत्यान कारणां प्रत्यान प्रत्यान कारणां प्रत्यान प्रत्यान कारणां प्रत्यान प्रत्यान कारणां प्रत्यान कारणां कारणां प्रत्यान कारणां कारणां प्रत्यान कारणां कारणा कारणां कारणां कारणां कारणा कारणा कारणां कारणां कारण		परिया • 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - <td>स स स स स स स स स स स स स</td> <td>2155.20 - - - - - - - - - - - - -</td> <td></td> <td>c. 3 c. 1 c. 1 st. 1</td> <td></td> <td>الله: الله: <t< td=""><td>٥٠, ٢٥٢, ٢ ٥٠, ٢٥٢, ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 1</td></t<></td>	स स स स स स स स स स स स स	2155.20 - - - - - - - - - - - - -		c. 3 c. 1 c. 1 st. 1		الله: الله: <t< td=""><td>٥٠, ٢٥٢, ٢ ٥٠, ٢٥٢, ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 1</td></t<>	٥٠, ٢٥٢, ٢ ٥٠, ٢٥٢, ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ 1

नाहा) १. मूळ २. सीम्य \$ 9.8 \$2.5 1.54 8.40 3.84 n समिती चातुरे चाहण्यात आस्ता आहे च () रु. १ प्रति रोजर वर्ष अखेर ३१ मार्च, जेवारी स्लून लेखापीवित अख्याल संखें एक्सचेजेल सम्प्रेन दाखाल तिमाही च अ र्वसित बिसीय अहबात त (एफस्टी रू. ५ प्रति र बेर आकडेवारी उर्वरित : प्रदूपे दि. २७ मे, २०२४ रोजी आयोजित केली आहे. सर्वताप्रत्या समोकरिता मंजूर केले आहे. सन्या निवाहीकरीता प्रसिद्ध केला होता. किलन प्राच्याचा सारांज आहे. विनीध आव्यालाचा

3.36

सही/-सुरेश भाषेरिया अध्यक्ष : ००५४०२८५

संचलन्तः । करिता वार्षिक सर्वसायार गेव वर्षाच्या तिसऱ्या तिम ^{केन} भरवालाचे किरतृत !

त. नीता नामे भग स्वाभरी / -ापकीय संचालक । • ०३२८२०४४

ा स्थानिक के प्राप्त के के प्राप्त के कि प्राप्त के क्रि के प्राप्त के के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के के प्राप्त के